

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4

PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

M
15/3/73

सं० 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 26, 1973/माघ 6, 1894

No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 26, 1973/MAGHA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 जनवरी 1973

सं० 2—ई तारीख 24 जनवरी 1973.—राष्ट्रपति निम्नलिखित जे सी ओ को
26 जनवरी 1973 से सेना नियमावली 1962 पैरा 178 के आधीन अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं:-

अवैतनिक कप्तान के रैंक में

3 केवलरी

1 जे सी 6270 रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट निहाल सिंह

दी सेन्द्रल इंडिया हार्स

2 जे सी 29007 रिसालदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट जगदीश सिंह, वीरचक्र

71 आर्मड रेजिमेंट

3 जे सी 7961 रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट रमाल सिंह

रेजिमेंट ग्राफ ग्राटिलरी

4	जे सी 6305	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बद्धावर सिंह
5	जे सी 5201	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	माम चंद
6	जे सी 299	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	एम एम करियाप्पा
7	जे सी 10606	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सीडू डुडेड़
8	54779 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सिद्धेश्वर जोंको

मद्रास इंजिनियर ग्रुप

9	45679 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	के एथेनिसिम
10	60570 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	के पी मधावा सैनन

बोम्बे इंजिनियर ग्रुप

11	जे सी 6676	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बन्ता सिंह
12	जे सी 5796	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	भीम राव पाटिल
13	जे सी 7052	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	दलीप सिंह
14	जे सी 5793	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	नरायण गादेव
15	जे सी 777	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	शिवराम प्रब

कोर ग्राफ सिगनल्स

16	34641 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	एन डोगाण स्वामी
17	जे सी 1030	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	नरायण दत्त
18	34645 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	एस जेम्ज चेलेइया
19	जे सी 6004	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	त्रिलोचन सिंह

दी पंजाब रेजिमेंट

20	जे सी 8430	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	अमरजीत सिंह
----	------------	----------------------------------	-------------

दी मद्रास रेजिमेंट

21	जे सी 1443	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	डी फ्रांसिस अन्थोनी इडन
22	जे सी 4782	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	आर गोपाला पिल्ले

दी मराठा लाइटइन्फेन्ट्री

23	जे सी 1623	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	चन्द्रकांत शिन्दे
24	जे सी 6355	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	लक्ष्मण मालोंकी, वीर चक्र

दी राजपूताना राइफल्स

25	जे सी 5259	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सरदार सिंह
26	जे सी 5497	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सुरज भान सिंह

दी राजपूत रेजिमेंट

27	6863 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	दुली चंद
28	जे सी 12419	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	गोरधन सिंह
29	11150 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	कमल राम, विक्टोरिया क्रॉस

बी राजपूत रेजिमेंट—जारी

30	6388 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	कृष्ण दत्त
31	जे सी 5651	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	जर्मानदार सिंह

दी जाट रेजिमेंट

32	जे सी 4814	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	भरत सिंह
33	जे सी 5652	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	मुख्त्यार सिंह

दी सिख लाइट इन्फेन्ट्री

34	जे सी 4821	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बतन सिंह
35	जे सी 2124	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	चानन सिंह
36	61949 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	महेन्द्र सिंह, शोरी चक्र
37	जे सी 6028	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	प्रीतम सिंह, सेना मेडल
38	जे सी 2087	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	वासन सिंह

दी डोगरा रेजिमेंट

39	जे सी 5162	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	अर्जन देव
40	जे सी 5160	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	काका राम

दी गढ़वाल राइफल

41	जे सी 10213	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बचन सिंह राना
42	जे सी 10782	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	नरायण सिंह रावत

दी कुमायू रेजिमेंट

43	जे सी 6876	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बच्छी सिंह
44	जे सी 6451	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	राम सिंह

दी आसाम रेजिमेंट

45	जे सी 6031	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	द्वारकानाथ राजभोगसी
46	जे सी 6039	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	हमी नगसी आना लुशाई
47	जे सी 7133	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	लालटीनखुमा लुशाई

दी बिहार रेजिमेंट

48	58847 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	मासी दास गुरीया
49	जे सी 2461	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	राम अजोध्या सिंह

4 गोरखा राइफल

50	जे सी 6744	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	प्रीतमसिंह राना, आई डी एस एम
----	------------	----------------------------------	------------------------------

8 गोरखा राइफल

51	जे सी 6207	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	जुधबीर थापा
----	------------	----------------------------------	-------------

आर्मी सरविस कोर (सप्लाइ)

52	32791 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (स्टोर) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	हरी सिंह
53	32997 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (स्टोर) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	हर कृष्ण लाल टंडन
54	32767 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (स्टोर) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	महताब सिंह नोहवर
55	34477 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (स्टोर) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	प्यारा सिंह
56	32874 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (स्टोर) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	प्रभुधन राना, वीरचक्र

आर्मी सरविस कोर (मकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

57	42275 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	ए मोनदीरो
58	44757 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	जोन रोलैंड क्रिश्चियन
59	44770 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	आर कृष्णन

आर्मी मेडिकल कोर

60	जे सी 3293	सूबेदार मेजर (एए) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	के प्रभाकरन
61	जे सी 3339	सूबेदार मेजर (एस टी ए) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	राम अघार
62	ज सी 58417	सूबेदार (लेफ्ट एसिसटेंट) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	एम एम चैटर्जी
63	जे सी 13928	सूबेदार (एस ए) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	एस के चौधरी

आर्मी आर्टिलेरी कोर

64	32231 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बूआ राम
65	32345 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	भूनी लाल
66	50150 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	नोरमन स्टैनले राव
67	32221 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	प्रोबत कुमार अट्टाचार्जी

कोर आफ इलेक्ट्रीकल व मेकनिकल इंजीनियरस

68	जे सी 61040	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बलशीश सिंह
69	जे सी 3655	सूबेदार मेजर आनरेरी लैफ्टिनेंट	गुरबखश सिंह
70	57307 जे सी	सूबेदार मेजर आनरेरी लैफ्टिनेंट	गुरचरन दास
71	54168 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	के करगीस मेथु
72	56045 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	पंकज मोहन दास गप्ता
73	57844 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	संतोख सिंह
74	54160 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बरगीस चेरियन
75	ज सी 57304	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	यश पाल

आर्मी ऐजुकेशनल कोर

76	44224 जे सी	सूबेदार मेजर व आन रेरी लैफ्टिनेंट	दर्शन सिंह
77	47957 जे सी	सूबेदार मेजर व आन रेरी लैफ्टिनेंट	सीता राम

वी हटैलिजेंस कोर

78	55332 जे सी	सूबेदार मेजर व आन रेरी लैफ्टिनेंट	जानी राम
----	-------------	-----------------------------------	----------

वी पार्सिनियरस कोर

79	जे सी 9261	सूबेदार मेजर (जी डी) व आन रेरी लैफ्टिनेंट	इन्दु राज
----	------------	--	-----------

असैनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में

7 कवेलरी

1	जे सी 16055	रिसालदार	प्यारा सिंह
---	-------------	----------	-------------

8 कवेलरी

2	जे सी 9151	रिसालदार मेजर	काबुल सिंह
---	------------	---------------	------------

1 होर्स

3	जे सी 12211	रिसालदार मेजर	अमर सिंह
---	-------------	---------------	----------

2 लांसर्स

4	जे सी 22738	रिसालदार	अमर सिंह
---	-------------	----------	----------

14 होर्स

5	जे सी 8911	रिसालदार मेजर	गुरदयाल सिंह
---	------------	---------------	--------------

62 कवेलरी

6	जे सी 9908	रिसालदार मेजर	गंधर्व सिंह
---	------------	---------------	-------------

63 कवेलरी

7	जे सी 6664	रिसालदार मेजर	इबन सिंह
---	------------	---------------	----------

70 आर्मड रजिमेंट

8	जे सी 12044	रिसालदार मेजर	उमेश सिंह
---	-------------	---------------	-----------

रेजिमेंट आफ ऑटिलरी

9	जे सी 5397	सूबेदार मेजर कल्क (जी डी)	स्वर्ण सिंह
10	जे सी 7364	सूबेदार मेजर	अमबरोसिस
11	जे सी 4066	सूबेदार मेजर	आमू सिंह
12	जे सी 6291	सूबेदार मेजर	ब्रम्ह दत्त
13	जे सी 5080	सूबेदार मेजर	बिदेसरी

रेजिमेंट ग्राफ ग्राहिलरी—जारी

14	जे सी 5864	सूबेदार मेजर	चिदम्बरम
15	जे सी 14381	सूबेदार मेजर	वलीप सिंह
16	जे सी 10619	सूबेदार मेजर	दर्शन सिंह
17	जे सी 6787	सूबेदार मेजर	धीसा राम
18	जे सी 10817	सूबेदार मेजर	गूरमेल सिंह
19	जे सी 6103	सूबेदार मेजर	हरदीप सिंह
20	जे सी 8475	सूबेदार मेजर	हरजीत सिंह
21	जे सी 6307	सूबेदार मेजर	कल्याण सिंह
22	जे सी 5227	सूबेदार मेजर	खेम चंद
23	जे सी 17407	सूबेदार मेजर	लाल सिंह
24	जे सी 18892	सूबेदार मेजर	माणे राम
25	जे सी 8743	सूबेदार मेजर	मुख राम
26	जे सी 12973	सूबेदार मेजर	मुंशी राम
27	जे सी 5197	सूबेदार मेजर	एन ए बेरियन
28	जे सी 6783	सूबेदार मेजर	पी परांगोधन
29	जे सी 312	सूबेदार मेजर	पह्लाद सिंह
30	जे सी 8482	सूबेदार मेजर	प्रभु बखाल
31	जे सी 6798	सूबेदार मेजर	रामा दाम इ
32	जे सी 7027	सूबेदार मेजर	संकरा नायर
33	जे सी 14364	सूबेदार मेजर	शिव राम
34	जे सी 6287	सूबेदार मेजर	सुरत सिंह
35	जे सी 21090	सूबेदार मेजर (एस के टी)	सी पूबिहा
36	जे सी 24259	सूबेदार	चंदू राम
37	जे सी 17335	सूबेदार	हरबंस सिंह
38	जे सी 29051	सूबेदार	खूबी राम

मद्रास इंजिनियर ग्रुप

39	जे सी 11460	सूबेदार मेजर	पी पी जोस्फ
40	जे सी 918	सूबेदार मेजर	एस पिट्टचायिहा
41	जे सी 7034	सूबेदार मेजर	शिवलिभम
42	जे सी 8571	सूबेदार मेजर	वि पी लज्जर
43	जे सी 57910	सूबेदार मेजर	यशुपथम डैनियलस
44	जे सी 20597	सूबेदार मेजर	पार्थासारथी

बंगाल इंजिनियर ग्रुप

45	जे सी 11874	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	बेकुंठ नाथ
46	जे सी 14100	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	नरजन सिंह

बंगाल इंजिनियर ग्रुप—जारी

47	जे सी 11758	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	पी के रमन
48	जे सी 8981	सूबेदार मेजर (जी डी)	बाबू सिंह
49	जे सी 5896	सूबेदार मेजर (जी डी)	बिचतर सिंह
50	जे सी 694	सूबेदार मेजर (जी डी)	बलदेव सिंह
51	जे सी 11571	सूबेदार मेजर (जी डी)	जरनेल सिंह
52	जे सी 7040	सूबेदार मेजर (जी डी)	कैलाश सिंह
53	जे सी 4901	सूबेदार मेजर (जी डी)	लाभ सिंह
54	जे सी 6996	सूबेदार मेजर (जी डी)	पूरन सिंह
55	जे सी 9244	सूबेदार मेजर (जी डी)	शमशेर सिंह
56	जे सी 5111	सूबेदार मेजर (जी डी)	मिकंदर लाल
57	जे सी 6127	सूबेदार मेजर (जी डी)	तोता सिंह
58	जे सी 6999	सूबेदार मेजर	केशव राम, विशिष्ट सेवा मैडल

बोम्बे इंजिनियर ग्रुप

59	जे सी 5792	सूबेदार मेजर	दयानोब पाटिल
60	जे सी 4907	सूबेदार मेजर	गुरदियाल सिंह
61	जे सी 5730	सूबेदार मेजर	हाकिम सिंह
62	जे सी 7054	सूबेदार मेजर	नच्छमन सिंह
63	जे सी 7795	सूबेदार मेजर	सोहन सिंह
64	जे सी 7957	सूबेदार मेजर	तारा सिंह
65	जे सी 27741	सूबेदार	नमदेव पोन्नार
66	जे सी 27745	सूबेदार	रामचंद्रा कदम

कोर आफ सिग्नल्स

67	जे सी 15582	सूबेदार मेजर	ए आर बासुदेवा पिल्ले
68	जे सी 11401	सूबेदार मेजर	बलीप सिंह
69	44658 जे सी	सूबेदार मेजर	हरबंस लाल पटने
70	जे सी 12811	सूबेदार मेजर	के पी बालन
71	जे सी 6003	सूबेदार मेजर	के एस कर्नाकरण ताम्बीयार
72	जे सी 5134	सूबेदार मेजर	करनेल सिंह
73	जे सी 6677	सूबेदार मेजर	कापमोर सिंह
74	जे सी 9174	सूबेदार मेजर	लाभ सिंह, प्राई डी एस एम
75	जे सी 1173	सूबेदार मेजर	लक्ष्मी कान्ता गुप्ता
76	जे सी 8244	सूबेदार मेजर	एम बी जार्ज
77	जे सी 1058	सूबेदार मेजर	महीधर सिंह
78	जे सी 6320	सूबेदार मेजर	नच्छतर सिंह
79	जे सी 10837	सूबेदार मेजर	नटेसन
80	जे सी 6686	सूबेदार मेजर	प्रेम नाथ

कोर आफ सिगनल्स—जारी

81	जे सी 5542	सूबेदार मेजर	आर सुब्रमनियम
82	जे सी 5135	सूबेदार मेजर	रामा कृष्णन
83	जे सी 7209	सूबेदार मेजर	संत राम
84	जे सी 8305	सूबेदार मेजर	सिवालिंगा प्रकाशम
85	जे सी 6678	सूबेदार मेजर	सोहन सिंह
86	जे सी 8304	सूबेदार मेजर	टी साधवू
87	जे सी 7205	सूबेदार मेजर	तरलोक सिंह
88	जे सी 16666	सूबेदार	जी सिवारमन नायर

त्रिगैड आफ दी गार्ड्स

89	जे सी 7230	सूबेदार मेजर	भगवान दास
90	जे सी 8157	सूबेदार मेजर	भगता
91	जे सी 7227	सूबेदार मेजर	कान सिंह
92	जे सी 7228	सूबेदार मेजर	मंगल राम
93	जे सी 7877	सूबेदार मेजर	आर परमेश्वरन नायर
94	जे सी 35312	सूबेदार	बकशी चंद
95	जे सी 17463	सूबेदार	हरनाम सिंह
96	जे सी 16202	सूबेदार	कुन्जी कुप्पन
97	जे सी 6701	सूबेदार	संत राम
98	जे सी 13172	सूबेदार	सिरीधरन नायर

बी पैराणूट रेजिमेंट

99	जे सी 14416	सूबेदार मेजर कर्क	पूरन सिंह
100	जे सी 11499	सूबेदार मेजर	दीवान सिंह
101	जे सी 8708	सूबेदार मेजर	जनार्दन सूबेदार, बीर चक्र, एम एम
102	जे सी 8074	सूबेदार मेजर	पुष्कर सिंह
103	जे सी 8075	सूबेदार मेजर	पुष्कर सिंह
104	जे सी 6831	सूबेदार मेजर	यादो राव
105	जे सी 23777	सूबेदार	गोविन्द पोवार

बी पंजाब रेजिमेंट

106	जे सी 12032	सूबेदार मेजर	बाली राम, सेना मैडल
107	जे सी 10904	सूबेदार मेजर	भाग सिंह
108	जे सी 8259	सूबेदार मेजर	इन्दर सिंह
109	जे सी 6577	सूबेदार मेजर	जसवंत सिंह
110	जे सी 16436	सूबेदार मेजर	संत सिंह
111	जे सी 29019	सूबेदार कर्क	गुरबख्श सिंह
112	जे सी 19792	सूबेदार	अयुद्धबीर सिंह, सेना मैडल
113	जे सी 25279	सूबेदार	जय सिंह
114	जे सी 12030	सूबेदार	मीत सिंह

बी मद्रास रेजिमेंट

115	जे सी 6833	सूबेदार मेजर	अप्पुकुट्टन नायर
116	जे सी 1444	सूबेदार मेजर	डी प्रसादा राव
117	जे सी 4774	सूबेदार मेजर	मुनिसामी
118	जे सी 9741	सूबेदार मेजर	पी वेलाप्पन नायर
119	जे सी 4918	सूबेदार मेजर	एस बालाकृष्णन नायर, सेना मैडल
120	जे सी 16190	सूबेदार मेजर	श्रीधरन नायर
121	जे सी 5635	सूबेदार मेजर	वी अहमद
122	जे सी 24805	सूबेदार	अप्पुकुट्टन नायर
123	जे सी 33392	सूबेदार	एम के वेलाप्पन पिल्ले
124	जे सी 8730	सूबेदार	श्रीधरन
125	जे सी 30561	सूबेदार	वासुदेवन

बी प्रिन्सेडियरस

126	जे सी 7397	सूबेदार मेजर	दलीप सिंह
127	जे सी 11455	सूबेदार मेजर	भ्यारसा राम
128	जे सी 6340	सूबेदार मेजर	कांशी राम
129	जे सी 6348	सूबेदार मेजर	केसू राम
130	जे सी 6706	सूबेदार मेजर	कृष्णा राम
131	जे सी 1564	सूबेदार मेजर	माल सिंह
132	जे सी 1515	सूबेदार मेजर	मूल सिंह
133	जे सी 7396	सूबेदार मेजर	प्रभु दयाल
134	जे सी 1505	सूबेदार मेजर	शिवदान सिंह
135	जे सी 11690	सूबेदार मेजर	सुलतान
136	जे सी 11456	सूबेदार	फजल रहमान
137	जे सी 35816	सूबेदार	हनुमाना राम

बी मराठा लाइट इन्फैंट्री

138	जे सी 11342	सूबेदार मेजर	दन्यानू सखून्के
139	जे सी 8738	सूबेदार मेजर	काशी नाथ पोवार
140	जे सी 5921	सूबेदार मेजर	रामदास पोवार
141	जे सी 12273	सूबेदार मेजर	रामदास सोमवंशी
142	जे सी 6359	सूबेदार मेजर	श्रीधर राव
143	जे सी 28413	सूबेदार	गोपाल उतेकर

बी राजपूताना राइफल्स

144	जे सी 6151	सूबेदार मेजर	बन्ने सिंह
145	जे सी 5496	सूबेदार मेजर	हनुमान
146	जे सी 12890	सूबेदार मेजर	मुकन्द सिंह
147	जे सी 6583	सूबेदार मेजर	रहमत अली

દી રાજપૂતાના રાફલસ—જારી

148	જે સી 5759	સૂબેદાર મેજર	સુગન સિંહ
149	જે સી 16460	સૂબેદાર	બગરાવત સિંહ
150	જે સી 12526	સૂબેદાર	પોલહન સિંહ
151	જે સી 26942	સૂબેદાર	રામદેવ સિંહ
152	જે સી 6856	સૂબેદાર	રેવંત સિંહ

દી રાજપૂત રેજિમેન્ટ

153	જે સી 7100	સૂબેદાર મેજર	રઘુવિર સિંહ
154	જે સી 14670	સૂબેદાર મેજર	રાજેન્દ્ર સિંહ
155	જે સી 11190	સૂબેદાર મેજર	રામ અચલ
156	જે સી 7104	સૂબેદાર મેજર	રતન સિંહ
157	જે સી 17709	સૂબેદાર	ઘટ્ટૂ તિવારી
158	જે સી 22966	સૂબેદાર	ચિતર સિંહ
159	જે સી 17705	સૂબેદાર	નિકે રામ, શૌર્ય ચક્ર

દી જાટ રજિમેન્ટ

160	જે સી 8833	સૂબેદાર મેજર	અજય લાલ
161	જે સી 9640	સૂબેદાર મેજર	અશોક સિંહ
162	જે સી 17036	સૂબેદાર	અન્નદન સિંહ
163	જે સી 31401	સૂબેદાર	નાહર સિંહ
164	જે સી 35051	સૂબેદાર	મુશ્વતીર સિંહ

દી મિશ્વ રેજિમેન્ટ

165	જે સી 5933	સૂબેદાર મેજર	બંતા સિંહ
166	જે સી 12338	સૂબેદાર મેજર	દર્શન સિંહ
167	જે સી 2071	સૂબેદાર મેજર	નજર સિંહ
168	જે સી 11157	સૂબેદાર મેજર	પ્રીતમ સિંહ
169	જે સી 8631	સૂબેદાર મેજર	રતન સિંહ
170	જે સી 15693	સૂબેદાર	હિમ્મત સિંહ
171	જે સી 30345	સૂબેદાર	કુન્દન સિંહ
172	જે સી 26169	સૂબેદાર	મેહન સિંહ
173	જે સી 35872	સૂબેદાર	પૂરન સિંહ
174	જે સી 26162	સૂબેદાર	શિગારા સિંહ
175	જે સી 28528	સૂબેદાર	સોહન સિંહ

દી મિશ્વ લાહટ ફાન્કન્ટ્રી

176	જે સી 2086	સૂબેદાર મેજર	મુશ્તિયાર સિંહ
177	જે સી 9561	સૂબેદાર મેજર	સરજન સિંહ

દી ડોગરા રજિમેન્ટ

178	જે સી 5664	સૂબેદાર મેજર	હંસ રાજ
179	જે સી 5359	સૂબેદાર મેજર	નંદ લાલ
180	જે સી 5267	સૂબેદાર મેજર	પ્રીતમ સિંહ

दी डोगरा रेजिमेंट—जारी

181	जे सी 4620	सूबेदार मेजर	राम निवाज
182	जे सी 10319	सूबेदार मेजर	संत राम
183	जे सी 40613	सूबेदार कर्क	कुन्दन लाल

दी गढ़वाल राइफल्स

184	जे सी 17040	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	गंगा सिंह भंडारी
185	जे सी 10383	सूबेदार मेजर	आनंद सिंह विश्व
186	जे सी 11994	सूबेदार मेजर	नेत्र सिंह विश्व
187	जे सी 11030	सूबेदार मेजर	शाम सिंह विश्व
188	जे सी 10214	सूबेदार मेजर	त्रिलोक सिंह रावत
189	जे सी 10542	सूबेदार मेजर	उदे सिंह विश्व
190	जे सी 33155	सूबेदार	आनंद सिंह गुसाई
191	जे सी 33150	सूबेदार	कुंवर सिंह रावत
192	जे सी 33152	सूबेदार	राम सिंह गुसाई

दी कुमायू रेजिमेंट

193	जे सी 12566	सूबेदार मेजर	बची सिंह
194	जे सी 7626	सूबेदार मेजर	धान सिंह
195	जे सी 6733	सूबेदार मेजर	गोपाल सिंह
196	जे सी 9429	सूबेदार मेजर	खेम सिंह
197	जे सी 7775	सूबेदार मेजर	लछम सिंह
198	जे सी 9024	सूबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह
199	जे सी 2440	सूबेदार मेजर	राम सरन
200	जे सी 5171	सूबेदार मेजर	रती चंद
201	जे सी 36145	सूबेदार	बहादुर सिंह
202	जे सी 36755	सूबेदार	भवान सिंह
203	जे सी 21549	सूबेदार	हरीश चन्द्रा
204	जे सी 8274	सूबेदार	कमान सिंह
205	जे सी 16367	सूबेदार	मुरली धर
206	जे सी 28396	सूबेदार	नरायन सिंह

दी असम रेजिमेंट

207	जे सी 7134	सूबेदार मेजर	इमतिआंगसी ऐ ओ
208	जे सी 6458	सूबेदार मेजर	खावलिआना लुशाई
209	जे सी 6459	सूबेदार मेजर	लालबभा लुशाई
210	जे सी 6456	सूबेदार मेजर	थुआमुलाई हमर
211	जे सी 24161	सूबेदार	चलकुंगा
212	जे सी 22990	सूबेदार	लालहिग लोवा
213	जे सी 21058	सूबेदार	लालभाबिया लुशाई

डी बिहार रेजिमेंट

214	जे सी 13288	सूबेदार	मेघ नाथ ओरां
215	जे सी 29119	सूबेदार	सुख देव

बी महार रेजिमेंट

216	जे सी 12341	सूबेदार मेजर	चन्दू कसारे
217	जे सी 9186	सूबेदार मेजर	दागदू शिरके
218	जे सी 2532	सूबेदार मेजर	धमा साबले
219	जे सी 5189	सूबेदार मेजर	जगत सिंह
220	जे सी 5185	सूबेदार मेजर	महेश बख्श सिंह
221	जे सी 21781	सूबेदार कर्क	पुष्पु रान
222	जे सी 29461	सूबेदार	पांडु जादव

डी जम्मु एण्ड काश्मीर राइफल्स

223	जे सी 11600	सूबेदार मेजर	अन्वर सिंह
224	जे सी 15221	सूबेदार मेजर	शरन दास
225	जे सी 8358	सूबेदार मेजर	दौलत राम
226	जे सी 9423	सूबेदार मेजर	धीरज सिंह
227	जे सी 11414	सूबेदार मेजर	जसवंत सिंह
228	जे सी 8362	सूबेदार मेजर	मेजरा सिंह
229	जे सी 11679	सूबेदार मेजर	सुरत सिंह
230	जे सी 16496	सूबेदार कर्क	बलवंत सिंह
231	जे सी 28196	सूबेदार कर्क	गजिन्दर सिंह
232	जे सी 23813	सूबेदार कर्क	सुखदेव सिंह
233	जे सी 24776	सूबेदार	अनंत राम
234	जे सी 31764	सूबेदार	बारा सिंह
235	जे सी 25157	सूबेदार	हरबंस सिंह
236	जे सी 28193	सूबेदार	रतन सिंह
237	जे सी 35938	सूबेदार	साधु सिंह
238	जे सी 15196	सूबेदार	तारा सिंह

1 गोरखा राइफल्स

239	जे सी 12092	सूबेदार मेजर	वसंत बहादुर राना
240	जे सी 10286	सूबेदार मेजर	जीत बहादुर श्रे

3 गोरखा राइफल्स

241	जे सी 7578	सूबेदार मेजर	गोपी बहादुर राना
242	जे सी 7579	सूबेदार मेजर	प्रेम सिंह थापा
243	जे सी 10283	सूबेदार मेजर	तुलु पुन
244	जे सी 26643	सूबेदार	बिक्रम जंग बेसनेट
245	जे सी 20645	सूबेदार	खरक सिंह थापा

4 गोरखा राइफलस

246	जे सी 10518	सूबेदार मेजर	जुम काजी गुरग
247	जे सी 7522	सूबेदार मेजर	काउ बहादुर गुरंग
248	जे सी 6486	सूबेदार मेजर	महेन्द्रा बहादुर गुरंग
249	जे सी 23882	सूबेदार	भगवान सिंह गुरंग

5 गोरखा राइफलस

250	जे सी 16544	सूबेदार मेजर	जगतनारायन नेवार
251	जे सी 50200	सूबेदार कर्क	संतोक सिंह थापा
252	जे सी 33014	सूबेदार	लाल बाहदुर थापा
253	जे सी 36089	सूबेदार	रनबहादुर गुरंग
254	जे सी 35151	सूबेदार	तुलबहादुर थापा

8 गोरखा राइफलस

255	जे सी 17614	सूबेदार मेजर	नमबहादुर गुंग
256	जे सी 8970	सूबेदार मेजर	खेमबहादुर थापा
257	जे सी 13166	सूबेदार मेजर	मानबहादुर गुरंग, वीर चक्र

9 गोरखा राइफलस

258	जे सी 6613	सूबेदार मेजर	फतह जंग खतरी
259	जे सी 6906	सूबेदार मेजर	लाल बहादुर कार्की
260	जे सी 8695	सूबेदार मेजर	रिम बहादुर खतरी

11 गोरखा राइफलस

261	जे सी 8886	सूबेदार मेजर	अकिलदोज राय
262	जे सी 9537	सूबेदार मेजर	चन्द्राबहादुर राय
263	जे सी 6212	सूबेदार मेजर	जयनारासिंह राय
264	जे सी 9893	सूबेदार मेजर	खमबादोज संवार

भार्मी सर्विस कोर (सप्लाई)

265	जे सी 2900	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) (एस डी)	गुरदाम एच अजवानी
266	जे सी 7864	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	आज्ञा राम बिन्द्रा
267	जे सी 37277	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	बालकिशन
268	जे सी 2934	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	हर कृष्ण लाल शर्मा
269	जे सी 10243	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	हरबंस लाल मेहदीरत्ता
270	जे सी 37283	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	मेहर चन्द कौशल
271	जे सी 4698	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	रनबीर सिंह
272	जे सी 37455	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी)	सुन्दर राज जौन रिचर्ड्स
273	जे सी 32996	सूबेदार मेजर कर्क (स्टोर)	दयानंद टंडन
274	जे सी 2813	सूबेदार मेजर कर्क (स्टोर)	हरजीत सिंह
275	जे सी 34518	सूबेदार मेजर कर्क (स्टोर)	किरपाल सिंह पुरी

आर्मी सर्विस कोर (सप्लाई)---जारी

276	जे सी 35344	सूबेदार मेजर कल्क (स्टोर)	मोहन लाल
277	जे सी 35376	सूबेदार मेजर कल्क (स्टोर)	रखादा गोमान कृष्णा
278	जे सी 31932	सूबेदार (पी ए)	शान्ति रंजन चौधरी

आर्मी सर्विस कोर (एनिमल ट्रांसपोर्ट)

279	जे सी 10492	रिसालदार मेजर	दाल सिंह
280	जे सी 11380	रिसालदार मेजर	लाखा सिंह
281	जे सी 7815	रिसालदार मेजर	राजिन्दर सिंह नेगी

आर्मी सर्विस कोर (मकैनिकल ट्रांसपोर्ट)

282	जे सी 6948	सूबेदार मेजर	बलवंत राय
283	जे सी 7332	सूबेदार मेजर	चमन लाल
284	जे सी 9437	सूबेदार मेजर	चन्दर दीप सिंह
285	जे सी 9057	सूबेदार मेजर	देम राज
286	जे सी 9632	सूबेदार मेजर	देविन्दर नाथ
287	जे सी 9847	सूबेदार मेजर	हयात सिंह
288	जे सी 8099	सूबेदार मेजर	जगदेव सिंह आहलू- वालिया
289	जे सी 8795	सूबेदार मेजर	जय लाल
290	जे सी 8383	सूबेदार मेजर	एम कुन्ही रमन
291	जे सी 8776	सूबेदार मेजर	एन असीरुदम
292	जे सी 31665	सूबेदार मेजर	राम चन्दर
293	जे सी 7856	सूबेदार मेजर	श्री चन्द
294	जे सी 6963	सूबेदार मेजर	सूरज सिंह
295	जे सी 40860	सूबेदार मेजर	वीरला बैकटानारयना राव
296	जे सी 36979	सूबेदार	बाबा दीन
297	जे सी 21646	सूबेदार	सी एच करुणाकरन
298	जे सी 39886	सूबेदार	के के दासोदरन नायर
299	जे सी 39901	सूबेदार	रामकरन

आर्मी मेडिकल कोर

300	जे सी 12930	सूबेदार मेजर (एए)	विदया दत्त
301	जे सी 11294	सूबेदार मेजर (एए)	एम ए जार्ज
302	जे सी 3135	सूबेदार मेजर (एए)	महेषानन्द
303	जे सी 9294	सूबेदार मेजर (एए)	नैन सिंह
304	जे सी 57038	सूबेदार (डिस्पेन्सर)	उमेश सिंह
305	जे सी 60931	सूबेदार (लेब टेक)	मनमोहन सिंह
306	जे सी 54396	सूबेदार (एन ए)	रिचर्ड मोरले सिंह
307	जे सी 17929	सूबेदार (एस ए)	वीरेन्द्र कुमार चक्रवर्ती
308	जे सी 21698	सूबेदार (एस ए)	इमामसाब राजेसाब हावर
309	जे सी 22576	सूबेदार (एस ए)	जगदेव शीन
310	जे सी 7833	सूबेदार (एस ए)	राम सागर शर्मा

आर्मी आर्डिनेन्स कोर

311	48909	जे सी	सूबेदार मेजर	बलवंत लाल भाटिया
312	51577	जे सी	सूबेदार मेजर	बलवंत सिंह
313	32372	जे सी	सूबेदार मेजर	भगन सिंह
314	41064	जे सी	सूबेदार मेजर	गुरचरत सिंह
315	45924	जे सी	सूबेदार मेजर	गुरदेव सिंह सैनी
316	32361	जे सी	सूबेदार मेजर	हंस राज
317	41015	जे सी	सूबेदार मेजर	हरा लाल चौधरी
318	35644	जे सी	सूबेदार मेजर	हरभगवान मलहोत्रा
319	52062	जे सी	सूबेदार मेजर	जगन नाथ शर्मा
320	38153	जे सी	सूबेदार मेजर	कनार्ड लाल सोम
321	32607	जे सी	सूबेदार मेजर	खुशाल सिंह
322	32346	जे सी	सूबेदार मेजर	मल्हा सिंह
323	45885	जे सी	सूबेदार मेजर	मुकुन्दलाल चक्रवर्ती
324	3377	जे सी	सूबेदार मेजर	नाशीर शाह
325	44023	जे सी	सूबेदार मेजर	पंकज कुमार घोष दस्ती- दार
326	3366	जे सी	सूबेदार मेजर	राम चन्द
327	35645	जे सी	सूबेदार मेजर	रतन चंद मलहन
328	58376	जे सी	सूबेदार	दर्शन सिंह
329	34781	जे सी	सूबेदार	गुरदियाल सिंह
330	55845	जे सी	सूबेदार	के के बालाकृष्णन
331	57871	जे सी	सूबेदार	के बी सुबा राव
332	38026	जे सी	सूबेदार	मनोरंजन राण
333	33037	जे सी	सूबेदार	रमेश चन्द्रा
334	57875	जे सी	सूबेदार	सूर्या प्रसाद बिबेदी

कोर आरु इन्जिनियरिंग एण्ड मेकैनिक्कल इंजिनियर्स

335	जे सी	16266	सूबेदार मेजर	बाल सख्य
336	जे सी	3468	सूबेदार मेजर	बलदेव सिंह
337	जे सी	17787	सूबेदार मेजर	भगत सिंह
338	जे सी	60812	सूबेदार मेजर	सी पी मादप्पा
339	3463	जे सी	सूबेदार मेजर	दीवान सिंह
340	57329	जे सी	सूबेदार मेजर	जी मुन्नमनियन
341	जे सी	3666	सूबेदार मेजर	गंगाधर बिहुर
342	60810	जे सी	सूबेदार मेजर	गुरदयाल भल्ला
343	61034	जे सी	सूबेदार मेजर	गुरदयाल सिंह
344	जे सी	7746	सूबेदार मेजर	हरनाम सिंह
345	जे सी	3953	सूबेदार मेजर	इन्द्रा प्रताप सिंह
346	जे सी	3659	सूबेदार मेजर	के आर वासुदेवन

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिक्ल इंजिनियर्स—जारी

347	जे सी 6247	सूबेदार मेजर	कृष्णा पाटिल
348	जे सी 3635	सूबेदार मेजर	एल० रामाकृष्णन
349	60818 जे सी	सूबेदार मेजर	ललता प्रसाद मिश्रा
350	जे सी 3535	सूबेदार मेजर	नरमान सिंह
351	61057 जे सी	सूबेदार मेजर	पी० जे० फामिस
352	जे सी 3954	सूबेदार मेजर	प्रहमन सिंह
353	जे सी 3682	सूबेदार मेजर	प्यारे लाल
354	57317 जे सी	सूबेदार मेजर	राधेश चन्द्रा भीमिक
355	59146 जे सी	सूबेदार मेजर	आर० वरदाराजन
356	जे सी 3470	सूबेदार मेजर	राम रत्न
357	7300 जे सी	सूबेदार मेजर	सोहन सिंह
358	जे सी 3704	सूबेदार मेजर	टी० श्रीसुताबुक्कारसु
359	जे सी 3656	सूबेदार मेजर	वशेसर नाथ सूरी
360	जे सी 31139	सूबेदार	उजागर सिंह

रिमाउंट एण्ड वेटरनरी कोर

361	आर० वी० 7056	रिसालदार मेजर क्लर्क	हरी कृष्ण शर्मा
-----	--------------	----------------------	-----------------

आर्मी एंजुकेशनल कोर

362	61930 जे सी	सूबेदार मेजर	असवनी कुमार शाह
363	59299 जे सी	सूबेदार मेजर	जगदीश राम कालिप्र
364	61207 जे सी	सूबेदार मेजर	पुरुषोत्तम
365	जे सी 18263	सूबेदार	बलवंत सिंह बाजवा
366	जे सी 17101	सूबेदार	जामियत सिंह
367	जे सी 13664	सूबेदार	राम चन्द्र

दी इंटेलिजेंस कोर

368	60396 जे सी	सूबेदार मेजर	डी मार्टिन
369	जे सी 23550	सूबेदार	दीनत राम

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

370	जे सी 18464	सूबेदार (एम पी)	होशियार सिंह
-----	-------------	-----------------	--------------

आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर

371	जे सी 5438	सूबेदार मेजर	गुरचैन सिंह
-----	------------	--------------	-------------

दी पाइनियर कोर

372	जे सी 11826	सूबेदार मेजर (जी डी)	जी कृष्णा पिल्लै
373	39971 जे सी	सूबेदार मेजर (जी डी)	किरण राम
374	जे सी 16600	सूबेदार (जी डी)	देवी सिंह
375	जे सी 31890	सूबेदार (जी डी)	जमैत सिंह

MINISTRY OF DEFENCE **NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th January 1973

No. 2 E. date 24th Jan. 73.—The President is pleased to grant honorary commissions to the undermentioned JCOs under Para 178 of the Regulations for the Army (1962) with effect from 26th January, 1973:—

To be Honorary Captains

3 CAVALRY

1 JC 6270	Ris Maj & Hony Lt	NIHAL SINGH
-----------	-------------------	-------------

THE CENTRAL INDIA HORSE

2 JC 29007	Risaldar & Hony Lt	JAGDISH SINGH, Vr C
------------	--------------------	---------------------

71 ARMOURER REGIMENT

3 JC 7961	Ris Maj & Hony Lt	RASAL SINGH
-----------	-------------------	-------------

REGIMENT OF ARTILLERY

4 JC 6305	Sub Maj & Hony Lt	BAKHTAWAR SINGH
6 JC 5201	Sub Maj & Hony Lt	MAM CHAND
5 JC 299	Sub Maj & Hony Lt	MM CARIAPPA
7 JC 10606	Sub Maj & Hony Lt	SAIDU HUDED
8 54779 JC	Sub Maj & Hony Lt	SIDESHWAR JONKO

MADRAS ENGINEER GROUP

9 45679 JC	Sub Maj & Hony Lt	K ATHANASIOS
10 60570 JC	Sub Maj & Hony Lt	KP MADHAVA MENON }

BOMBAY ENGINEER GROUP

11 JC 6676	Sub Maj & Hony Lt	BANTA SINGH
12 JC 5796	Sub Maj & Hony Lt	BHIMRAO PATIL
13 JC 7052	Sub Maj & Hony Lt	DALIP SINGH
14 JC 5793	Sub Maj & Hony Lt	NARAYAN GADAVE
15 JC 777	Sub Maj & Hony Lt	SHIVRAM PARAB

CORPS OF SIGNALS

16 34641 JC	Sub Maj & Hony Lt	N DORAI SAMY
17 JC 1030	Sub Maj & Hony Lt	NARAIN DATT
18 34645 JC	Sub Maj & Hony Lt	S JAMES CHELLIAH
19 JC 6004	Sub Maj & Hony Lt	TIRLOCHAN SINGH

THE PUNJAB REGIMENT

20 JC 8430	Sub Maj & Hony Lt	AMARJIT SINGH
------------	-------------------	---------------

THE MADRAS REGIMENT

21 JC 1443	Sub Maj & Hony Lt	D FRANCIS ANTHONY
22 JC 4782	Sub Maj & Hony Lt	EDEN
		R GOPALA PILLAI

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

23 JC 1623	Sub Maj & Hony Lt	CHANDRAKANT SHINDE
24 JC 6355	Sub Maj & Hony Lt	LAXUMAN SALUNKE, Vr C

THE RAJPUTANA RIFLES

25 JC 5259	Sub Maj & Hony Lt	SARDAR SINGH
26 JC 5497	Sub Maj & Hony Lt	SURAJ BHAN SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

27 6863 JC	Sub Maj & Hony Lt	DULI CHAND
28 JC 12419	Sub Maj & Hony Lt	GORDHAN SINGH
29 11150 JC	Sub Maj & Hony Lt	KAMAL RAM, VC
30 6388 JC	Sub Maj & Hony Lt	KRISHAN DUTT
31 JC 5651	Sub Maj & Hony Lt	ZAMINDAR SINGH

THE JAT REGIMENT

32	JC 4814	Sub Maj & Hony Lt	BHARAT SINGH
33	JC 5652	Sub Maj & Hony Lt	MUKHTIAR SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

34	JC 4821	Sub Maj & Hony Lt	BATTAN SINGH
35	JC 2124	Sub Maj & Hony Lt	CHANAN SINGH
36	61949 JC	Sub Maj & Hony Lt	MOHINDER SINGH, SC
37	JC 6028	Sub Maj & Hony Lt	PRITAM SINGH, SM
38	JC 2087	Sub Maj & Hony Lt	WASSAN SINGH

THE DOGRA REGIMENT

39	JC 5162	Sub Maj & Hony Lt	ARIAN DEV
40	JC 5160	Sub Maj & Hony Lt	KAKA RAM

THE GARHWAL RIFLES

41	JC 10213	Sub Maj & Hony Lt	BACHAN SINGH RANA
42	JC 10782	Sub Maj & Hony Lt	NARAIN SINGH RAWAT

THE KUMAON REGIMENT

43	JC 6876	Sub Maj & Hony Lt	BACHI SINGH
44	JC 6451	Sub Maj & Hony Lt	RAM SINGH

THE ASSAM REGIMENT

45	JC 6031	Sub Maj & Hony Lt	DWARIKA NATH RAJBON- GSHI
46	JC 6039	Sub Maj & Hony Lt	HMINGLIANA LUSHAI
47	JC 7133	Sub Maj & Hony Lt	LALTINKHUMA LUSHAI

THE BIHAR REGIMENT

48	58847 JC	Sub Maj & Hony Lt	MASI DAS GURIA
49	JC 2461	Sub Maj & Hony Lt	RAM AJODHYA SINGH

4 GORKHA RIFLES

50	JC 6744	Sub Maj & Hony Lt	PREETAM SINGH RANA, IDSM
----	---------	-------------------	-----------------------------

8 GORKHA RIFLES

51	JC 6207	Sub Maj & Hony Lt	JUDHBIR THAPA
----	---------	-------------------	---------------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

52	32791 JC	Sub Maj Clk (Store) & Hony Lt	HARI SINGH
53	32997 JC	Sub Maj Clk (Store) & Hony Lt	HARKISHAN LALL TAN- DON
54	32767 JC	Sub Maj Clk (Store) & Hony Lt	MAHTAB SINGH NOHBAR
55	34477 JC	Sub Maj Clk (Store) & Hony Lt	PIARA SINGH
56	32874 JC	Sub Maj Clk (Store) & Hony Lt	PRABHUDDHAN RANA, VrC

**ARMY SERVICE CORPS
(MECHANICAL TRANSPORT)**

57	42275 JC	Sub Maj & Hony Lt	A MONTERO
58	44757 JC	Sub Maj & Hony Lt	JOHN ROLAND CHRIS- TIAN
59	44770 JC	Sub Maj & Hony Lt	R KRISHNAN

ARMY MEDICAL CORPS

60	JC 3293	Sub Maj (AA) & Hony Lt	K PRABHAKARAN
61	JC 3339	Sub Maj (STA) & Hony Lt	RAM ADHAR
62	JC 58417	Sub (Lab Asstt) & Hony Lt	MM CHATTERJEE
63	JC 13928	Sub (SA) & Hony Lt	SK CHOUDHURY

ARMY ORDNANCE CORPS

64	32231 JC	Sub Maj & Hony Lt	BUA RAM
65	32345 JC	Sub Maj & Hony Lt	CHUNI LAL
66	50150 JC	Sub Maj & Hony Lt	NORMAN STANLEY RAO
67	3221 JC	Sub Maj & Hony Lt	PROVAT KUMAR BHATTACHARJEE

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

68	JC 61040	Sub Maj & Hony Lt	BAKSHISH SINGH
69	JC 3655	Sub Maj & Hony Lt	GURBAKSH SINGH
70	57307 JC	Sub Maj & Hony Lt	GURCHARAN DAS
71	54168 JC	Sub Maj & Hony Lt	K VERGHESE MATHEW
72	56245 JC	Sub Maj & Hony Lt	PANKOJ MOHAN DAS GUPTA
73	57844 JC	Sub Maj & Hony Lt	SANTOKH SINGH
74	54160 JC	Sub Maj & Hony Lt	VERGHESE CHERIAN
75	JC 57304	Sub Maj & Hony Lt	YASH PAL

ARMY EDUCATIONAL CORPS

76	44224 JC	Sub Maj & Hony Lt	DARSHAN SINGH
77	47957 JC	Sub Maj & Hony Lt	SITA RAM

THE INTELLIGENCE CORPS

78	55332 JC	Sub Maj & Hony Lt	GIANI RAM
----	----------	-------------------	-----------

THE PIONEER CORPS

79	JC 9261	Sub Maj (GD) & Hony Lt	IND RAJ
----	---------	------------------------	---------

*To be Honorary Lieutenants***7 CAVALRY**

1	JC 16055	Risaldar	PIARA SINGH
---	----------	----------	-------------

8 CAVALRY

2	JC 9151	Ris Maj	KABUL SINGH
---	---------	---------	-------------

1 HORSE

3	JC 12211	Ris Maj	AMAR SINGH
---	----------	---------	------------

2 LANCERS

4	JC 22738	Risaldar	AMAR SINGH
---	----------	----------	------------

14 HORSE

5	JC 8911	Ris Maj	GURDIAL SINGH
---	---------	---------	---------------

62 CAVALRY

6	JC 9908	Ris Maj	GANDHARAB SINGH
---	---------	---------	-----------------

63 CAVALRY

7	JC 6664	Ris Maj	IDAL SINGH
---	---------	---------	------------

70 ARMOURD REGIMENT

8 JC 12044

Ris Maj

UMED SINGH

REGIMENT OF ARTILLERY

9 JC 5397

Sub Maj Clk
(GD)

SAWARN SINGH

10	JC 7364	Sub Maj
11	JC 4066	Sub Maj
12	JC 6291	Sub Maj
13	JC 5080	Sub Maj
14	JC 5864	Sub Maj
15	JC 14381	Sub Maj
16	JC 10619	Sub Maj
17	JC 6787	Sub Maj
18	JC 10817	Sub Maj
19	JC 6103	Sub Maj
20	JC 8475	Sub Maj
21	JC 6307	Sub Maj
22	JC 5227	Sub Maj
23	JC 17407	Sub Maj
24	JC 18892	Sub Maj
25	JC 8743	Sub Maj
26	JC 12973	Sub Maj
27	JC 5197	Sub Maj
28	JC 6783	Sub Maj
29	JC 312	Sub Maj
30	JC 8482	Sub Maj
31	JC 6798	Sub Maj
32	JC 7027	Sub Maj
33	JC 14364	Sub Maj
34	JC 6287	Sub Maj
35	JC 21090	Sub Maj (Skt)
36	JC 24259	Subedar
37	JC 17335	Subedar
38	JC 29051	Subedar

AMBROSIS
ASU SINGH
BARAM DATT
BINDESHRI
CHIDAMBARAM
DALIP SINGH
DARSHAN SINGH
GHISA RAM
GURMAIL SINGH
HARDIP SINGH
HARJIT SINGH
KALYAN SINGH
KHEM CHAND
LAL SINGH
MANGE RAM
MUKH RAM
MUNSHI RAM
NA CHERIAN
P PARANGODAN
PAHLAD SINGH
PRABHU DAYAL
RAMADAS E
SANKARA NAIR
SHIV RAM
SURAT SINGH
C POOVAIH
CHANDU RAM
HARBANS SINGH
KHUBI RAM

MADRAS ENGINEER GROUP

39	JC 11460	Sub Maj
40	JC 918	Sub Maj
41	JC 7034	Sub Maj
42	JC 8571	Sub Maj
43	57910 JC	Sub Maj
44	JC 20597	Subedar

PP JOSEPH
S PITCHAIAH
SIVALINGAM
VP LAZAR
YESUPATHAM DANIELS
PARTHASARATHY

BENGAL ENGINEER GROUP

45	JC 11874	Sub Maj Clk (GD)
46	JC 14100	Sub Maj Clk (GD)
47	JC 11758	Sub Maj Clk (GD)
48	JC 8981	Sub Maj (GD)
49	JC 5896	Sub Maj (GD)
50	JC 694	Sub Maj (GD)
51	JC 11571	Sub Maj (GD)
52	JC 7040	Sub Maj (GD)
53	JC 4901	Sub Maj (GD)
54	JC 6996	Sub Maj (GD)
55	JC 9244	Sub Maj (GD)
56	JC 5111	Sub Maj (GD)
57	JC 6127	Sub Maj (GD)
58	JC 6999	Sub Maj

BAIKUNTH NATH
NARANJAN SINGH
PK RAMAN
BABU SINGH
BACHITTAR SINGH
BALDEV SINGH
JARNAIL SINGH
KAILASH SINGH
LABH SINGH
PURAN SINGH
SHAMSHER SINGH
SIKANDER LAL
TOTA SINGH
KESHAV RAM, VSM

BOMBAY ENGINEER GROUP

59	JC 5792	Sub Maj
60	JC 4907	Sub Maj
61	JC 5750	Sub Maj

DYANOBA PATIL
GURDIAL SINGH
HAKIM SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP—*contd.*

62	JC 7054	Sub Maj	LACHHMAN SINGH
63	JC 7795	Sub Maj	SOHAN SINGH
64	JC 7957	Sub Maj	TARA SINGH
65	JC 27741	Subedar	NAMDEV POWAR
66	JC 27745	Subedar	RAMCHANDRA KADAM

CORPS OF SIGNALS

67	JC 15582	Sub Maj	AR VASUDEVA PILLAY
68	JC 11401	Sub Maj	DALIP SINGH
69	44658 JC	Sub Maj	HARBANS LAL PATNEY
70	JC 12811	Sub Maj	KP BALAN
71	JC 06003	Sub Maj	SK KARUNAKARAN
			NAMBIAR
72	JC 5134	Sub Maj	KARNAIL SINGH
73	JC 6677	Sub Maj	KASHMIR SINGH
74	JC 9174	Sub Maj	LABH SINGH, IDSM
75	JC 1173	Sub Maj	LAKSHMI KANTA GUPTA
76	JC 8244	Sub Maj	MV GEORGE
77	JC 1058	Sub Maj	MAHIDHAR SINGH
78	JC 6320	Sub Maj	NACHHA'TAR SINGH
79	JC 10837	Sub Maj	NATESAN
80	JC 6686	Sub Maj	PREM NATH
81	JC 5542	Sub Maj	R SUBRAMANIAM
82	JC 5135	Sub Maj	RAMA KRISHNAN
83	JC 7209	Sub Maj	SANT RAM
84	JC 8305	Sub Maj	SIVALINGA PRAKASAM
85	JC 6678	Sub Maj	SOHAN SINGH
86	JC 8304	Sub Maj	T SADHUVU
87	JC 7205	Sub Maj	TARLOK SINGH
88	JC 16666	Subedar	G SIVARAMAN NAIR

BRIGADE OF THE GUARDS

89	JC 7230	Sub Maj	BHAGWAN DASS
90	JC 8157	Sub Maj	BHAGTA
91	JC 7227	Sub Maj	KAN SINGH
92	JC 7228	Sub Maj	MANGAL RAM
93	JC 7877	Sub Maj	R PARAMESWARAN NAIR
94	JC 35312	Subedar	BAKHASHI CHAND
95	JC 17463	Subedar	HARNAM SINGH
96	JC 16202	Subedar	KUNJI KOPPAN
97	JC 6701	Subedar	SANT RAM
98	JC 13172	Subedar	SREEDHARAN NAIR

THE PARACHUTE REGIMENT

99	JC 14416	Sub Maj Ck	PURAN SINGH
100	JC 11499	Sub Maj	DEWAN SINGH
101	JC 8708	Sub Maj	JANARDHAN SUBHE,
			DAR, VRC, MM
102	JC 8074	Sub Maj	PUSHKAR SINGH
103	JC 8075	Sub Maj	PUSHKAR SINGH
104	JC 6831	Sub Maj	YADAO RAO
105	JC 23777	Subedar	GOVIND POWAR

THE PUNJAB REGIMENT

106	JC 12032	Sub Maj	BAJI RAM, SM
107	JC 10904	Sub Maj	BHAG SINGH
108	JC 8259	Sub Maj	INDER SINGH
109	JC 6577	Sub Maj	JASWANT SINGH
110	JC 16436	Sub Maj	SANT SINGH
111	JC 29019	Sub Ck	GURBAKSH SINGH
112	JC 19792	Subedar	AYUDHBIR SINGH, SM
113	JC 25279	Subedar	JAI SINGH
114	JC 12030	Subedar	MIT SINGH

THE MADRAS REGIMENT

115	JC	6833	Sub Maj	APPUKUTTAN NAIR
116	JC	1444	Sub Maj	D PRASADA RAO
117	JC	4774	Sub Maj	MUNISAMY
118	JC	9741	Sub Maj	P VELAPPAN NAIR
119	JC	4918	Sub Maj	S BALAKRISHNAN NAIR, SM.
120	JC	16190	Sub Maj	SREEDHARAN NAIR
121	JC	5635	Sub Maj	V AHAMED
122	JC	24805	Subedar	APPUNKUTAN NAIR
123	JC	33392	Subedar	MK CHELLAPPAN PILLAI
124	JC	8730	Subedar	SREEDHARAN
125	JC	30561	Subedar	VASUDEVAN

THE GRENADIERS

126	JC	7397	Sub Maj	DALIP SINGH
127	JC	11455	Sub Maj	GYARSA RAM
128	JC	6340	Sub Maj	KANSHI RAM
129	JC	6348	Sub Maj	KESU RAM
130	JC	6706	Sub Maj	KISHANA RAM
131	JC	1564	Sub Maj	MAL SINGH
132	JC	1515	Sub Maj	MOOL SINGH
133	JC	7396	Sub Maj	PARBHU DAYAL
134	JC	1505	Sub Maj	SHIVDAN SINGH
135	JC	11690	Sub Maj	SULTAN
136	JC	11456	Subedar	FAZAL RAHMAN
137	JC	35816	Subedar	HANUMANA RAM

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

138	JC	11342	Sub Maj	DNYANU SALUNKHE
139	JC	8738	Sub Maj	KASHINATH POWAR
140	JC	5921	Sub Maj	RAM DAS POWAR
141	JC	12273	Sub Maj	RAMDAS SOMEVANSI
142	JC	6359	Sub Maj	SRIDHAR RAO
143	JC	28413	Subedar	GOPAL UTEKAR

THE RAJPUTANA RIFLES

144	JC	6151	Sub Maj	BANNE SINGH
145	JC	5496	Sub Maj	HANUMAN
146	JC	12890	Sub Maj	MUKAND SINGH
147	JC	6583	Sub Maj	RAHMAT ALI
148	JC	5759	Sub Maj	SUGAN SINGH
149	JC	16460	Subedar	BAGRAVAT SINGH
150	JC	12526	Subedar	POLHAN SINGH
151	JC	26942	Subedar	RAMDEO SINGH
152	JC	06856	Subedar	REWANT SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

153	JC	7100	Sub Maj	RAGHUBIR SINGH
154	JC	14670	Sub Maj	RAJENDRA SINGH
155	JC	11190	Sub Maj	RAM ACHAL
156	JC	7104	Sub Maj	RATTAN SINGH
157	JC	17709	Subedar	CHATTU TIWARI
158	JC	22966	Subedar	CHITAR SINGH
159	JC	17705	Subedar	NIKE RAM, SC

THE JAT REGIMENT

160	JC	8833	Sub Maj	JAI LAL
161	JC	9640	Sub Maj	SHER SINGH
162	JC	17036	Subedar	CHANDAN SINGH
163	JC	31401	Subedar	NAHAR SINGH
164	JC	35051	Subedar	SUKHBIR SINGH

THE SIKH REGIMENT

165	JC 5933	Sub Maj	BANTA SINGH
166	JC 12338	Sub Maj	DARSHAN SINGH
167	JC 2071	Sub Maj	NAZAR SINGH
168	JC 11157	Sub Maj	PRITAM SINGH
169	JC 8631	Sub Maj	RATTAN SINGH
170	JC 15693	Subedar	HIMAT SINGH
171	JC 30345	Subedar	KUNDAN SINGH
172	JC 26169	Subedar	MEHAN SINGH
173	JC 35872	Subedar	POORAN SINGH
174	JC 26162	Subedar	SHINGHARA SINGH
175	JC 28528	Subedar	SOHAN SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

176	JC 2086	Sub Maj	MUKHTIAR SINGH
177	JC 9561	Sub Maj	SAJJAN SINGH

THE DOGRA REGIMENT

178	JC 5664	Sub Maj	HANS RAJ
179	JC 5359	Sub Maj	NAND LALL
180	JC 5267	Sub Maj	PRITAM SINGH
181	JC 4620	Sub Maj	RAM NIWAZ
182	JC 10319	Sub Maj	SANT RAM
183	JC 40613	Sub Clk	KUNDAN LAL

THE GARHWAL RIFLES

184	JC 17040	Sub Maj	CLK (GD)	GANGA SINGH BHANDARI
185	JC 10383	Sub Maj		ANAND SINGH BISHT
186	JC 11994	Sub Maj		NETAR SINGH BISHT
187	JC 11030	Sub Maj		SEAM SINGH BISHT
188	JC 10214	Sub Maj		TRILOK SINGH RAWAT
189	JC 10542	Sub Maj		UDE SINGH BISHT
190	JC 33155	Subedar		ANAND SINGH GUSAIN
191	JC 33150	Subedar		KUNWAR SINGH RAWAT
192	JC 33152	Subedar		RAM SINGH GUSAIN

THE KUMAON REGIMENT

193	JC 12566	Sub Maj	BACHI SINGH
194	JC 7626	Sub Maj	DHAN SINGH
195	JC 6733	Sub Maj	GOPAL SINGH
196	JC 9429	Sub Maj	KHEM SINGH
197	JC 7775	Sub Maj	LACHHAM SINGH
198	JC 9024	Sub Maj	MAHENDRA SINGH
199	JC 2440	Sub Maj	RAM SARAN
200	JC 5171	Sub Maj	RATI CHAND
201	JC 36145	Subedar	BAHADUR SINGH
202	JC 36755	Subedar	BHAWAN SINGH
203	JC 21549	Subedar	HARISH CHANDRA
204	JC 8274	Subedar	KAMAN SINGH
205	JC 16367	Subedar	MURLI DHAR
206	JC 28396	Subedar	NARAIN SINGH

THE ASSAM REGIMENT

207	JC 7134	Sub Maj	IMTINANGSHI AO
208	JC 6458	Sub Maj	KHAWIANA LUSHAI
209	JC 6459	Sub Maj	LALLAWMA LUSHAI
210	JC 6456	Sub Maj	THUAMLUAI HMAR
211	JC 24161	Subedar	CHALKUNGA
212	JC 22990	Subedar	LALHINGLOVA
213	JC 21058	Subedar	LALMAWIA LUSHAI

THE BIHAR REGIMENT

214	JC 13288	Subedar	MEGH NATH ORAON
215	JC 29119	Subedar	SUKH DEO

THE MAHAR REGIMENT

216	JC 12341	Sub Maj	CHANDRU KASARE
217	JC 9186	Sub Maj	DAGDU SHIRKE
218	JC 2532	Sub Maj	DHARMA SABLE
219	JC 5189	Sub Maj	JAGAT SINGH
220	JC 05185	Sub Maj	MAHESH BUX SINGH
221	JC 21781	Sub Clk.	PUNNU RAM
222	JC 29461	Subedar	PANDU JADHAW

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

223	JC 11600	Sub Maj	ACHHAR SINGH
224	JC 15221	Sub Maj	CHARAN DASS
225	JC 8358	Sub Maj	DAULAT RAM
226	JC 9423	Sub Maj	DHIRAJ SINGH
227	JC 11414	Sub Maj	JASWANT SINGH
228	JC 8362	Sub Maj	MEJRA SINGH
229	JC 11679	Sub Maj	SURAT SINGH
230	JC 16496	Sub Clk	BALWANT SINGH
231	JC 28196	Sub Clk	GAJINDER SINGH
232	JC 23813	Sub Clk	SUKHDEV SINGH
233	JC 24776	Subedar	ANANT RAM
234	JC 31764	Subedar	BARA SINGH
235	JC 25157	Subedar	HARBANS SINGH
236	JC 28193	Subedar	RATTAN SINGH
237	JC 35938	Subedar	SADHU SINGH
238	JC 15196	Subedar	TARA SINGH

1 GORKHA RIFLES

239	JC 12092	Sub Maj	BASANT BAHADUR RANA
240	JC 10286	Sub Maj	JIT BAHADUR ALE

3 GORKHA RIFLES

241	JC 7578	Sub Maj	GOPI BAHADUR RANA
242	JC 7579	Sub Maj	PREM SINGH THAPA
243	JC 10283	Sub Maj	TULU PUN
244	JC 26643	Subedar	BIKRAM JANG BASNET
245	JC 20645	Subedar	KHARAK SINGH THAPA

4 GORKHA RIFLES

246	JC 10518	Sub Maj	JUM KAJI GURUNG.
247	JC 7522	Sub Maj	KAU BAHADUR GURUNG
248	JC 6486	Sub Maj	MAHINDRA BAHADUR GURUNG
249	JC 23882	Subedar	BHAGWAN SINGH GURUNG

5 GORKHA RIFLES

250	JC 16544	Sub Maj	JAGATNARAIN NEWAR
251	JC 50200	Sub Clk	SANTOKSING THAPA
252	JC 33014	Subedar	LALBAHADUR THAPA
253	JC 36089	Subedar	RANBAHADUR GURUNG
254	JC 35151	Subedar	TULBAHADUR THAPA

8 GORKHA RIFLES

255	JC 17614	Sub Maj	GAMBAHADUR GURUNG
256	JC 8970	Sub Maj	KHEMBAHADUR THAPA
257	JC 13166	Sub Maj	MANBAHADUR GURUNG, Vrc,

9 GORKHA RIFLES

258	JC 6613	Sub Maj	FATEH JUNG KHATTRI
259	JC 6906	Sub Maj	LAL BAHADUR KARKI
260	JC 8695	Sub Maj	RIM BAHADUR KHATTRI

11 GORKHA RIFLES

261	JC 8886	Sub Maj	AKILDHOJ RAI
262	JC 9537	Sub Maj	CHANDRABAHADUR RAI
263	JC 6212	Sub Maj	JAINARSING RAI
264	JC 9893	Sub Maj	KHAMBADHOJ SUNWAR

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

265	JC 2900	Sub Maj Clk (GD) (SD)	GURDAS H AJWANI
266	JC 7864	Sub Maj Clk (GD)	AGIA RAM BINDRA
267	37277 JC	Sub Maj Clk (GD)	BALKISHAN
268	JC 2934	Sub Maj Clk (GD)	HAR KRISHAN LALSHARMA
269	JC 10243	Sub Maj Clk (GD)	HARBANS LAL MEHDI- RATTA
270	37283 JC	Sub Maj Clk (GD)	MEHAR CHAND KAUSHAL
271	JC 4698	Sub Maj Clk (GD)	RANBIR SINGH
272	37455 JC	Sub Maj Clk (GD)	SUNDER RAJ JOHN RICHARDS
273	32996 JC	Sub Maj Clk (Store)	DAYANAND TANDON
274	JC 2813	Sub Maj Clk (Store)	HARJIT SINGH
275	34518 JC	Sub Maj Clk (Store)	KIRPAL SINGH PURI
276	35344 JC	Sub Maj Clk (Store)	MOHAN LAL
277	35376 JC	Sub Maj Clk (Store)	RAVADA GOPAL KRISHNA
278	JC 31932	Sub (PA)	SANTI RANJAN CHATTER- JEE

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

279	JC 10492	Ris Maj	DAL SINGH
280	JC 11380	Ris Maj	LAKHA SINGH
281	JC 7815	Ris Maj	RAJINDRA SINGH NEGI

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

282	JC 6948	Sub Maj	BALWANT RAI
283	JC 7332	Sub Maj	CHAMAN LAL
284	JC 9437	Sub Maj	CHANDER DIP SINGH
285	JC 9057	Sub Maj	DES RAJ
286	JC 9632	Sub Maj	DEVINDAR NATH
287	JC 9847	Sub Maj	HAYAT SINGH
288	JC 8099	Sub Maj	JAGDEV SINGH AHLUWA- LIA
289	JC 8795	Sub Maj	JAI LAL
290	JC 8383	Sub Maj	M KUNHI RAMAN
291	JC 8776	Sub Maj	N ASEERVADAM
292	31665 JC	Sub Maj	RAM CHANDAR
293	JC 7856	Sub Maj	SRI CHAND
294	JC 6963	Sub Maj	SURAJ SINGH
295	40860 JC	Sub Maj	VEERLA VENKATA NARA- YANA RAO
296	JC 36979	Subedar	BABA DIN
297	JC 21646	Subedar	CH KARUNAKARAN
298	JC 39886	Subedar	KK DAMODARAN NAIR
299	JC 39901	Subedar	RAM KARAN

ARMY MEDICAL CORPS

300	JC 12930	Sub Maj (AA)	BIDYA DATT
301	JC 11294	Sub Maj (AA)	MA GEORGE
302	JC 3135	Sub Maj (AA)	MAHESHANAND
303	JC 9294	Sub Maj (AA)	NAIN SINGH
304	57038 JC	Sub (Disp)	UMED SINGH
305	JC 60931	Sub (Lab Tech)	MANMOHAN SINGH
306	JC 54396	Sub (NA)	RICHARD MORLEY SINGH
307	JC 17929	Sub (SA)	BIRENDRA KUMAR CHAK- RABORTY
308	JC 21698	Sub (SA)	IMAMSAB RAJESABHOUR
309	JC 22576	Sub (SA)	JAGDEO BIN
310	JC 7833	Sub (SA)	RAM SAGAR SHARMA

ARMY ORDNANCE CORPS

311	48909 JC	Sub Maj	BALWANT LAL BHATIA
312	51577 JC	Sub Maj	BALWANT SINGH
313	32372 JC	Sub Maj	BHAGAT SINGH
314	41064 JC	Sub Maj	GURCHARAN SINGH
315	45924 JC	Sub Maj	GURDEV SINGH SAINI
316	32361 JC	Sub Maj	HANS RAJ
317	41015 JC	Sub Maj	HARA LAL CHOWDHURY
318	35644 JC	Sub Maj	HARBHAGWAN MALHOTRA
319	52062 JC	Sub Maj	JAGAN NATH SHARMA
320	38153 JC	Sub Maj	KANAI LAL SOM
321	32607 JC	Sub Maj	KHUSHHAL SINGH
322	32346 JC	Sub Maj	MALLA SINGH
323	45885 JC	Sub Maj	MUKUNDALAL CHAKRA- BARTY
324	JC 3377	Sub Maj	NASHIR SHAH
325	44023 JC	Sub Maj	PANKAJ KUMAR GHOSH
326	JC 3366	Sub Maj	DASTIDAR
327	35645 JC	Sub Maj	RAM CHAND
328	58376 JC	Subedar	RATTAN CHAND MALHAN
329	JC 34781	Subedar	DARSHAN SINGH
330	55845 JC	Subedar	GURDIAL SINGH
331	57871 JC	Subedar	KK BALAKRISHNAN
332	JC 38026	Subedar	KV SUBBA RAO
333	JC 33037	Subedar	MONORANJAN ROY
334	57875 JC	Subedar	RAMESH CHANDRA
			SURYA PRASAD TIRVEDI

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

335	JC 16266	Sub Maj	BAL SARUP
336	JC 3468	Sub Maj	BALDEV SINGH
337	JC 17787	Sub Maj	BHAGAT SINGH
338	60812 JC	Sub Maj	CP MADAPPA
339	3463 JC	Sub Maj	DIWAN SINGH
340	57329 JC	Sub Maj	G. SUBRAMANIAN
341	JC 3666	Sub Maj	GANGADHAR VIDUR
342	60810 JC	Sub Maj	GURDAYAL BHALLA
343	61034 JC	Sub Maj	GURDYAL SINGH
344	JC 7746	Sub Maj	HARNAM SINGH
345	JC 3953	Sub Maj	INDRA PRATAP SINGH
346	JC 3659	Sub Maj	KR VASUDEVAN
347	JC 6247	Sub Maj	KRISHNA PATIL
348	JC 3635	Sub Maj	L RAMAKRISHNAN
349	60818 JC	Sub Maj	LALTA PRASAD MISRA
350	JC 3535	Sub Maj	NARMAN SINGH
351	61057 JC	Sub Maj	PJ FRANCIS
352	JC 3954	Sub Maj	PARDHUMAN SINGH
353	JC 3682	Sub Maj	PYARE LALL
354	57317 JC	Sub Maj	RADHESH CHANDRA
			BHOWMICK
355	59146 JC	Sub Maj	R VARADARAJAN
356	JC 3470	Sub Maj	RAM RATAN

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS—*contd.*

357	7300 JC	Sub Maj	SOHAN SINGH
358	JC 3704	Sub Maj	T THIRUNAVUKKARASU
359	JC 3656	Sub Maj	WASHESHA NATH SURI
360	JC 31139	Subedar	UJAGAR SINGH

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

361	RV 7056	Ris Maj Clk	HARI KRISHAN SHARMA
-----	---------	-------------	---------------------

ARMY EDUCATIONAL CORPS

362	61930 JC	Sub Maj	ASWANI KUMAR SAHA
363	59299 JC	Sub Maj	JAGDISH RAM KALIA
364	61207 JC	Sub Maj	PURUSHOTHAMAN
365	JC 18263	Subedar	BALWANT SINGH BAJWA
366	JC 17101	Subedar	JAMIAT SINGH
367	JC 13664	Subedar	RAM CHANDRA

THE INTELLIGENCE CORPS

368	60396 JC	Sub Maj	D MARTIN
369	JC 23550	Subedar	DAULAT RAM

CORPS OF MILITARY POLICE

370	JC 18464	Sub (MP)	HOSHIAR SINGH
-----	----------	----------	---------------

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

371	JC 5438	Sub Maj	GURCHAIN SINGH
-----	---------	---------	----------------

THE PIONEER CORPS

372	JC 11826	Sub Maj (GD)	G KRISHNA PILLAI
373	39971 JC	Sub Maj (GD)	KIRPU RAM
374	JC 16600	Sub (GD)	DEVI SINGH
375	JC 31890	Sub (GD)	JAMIAT SINGH

सं० 5—ई तारीख 24 जनवरी 73—राष्ट्रपति निम्नलिखित जे सी ओ जो कि डिफेंस स्कीयरिटी कोर के हैं 26 जनवरी, 1973 से सेना विनियामावली 1962 पैरा 178 के आधीन अवैतनिक कमीशन प्रदान करने हैं :—

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में

(1)	39180 जे सी	सूबेदार मेजर	.	.	.	जोगी राम
(2)	57299 जे सी	सूबेदार मेजर	.	.	.	पी० मानकुन्नी
(3)	31138 जे सी	सूबेदार	.	.	.	एस० जेम्स

No. 5-E dated 24th Jan 73.—The President is pleased to grant honorary commissions to the under-mentioned JCOs belonging to the Defence Security Corps, under Para 178 of the Regulations for the Army (1962), with effect from 26 Jan. 1973:—

To be Honorary Lieutenants

1.	39180 JC	Sub Maj	JOGI RAM
2.	57299 JC	Sub Maj	P SANKUNNY
3.	31138 JC	Subedar	S JAMES

सं० 3—ई तारीख 24 जनवरी, 1973 के भारत स्थित सेना विनियामकी 1962 के पैरा 180 के अधीन राष्ट्रपति जे सी ओस को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं :—

अवैतनिक कौष्टन के रैंक में

7 केवलरी

1 जे सी 10017	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	करतार सिंह	26 अक्टूबर, 1972
---------------	--------------------------------------	------------	------------------

1 हार्स

2 जे सी 6257	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	सूरत सिंह	19 अक्टूबर, 1972
--------------	--------------------------------------	-----------	------------------

17 हार्स

3 जे सी 10800	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	दलीप सिंह	21 अक्टूबर, 1972
---------------	--------------------------------------	-----------	------------------

9 हार्स

4 जे सी 6569	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	रत सिंह	26 नवम्बर, 1972
--------------	--------------------------------------	---------	-----------------

3 केवलरी

5 जे सी 404	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	साल सिंह	7 जनवरी, 1973
-------------	--------------------------------------	----------	---------------

मेन्टल इण्डिया हार्स

6 जे सी 6570	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	लाल सिंह	12 अक्टूबर, 1972
--------------	--------------------------------------	----------	------------------

62 केवलरी

7 जे सी 9257	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	सिरी चन्द	5 नवम्बर, 1972
--------------	--------------------------------------	-----------	----------------

20 लान्सर्स

8 जे सी 5395	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	भंवर सिंह	28 अक्टूबर, 1972
--------------	--------------------------------------	-----------	------------------

63 केवलरी

9 जे सी 6562	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	धूम सिंह	23 अक्टूबर, 1972
--------------	--------------------------------------	----------	------------------

64 केवलरी

10 जे सी 8220	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	बालम सिंह	12 सितम्बर, 1972
---------------	--------------------------------------	-----------	------------------

38 ग्रार्मंड रेजिमेंट

11 जे सी 7176	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	समदर सिंह	1 अक्टूबर, 1972
---------------	--------------------------------------	-----------	-----------------

रेजिमेंट ग्राफ आर्टिलरी

12 जे सी 5285	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	बी के वरदाराजन	5 जुलाई, 1972
13 जे सी 4485	सूबेदार मेजर क्लर्क व आन- रेरी लैफ्टीनेंट	यशकरन सिंह राडोर	14 जनवरी, 1973
14 जे सी 5218	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	गुलाबराव शिंदे	13 अगस्त, 1972
15 जे सी 11434	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	हुशोराम भोर	15 जनवरी, 1973
16 जे सी 152	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	के एम संकरन नाथर	20 मई, 1972
17 जे सी 6795	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	करतार सिंह	13 जुलाई, 1972
18 जे सी 7650	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	साधू सिंह	22 सितम्बर, 1972
19 जे सी 24195	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टीनेंट	बलीराम धूमल	9 जुलाई, 1972
20 जे सी 17411	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टीनेंट	भूपिन्द्र सिंह	2 नवम्बर, 1972
21 जे सी 24250	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टीनेंट	मिलखी राम	28 मई, 1972

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

22 जे सी 911	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	एम एन्ड्रियूज़	4 जनवरी, 1973
23 जे सी 890	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	सुब्रामनियन	31 दिसम्बर, 1972

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

24 जे सी 5244	सूबेदार मेजर क्लर्क (जीडी) व आनरेरी लैफ्टीनेंट	चुनी लाल शर्मा	1 दिसम्बर, 1972
25 जे सी 11115	सूबेदार मेजर क्लर्क (जीडी) व आनरेरी लैफ्टीनेंट	बी डी जोसफ	11 जनवरी, 1973
26 जे सी 6122	सूबेदार मेजर (जीडी) व आनरेरी लैफ्टीनेंट	भोजन सिंह	7 अक्टूबर, 1972
27 जे सी 720	सूबेदार मेजर (जीडी) व आनरेरी लैफ्टीनेंट	जगदीश सिंह	24 जनवरी, 1973
28 जे सी 6670	सूबेदार मेजर (जीडी) व आनरेरी लैफ्टीनेंट	जोगिन्दर सिंह	21 जनवरी, 1973
29 जे सी 6126	सूबेदार मेजर (जीडी) व आनरेरी लैफ्टीनेंट	पिताम्बर दत्त	15 दिसम्बर, 1972

बोम्बे इंजीनियर ग्रुप			
30 जे सी 5349	सूबेदार मेजर क्लर्क व आनरेरी लैफ्टीनेंट	एम पी सी पिल्ले	4 दिसम्बर, 1972
31 जे सी 7049	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	अर्जुन कदम	12 दिसम्बर, 1972
32 जे सी 5746	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	गनपत उत्तेकर	20 जनवरी, 1973
33 जे सी 5791	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	जोगिन्दर सिंह	14 जनवरी, 1973
34 जे सी 839	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	खुशाली देसाई	13 जनवरी, 1973
35 जे सी 5752	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	कृष्णा साबले	1 सितम्बर, 1972
36 जे सी 6311	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	संतोख सिंह	5 जनवरी, 1973
कोर आफ सिगनलस			
37 जे सी 1020	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	बूर सिंह	21 जनवरी, 1973
38 जे सी 4503	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	खियाली राम	25 मार्च, 1972
39 जे सी 1105	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	एम ओ इयपन	23 सितम्बर, 1972
40 53160 जे सी	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टीनेंट	उलफिलास हैनरी शाह	28 नवम्बर, 1972
ब्रिगेड आफ दी गार्ड्स			
41 जे सी 7615	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	जगत सिंह	3 जुलाई, 1972
42 जे सी 353	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	केशव दत्त	13 जनवरी, 1973
43 जे सी 8154	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टीनेंट	सूरत सिंह	13 जनवरी, 1973
44 जे सी 31373	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टीनेंट	जय बहादुर गुरंग	4 अक्टूबर, 1972
45 जे सी 20728	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टीनेंट	पत राम	2 नवम्बर, 1972
दी पैराशूट रेजिमेंट			
46 जे सी 9487	सूबेदार मेजर क्लर्क व आनरेरी लैफ्टिनेंट	धर्म सिंह	9 अक्टूबर 1972
47 जे सी 11357	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	गुगन सिंह	17 अगस्त 1972
48 जे सी 10388	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	राम जस	20 नवम्बर 1972
49 जे सी 30923	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	पंडित पाटिल	18 सितम्बर 1972

बी पैराशूट रेजिमेंट—जारी

50 जे सी 33530 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट मिरी राम 22 दिसम्बर 1972

बी मद्रास रेजिमेंट

51 जे सी 17074 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट गोपीनाथन नायर 13 अक्टूबर 1972

52 जे सी 24803 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट राजन 18 अगस्त 1972

बी प्रिन्सेडियरस

53 जे सी 6352 सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट रायन सिंह 4 दिसम्बर 1972

54 जे सी 12826 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट लाखू भा 25 अक्टूबर 1972

बी मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

55 जे सी 11180 सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट दत्त भामर 17 जनवरी 1973

56 जे सी 8671 सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट दयानु चाउगुले 18 दिसम्बर 1972

57 जे सी 12265 सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट पारबती साहदिक 2 सितम्बर 1972

58 जे सी 24742 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट ढोंडीराम पाटनकर 23 जनवरी 1973

59 जे सी 32998 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट महादेव बारगे 7 नवम्बर 1972

बी राजपूताना राइफलस

60 जे सी 6866 सूबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट रामपत राम 11 सितम्बर 1972

बी राजपूत रेजिमेंट

61 जे सी 19086 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट बल्लू 16 दिसम्बर 1972

62 जे सी 10728 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट जगदम्बा प्रसाद सिंह 24 जनवरी 1973

बी जाट रेजिमेंट

63 जे सी 6024 सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट चन्दगी 1 जनवरी 1973

64 जे सी 31913 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट लाल चन्द 7 दिसम्बर 1972

बी सिख रेजिमेंट

65 जे सी 9020 सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट गोपाल सिंह 11 दिसम्बर 1972

66 जे सी 6410 सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट गुरबक्ष सिंह 28 नवम्बर 1972

67 जे सी 7116 सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट हरफूल सिंह 17 अगस्त 1972

68 जे सी 24817 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट आसा सिंह 27 दिसम्बर 1972

69 जे सी 23535 सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट चानन सिंह 2 नवम्बर 1972

दी सिख रेजिमेंट—जारी

70 जे सी 14290	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	दलीप सिंह	10 सितम्बर 1972
71 जे सी 27845	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	साभ सिंह	24 नवम्बर 1972

वी सिख लाइट इन्फैंटरी

72 जे सी 4990	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	दलीप सिंह	10 दिसम्बर 1972
73 जे सी 2115	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	हरनाम सिंह	29 अक्टूबर 1972
74 जे सी 8677	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	रतन सिंह	7 नवम्बर 1972
75 जे सी 25315	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	चरन सिंह	23 अगस्त 1972
76 जे सी 28987	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	लछमन सिंह	17 नवम्बर 1972
77 जे सी 6889	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	रतन सिंह	19 जनवरी 1973
78 जे सी 7128	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सोहन सिंह	4 जनवरी 1973

वी ओगरा रेजिमेंट

79 जे सी 5662	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	जगदीश राम	27 सितम्बर 1972
80 जे सी 9581	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बलदेव सिंह	30 जून 1972
81 जे सी 13108	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	पिताम्बर दास	30 जन 1972
82 जे सी 20425	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	रूप लाल	9 दिसम्बर 1972

वी गढ़वाल राइफल्स

83 जे सी 32232	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	गबर सिंह रावत	15 जनवरी 1973
----------------	-----------------------------	---------------	---------------

वी कुमाऊं रेजिमेंट

84 जे सी 6454	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	भीम बहादुर	2 सितम्बर 1972
85 जे सी 6735	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	माधो सिंह	1 दिसम्बर 1972
86 जे सी 17980	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	भवन सिंह	21 सितम्बर 1972
87 जे सी 16373	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बीर सिंह	8 सितम्बर 1972
88 जे सी 30533	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	गुध राम	6 अक्टूबर 1972
89 जे सी 18198	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	गंगा सिंह	21 नवम्बर 1972
90 जे सी 28843	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	रुद्र सिंह	27 अक्टूबर 1972

दी आसाम रेजिमेंट

91 जे सी 6035	सूबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	असूद होंगराए संगखुल	17 नवम्बर 1972
---------------	---------------------------	------------------------	----------------

दी महार रेजिमेंट

92 जे सी 7513	सूबेदार मेजर व आनरेरी लेफ्टिनेंट	बल राम	26 दिसम्बर 1972
---------------	-------------------------------------	--------	-----------------

दी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफलस

93 जे सी 25163	सूबेदार कर्क व आनरेरी लेफ्टिनेंट	सुराम सिंह	16 जनवरी 1973
94 जे सी 24059	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	वरयाम सिंह, बीर चक्र	2 नवम्बर 1972

1 गोरखा राइफलस

95 जे सी 5724	सूबेदार मेजर कर्क व आनरेरी लेफ्टिनेंट	जगदीश चन्द्र शर्मा	21 अक्टूबर 1972
96 जे सी 7146	सूबेदार मेजर व आनरेरी लेफ्टिनेंट	जन बहादुर गुरंग	19 अक्टूबर 1972
97 जे सी 36217	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	दुर्गा बहादुर गुरंग	25 नवम्बर 1972
98 जे सी 25591	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	दुर्गा बहादुर थापा	21 दिसम्बर 1972

3 गोरखा राइफलस

99 जे सी 15039	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लेफ्टिनेंट	बिहारी लाल	2 नवम्बर 1972
----------------	--	------------	---------------

4 गोरखा राइफलस

100 जे सी 12261	सूबेदार मेजर व आनरेरी लेफ्टिनेंट	अस बहादुर गुरंग	10 नवम्बर 1972
101 जे सी 10515	सूबेदार मेजर व आनरेरी लेफ्टिनेंट	सन्त बहादुर गुरंग	10 दिसम्बर 1972
102 जे सी 15368	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	बद्धिमान गुरंग	10 अक्टूबर 1972
103 जे सी 36215	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	गंगे गुरंग	15 दिसम्बर 1972
104 जे सी 23881	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	हिमन सिंह गुरंग	5 दिसम्बर 1972
105 जे सी 13764	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	किशन सिंह गुरंग	15 नवम्बर 1972
106 जे सी 24880	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	रेख बहादुर गुरंग	9 दिसम्बर 1972

5 गोरखा राइफलस

107 जे सी 19521	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	भवनसिंह थापा	1 दिसम्बर 1972
108 जे सी 33015	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	चन्द्रबहादुर थापा	1 दिसम्बर 1972
109 जे सी 36876	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	गोपाल गुरंग	20 जनवरी 1973
110 जे सी 35153	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	जीतबहादुर गुरंग	10 अक्टूबर 1972
111 जे सी 36879	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	कुलबहादुर आले	8 दिसम्बर 1972
112 जे सी 37813	सूबेदार व आनरेरी लेफ्टिनेंट	लालपरसाद गुरंग	14 अक्टूबर 1972

8 गोरखा राष्ट्रफलस

113 जे सी 13273	सूबेदार मेजर कर्क व आनरेरी लैफ्टिनेंट	विनायक जोगदेव	16 दिसम्बर 1972
114 जे सी 12465	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	कमनसिंग गुरंग	29 अक्तूबर 1972
115 जे सी 6494	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	लाल बहादुर आले	12 नवम्बर 1972
116 जे सी 16555	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	टेकबहादुर पुन	11 नवम्बर 1972
117 जे सी 31506	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	लालबहादुर थापा, शौचे चक्र	15 दिसम्बर 1972
118 जे सी 29692	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	नीलसिंह राना	11 दिसम्बर 1972
119 जे सी 19960	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	उद बहादुर थापा	6 अक्तूबर 1972

9 गोरखा राष्ट्रफलस

120 जे सी 13784	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	गणेश सिंह खांडका	2 नवम्बर 1972
121 जे सी 6750	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	जीत बहादुर खत्री	27 नवम्बर 1972
122 जे सी 36567	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	लछमन कार्की	9 दिसम्बर 1972
123 जे सी 15730	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	मनबहादुर अधिकारी	17 अक्तूबर 1972

11 गोरखा राष्ट्रफलस

124 जे सी 5822	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	अनन्तराम शर्मा	14 नवम्बर 1972
125 जे सी 6507	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	मनबहादुर नेवार	24 अगस्त 1972

आर्मी सर्विस कोर (सप्लाई)

126 जे सी 2931	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	ए एस बलराम	24 जनवरी 1973
127 37231 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	कुलदीप सिंह सूरि	25 दिसम्बर 1972
128 37224 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	मनोहर लाल सम्बरवाल	12 सितम्बर 1972
129 37251 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	मुल्क राज आनन्द	3 जनवरी 1973
130 37279 जे सी	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	प्रेम प्रकाश दुदेजा	8 दिसम्बर 1972
131 37519 जे सी	सूबेदार मेजर (कॉमिन्ग) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	द्वारका नाथ साहनी	24 अक्टूबर 1972

आर्मी सर्विस कौर (एनीमल ट्रान्सपोर्ट)

132 जे सी 3100	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	मधुकर फडके	15 दिसम्बर 1972
133 जे सी 7296	रिसालदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	माहृकर सिंह मलिक	1 जनवरी 1973

आर्मी सर्विस कौर (मकेनिकल ट्रान्सपोर्ट)

134 जे सी 7346	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	अप्पा पाटिल	2 अक्टूबर 1972
135 जे सी 7343	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बाजी राव शेदगे	21 सितम्बर 1972
136 जे सी 6230	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	दीवान चन्व	4 अक्टूबर 1972
137 जे सी 7853	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	गोवरधन सास दक्की	2 सितम्बर 1972
138 जे सी 8778	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	हर लाल	25 नवम्बर 1972
139 जे सी 5988	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	इजादू रहमान खां	20 सितम्बर 1972
140 जे सी 4661	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	मोहिन्दर सिंह	8 अक्टूबर 1972
141 जे सी 6236	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	रामदुलारे	15 अक्टूबर 1972
142 जे सी 7323	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	भान्तीसरण	21 सितम्बर 1972
143 जे सी 8382	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	श्याम दत्त	1 सितम्बर 1972
144 जे सी 7322	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सूबेदार	7 सितम्बर 1972
145 जे सी 4667	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सूखदेव शर्मा	28 अगस्त 1972

आर्मी मेडिकल कौर

146 जे सी 3223	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सुकुमार दास	31 दिसम्बर 1972
147 जे सी 41417	सूबेदार मेजर (एन ए) व लैफ्टिनेंट	एस गोविन्दा राजू	11 जनवरी 1973
148 जे सी 8230	सूबेदार (आर ए डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	एसके वेलू	27 अगस्त 1972
149 जे सी 9284	सूबेदार (एस ए) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	माईकल चिन्नाया माईकल	17 अक्टूबर 1972

आर्मी मेडिकल कोर—जारी

150 जे सी 15316	सूबेदार (एस ए) व आनरेरी वी पालिहा लैफ्टिनेंट	14 सितम्बर 1972
-----------------	---	-----------------

आर्मी आर्डिनेस कोर

151 53192 जे सी	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	लक्ष्मन सिंह	19 दिसम्बर 1972
152 52022 जे सी	बेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	ठाकुरी राम विश्वनोई	5 अक्टूबर 1972

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकनिकल इंजिनियरस

153 61052 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	अवतार सिंह	20 नवम्बर 1972
154 जे सी 346 5	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	दलीप सिंह	12 दिसम्बर 1972
155 जे सी 3447	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	हन्स राम	1 सितम्बर 1972
156 जे सी 4564	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	केशव	1 सितम्बर 1972
157 60317 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	प्रताप सिंह	27 सितम्बर 1972
158 54138 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	श्याम दत्त त्रिपाठी	24 दिसम्बर 1972

आर्मी एंजुकेशनल कोर

159 57990 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लैफ्टिनेंट	सरदारी लाल शर्मा	9 नवम्बर 1972
160 53171 जे सी	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	कंदर्प नारायण पांडे	28 नवम्बर 1972
161 जे सी 15959	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	प्यारा सिंह	18 जनवरी 1973

दी इंटेलीजेंस कोर

162 जे सी 18524	सूबेदार व आनरेरी लैफ्टिनेंट	रन्धीर सिंह	20 दिसम्बर 1972
-----------------	-----------------------------	-------------	-----------------

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

163 जे सी 13414	सूबेदार मेजर कर्क (जी डी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बन्धन सिंह	8 नवम्बर 1972
164 जे सी 7273	सूबेदार मेजर (एम पी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	बंखशी राम	9 नवम्बर 1972
165 जे सी 4950	सूबेदार मेजर (एम पी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	किट्टन बाबा	25 सितम्बर 1972

दी पाइनर कोर

166 जे सी 166 02	सूबेदार (जी जी) व आनरेरी लैफ्टिनेंट	हुकम चन्द	14 अक्टूबर 1972
------------------	--	-----------	-----------------

दी रैकटिंग आरगेनाइजेशन

167 जे सी 9575 सूबेदार मेजर व आनररी भूपतिनाभ भट्टाचार्य 1 जनवरी 1973
लैफ्टिनेंट

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में

रेजिमेंट आफ आर्टिलेरी

1 जे सी 6105 सूबेदार मेजर मोहर सिंह 1 अगस्त 1972

दी अर्नेडियर्स

2 जे सी 10804 सूबेदार मेजर मोहम्मद जैनुल अबेदीन 11 अगस्त 1972

दी मराठा लाइट इन्फैंटरी

3 सी 7091 सूबेदार मेजर केशव सिवाले 19 अगस्त 1972

दी सिख लाइट इन्फैंटरी

4 जे सी 10413 सूबेदार मेजर मधा सिंह 12 नवम्बर 1972

आर्मी आडिनेंस कोर

5 35714 जे सी सूबेदार मेजर विनयाचल राय शर्मा 18 नवम्बर 1972

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजिनियर्स

6 जे सी 23758 सूबेदार मेजर विशन सिंह 10 दिसम्बर 1972

7 51061 जे सी सूबेदार मेजर देस राज शर्मा 17 दिसम्बर 1972

अवैतनिक रिसालदार मेजर/सूबेदार मेजर के रैंक में

16 कैबेलरी

1 जे सी 15055 रिसालदार एम जे जार्ज 2 नवम्बर 1972

7 कैबेलरी

2 जे सी 15792 रिसालदार राम चन्द्र 1 दिसम्बर 1972

2 लान्सर्स

3 जे सी 16047 रिसालदार धीमा सिंह 8 जुलाई 1972

9 हार्स

4 जे सी 24611 रिसालदार मोहिन्दर सिंह 12 जुलाई 1972

18 कैबेलरी

5 जे सी 17190 रिसालदार सरदार सिंह 24 दिसम्बर 1972

63 कैबेलरी

6 जे सी 10369 रिसालदार जगरूप सिंह 28 अगस्त 1972

रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

7 जे सी 25687	सूबेदार क्लर्क (जी डी)	बालाकृष्ण नायर	1	जुलाई	1972
8 जे सी 25667	सूबेदार क्लर्क (जी डी)	के पी पाले	1	जुलाई	1972
9 जे सी 25692	सूबेदार क्लर्क (जी डी)	पिंडी दाम	1	जुलाई	1972
10 जे सी 25690	सूबेदार क्लर्क	दिलबाग सिंह	9	अक्टूबर	1972
11 जे सी 30208	सूबेदार क्लर्क	गुरचरन सिंह	30	जून	1972
12 जे सी 25695	सूबेदार क्लर्क	हेत लाल यादव	23	अक्टूबर	1972
13 जे सी 25866	सूबेदार	अनूप सिंह	3	नवम्बर	1972
14 जे सी 30318	सूबेदार	बशेश्वर नाथ	12	अगस्त	1972
15 जे सी 12969	सूबेदार	हेनरी पाल	1	जुलाई	1972
16 जे सी 30319	सूबेदार	जोगिन्दर नाथ	15	अगस्त	1972
17 जे सी 25869	सूबेदार	एस अम्पा राव	28	जून	1972
18 जे सी 8085	सूबेदार	सरजीत सिंह	1	जुलाई	1972
19 जे सी 30174	सूबेदार	उमराव सिंह	1	जुलाई	1972

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

20 जे सी 19643	सूबेदार	अरुमुगम	1	जनवरी	1973
21 जे सी 10424	सूबेदार	गंगाधरम	4	जनवरी	1973
22 जे सी 19377	सूबेदार	कालेटी श्रीरामा मूर्ति	14	नवम्बर	1972
23 जे सी 18580	सूबेदार	आर पीरुमल	1	जनवरी	1973
24 जे सी 38287	सूबेदार	एस हैनरी	24	अक्टूबर	1972
25 जे सी 19681	सूबेदार	सामी दास	1	जनवरी	1973
26 जे सी 19973	सूबेदार	बीटी अब्राहम	25	सितम्बर	1972

बाम्बे इंजीनियर ग्रुप

27 जे सी 14737	सूबेदार क्लर्क (जी डी)	बाबा साहेब नलोडी	6	सितम्बर	1972
28 जे सी 13922	सूबेदार क्लर्क (जी डी)	यशवन्त भोसले	7	दिसम्बर	1972
29 जे सी 24598	सूबेदार	भगवान सावन्त	22	सितम्बर	1972
30 जे सी 31233	सूबेदार	करम सिंह	16	सितम्बर	1972
31 जे सी 13699	सूबेदार	नामदेव बाघ	22	सितम्बर	1972

कोर आफ सिगनल्स

32 जे सी 16639	सूबेदार	ए गोविन्दन नायर	18	जून	1972
33 जे सी 30285	सूबेदार	अमर सिंह	21	दिसम्बर	1972
34 जे सी 29446	सूबेदार	सी मोहम्मद	26	अगस्त	1972
35 जे सी 18141	सूबेदार	डी बी फरतान्डीज	8	जून	1972
36 जे सी 20093	सूबेदार	हरी सिंह	11	अगस्त	1972
37 जे सी 29346	सूबेदार	इन्द्र जीत	1	जुलाई	1972
38 जे सी 20095	सूबेदार	जगत सिंह	1	जुलाई	1972

कोर आफ सिगनल्स—जारी

39 जे सी 18124	सूबेदार	जान	23 दिसम्बर 1972
40 जे सी 20105	सूबेदार	लारेंस लोबो	1 जुलाई 1972
41 जे सी 18123	सूबेदार	मोहन लाल शर्मा	12 दिसम्बर 1972
42 जे सी 16641	सूबेदार	मुन्शी राम	24 अगस्त 1972
43 जे सी 22401	सूबेदार	राम सिंह	28 जून 1972
44 जे सी 15583	सूबेदार	रावल सिंह	1 जुलाई 1972

ब्रिगेड आफ दी गार्ड्स

45 जे सी 36012	सूबेदार	आनन्द सिंह रावत	29 दिसम्बर 1972
46 जे सी 36510	सूबेदार	भवंर सिंह	25 नवम्बर 1972
47 जे सी 22101	सूबेदार	बिन्देश्वरी सिंह	1 जुलाई 1972
48 जे सी 33554	सूबेदार	श्याली राम	15 सितम्बर 1972

दी पैराशूट रेजीमेंट

49 जे सी 30783	सूबेदार	बालीराम सूखे	17 दिसम्बर 1972
50 जे सी 25511	सूबेदार	चन्दगी	7 जनवरी 1973

दी पंजाब रेजिमेंट

51 जे सी 28645	सूबेदार	हरनेक सिंह	28 सितम्बर 1972
52 जे सी 21998	सूबेदार कर्क	जंगीर सिंह	21 सितम्बर 1972
53 जे सी 30436	सूबेदार	नौरंग सिंह	6 दिसम्बर 1972
54 जे सी 23825	सूबेदार	ठाकुर सिंह	12 दिसम्बर 1972

दी मदरास रेजिमेंट

55 जे सी 24808	सूबेदार कर्क	ए पी जोसेफ	21 नवम्बर 1972
56 जे सी 32141	सूबेदार	परमेश्वरन नायर	22 जनवरी 1973

दी ग्रेनेडियर्स

57 जे सी 11353	सूबेदार	करन सिंह	1 जनवरी 1973
58 जे सी 19267	सूबेदार	लछमन सिंह	1 अक्टूबर 1972
59 जे सी 30360	सूबेदार	कृष्णा सिंह	5 अक्टूबर 1972

दी मराठा लाइट इन्फैंट्री

60 जे सी 34412	सूबेदार कर्क (जी डी)	कृष्णा शिव नायक	9 दिसम्बर 1972
61 जे सी 19996	सूबेदार कर्क (जी डी)	पी एस बेन्कटारमन	11 दिसम्बर 1972
62 जे सी 24375	सूबेदार कर्क (जी डी)	शंकर पोवार	22 सितम्बर 1972
63 जे सी 13302	सूबेदार	अब्दुल समद खां	6 दिसम्बर 1972
64 जे सी 30390	सूबेदार	नरायण शिन्दे	31 दिसम्बर 1972
65 जे सी 33771	सूबेदार	सरजेराव बारगे	7 नवम्बर 1972
66 जे सी 13092	सूबेदार	शंकर भोंसले	10 अक्टूबर 1972

बी जाट रेजिमेंट

67 जे सी 49964	सूबेदार कर्क (जी डी)	रत्ती राम	30 जून 1972
68 जे सी 20855	सूबेदार	रंजीत सिंह	15 नवम्बर 1972
69 जे सी 27189	सूबेदार	सिरी राम	6 नवम्बर 1972

दी सिख रेजिमेंट

70 जे सी 36164	सूबेदार	भान सिंह	4 जनवरी 1973
----------------	---------	----------	--------------

दी सिख लाइट इन्फैंट्री

71 जे सी 24813	सूबेदार	बल्ल सिंह	11 जनवरी 1973
----------------	---------	-----------	---------------

बी डोगरा रेजिमेंट

72 जे सी 39814	सूबेदार कर्क	करम सिंह	21 अगस्त 1972
73 जे सी 21805	सूबेदार	जनक सिंह	24 अगस्त 1972
74 जे सी 28533	सूबेदार	केहर सिंह	23 जनवरी 1973
75 जे सी 33203	सूबेदार	परशोतम बास	18 दिसम्बर 1972
76 जे सी 20256	सूबेदार	सुभीया राम	13 जनवरी 1973
77 जे सी 27445	सूबेदार	सारा चन्द	30 जून 1972

बी कुमाऊँ रेजिमेंट

78 जे सी 32597	सूबेदार	मान सिंह	12 दिसम्बर 1972
----------------	---------	----------	-----------------

बी आसाम रेजिमेंट

79 जे सी 24154	सूबेदार	गोनेश लोठा	4 सितम्बर 1972
80 जे सी 24164	सूबेदार	जलूइया	9 नवम्बर 1972

बी बिहार रेजिमेंट

81 जे सी 34122	सूबेदार कर्क (जी डी)	राम लोचन सिंह	2 दिसम्बर 1972
82 जे सी 23567	सूबेदार कर्क	बिछितर सिंह	10 जनवरी 1973
		हरचन्द	
83 जे सी 23578	सूबेदार कर्क	हिरेन्द्र कुमार	15 दिसम्बर 1972
		पुरकायस्थ	

बी महार रेजिमेंट

84 जे सी 22904	सूबेदार	बख्शीश सिंह	27 नवम्बर 1972
85 जे सी 28333	सूबेदार	गनपत जाधव	2 जनवरी 1973
86 जे सी 28071	सूबेदार	नारायण सिंह	25 अगस्त 1972

बी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफलस

87 जे सी 27546	सूबेदार	जगम नाथ	13 दिसम्बर 1972
----------------	---------	---------	-----------------

3 गोरखा राइफलस

88 जे सी 18469	सूबेदार	खाकू पुन	6 अक्टूबर 1972
89 जे सी 36710	सूबेदार	नर बहादुर आले	11 अक्टूबर 1972
90 जे सी 16805	सूबेदार	राम सिंह थापा	29 दिसम्बर 1972

4 गोरखा राइफलस

91	जे सी 33162	सूबेदार	लिल बहादुर थापा	7 अक्टूबर 1972
----	-------------	---------	-----------------	----------------

5 गोरखा राइफलस

92	जे सी 35152	सूबेदार	चन्द्रबीर राना	7 अप्रैल 1972
93	जे सी 34014	सूबेदार	एकपरसाद गुरंग	1 दिसम्बर 1972
94	जे सी 28946	सूबेदार	हरीपरसाद राना	9 अक्टूबर 1972
95	जे सी 37812	सूबेदार	जसबहादुर गुरंग	15 दिसम्बर 1972
96	जे सी 35150	सूबेदार	नन्द परसाद थापा	1 अक्टूबर 1972

8 गोरखा राइफलस

97	जे सी 33793	सूबेदार	गंगनसिंह गुरंग	26 अक्टूबर 1972
98	जे सी 28918	सूबेदार	कबीराज गुरंग	12 जनवरी 1973

9 गोरखा राइफलस

99	जे सी 33246	सूबेदार	लाल बहादुर भण्डारी	12 अक्टूबर 1972
100	जे सी 35351	सूबेदार	रत्न बहादुर मल	12 अक्टूबर 1972
101	जे सी 33245	सूबेदार	समर बहादुर कार्की	4 अक्टूबर 1972

11 गोरखा राइफलस

102	जे सी 32589	सूबेदार	दमबेरसिंग राय	23 जनवरी 1973
103	जे सी 27427	सूबेदार	कबीराज राय	4 नवम्बर 1972

आर्मी सर्विस कोर (सप्लाई)

104	जे सी 46247	सूबेदार क्लर्क (जी डी) (एस डी)	अबानी कान्ता दास चौधरी	3 नवम्बर 1972
105	जे सी 37334	सूबेदार क्लर्क (जी डी) (एस डी)	सोहन सिंह	5 नवम्बर 1972
106	जे सी 41988	सूबेदार (पी ए)	अमरीक सिंह	23 नवम्बर 1972
आर्मी मेडिकल कोर				
107	जे सी 50223	सूबेदार क्लर्क (जीडी)	के जी गोपाला कृष्ण नायर	15 जून 1972
108	जे सी 22707	सूबेदार (एए)	नारसिमा	12 जून 1972
109	जे सी 32857	सूबेदार (डिस्ट्रिक्टर)	राजगिरी उपाध्याय	30 सितम्बर 1972
110	जे सी 32860	सूबेदार (डिस्ट्रिक्टर)	रतन चन्द	15 जनवरी 1973
111	जे सी 9000	सूबेदार (लैब टैक)	मुलियापुडी भीमवार राव	30 दिसम्बर 1972
112	जे सी 26549	सूबेदार (एन ए)	अजीत सिंह	3 नवम्बर 1972
113	जे सी 26543	सूबेदार (एन ए)	टी अध्यापन	27 अगस्त 1972
114	जे सी 35733	सूबेदार (एस के टी)	बलदेव राज	2 नवम्बर 1972
115	जे सी 38518	सूबेदार (एस के टी)	किशन सिंह	8 दिसम्बर 1972
116	जे सी 35726	सूबेदार (एस के टी)	मान सिंह	18 सितम्बर 1972

ग्रामीं आडिनेस कोर

117	जे सी 22769	सूबेदार	बी मयाना	9 जनवरी 1973
118	जे सी 30823	सूबेदार	दलजीत सिंह	14 दिसम्बर 1972
119	जे सी 30775	सूबेदार	के एम रामाचन्द्रा रेडी	27 अक्टूबर 1972
120	जे सी 36474	सूबेदार	करतार सिंह	15 नवम्बर 1972
121	जे सी 14553	सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	16 नवम्बर 1972
122	जे सी 14571	सूबेदार	रेबती रंजन दास गुप्ता	21 नवम्बर 1972
123	54540 जे सी	सूबेदार	तरनी कुमार घोष	19 दिसम्बर 1972
124	जे सी 31095	सूबेदार	उमेद सिंह	28 दिसम्बर 1972

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स

125	जे सी 17778	सूबेदार	विलसन श्रीनिवासन	2 मई 1972
-----	-------------	---------	------------------	-----------

रिमाउन्ट एण्ड बैटरेनरी कोर

126	आर बी 7117	रिसालदार (डीएसआर)	जिया लाल	13 जनवरी 1973
-----	------------	-------------------	----------	---------------

ग्रामीं एजुकेशनल कोर

127	जे सी 18262	सूबेदार	निरंजन सिंह	5 दिसम्बर 1972
-----	-------------	---------	-------------	----------------

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

128	जे सी 23082	सूबेदार क्लर्क (जीडी)	सम्पूरन सिंह	3 नवम्बर 1972
-----	-------------	-----------------------	--------------	---------------

दी पाइनयर कोर

129	जे सी 44988	सूबेदार क्लर्क (जीडी)	गौरी कान्ता मंडल	22 सितम्बर 1972
130	जे सी 23619	सूबेदार क्लर्क (जीडी)	मनोरंजन दत्ता	12 जून 1972
131	जे सी 15206	सूबेदार (जीडी)	सोबान सिंह	30 जून 1972

दी रिक्लूटिंग आरगेनाइजेशन

132	24752 जे सी	सूबेदार	रूप बन्द	8 मई 1972
-----	-------------	---------	----------	-----------

अवैतनिक रिसालदार/सूबेदार रैंक में

17 हास

1	जे सी 46335	नायब रिसालदार	रछुपान सिंह	17 जून 1972
---	-------------	---------------	-------------	-------------

रेजिमेंट आफ आर्टिलेरी

2	जे सी 49924	नायब सूबेदार	बी अम्पा राव	15 अगस्त 1972
3	जे सी 45545	नायब सूबेदार	हरभजन सिंह	1 जुलाई 1972
4	जे सी 47885	नायब सूबेदार	मोहित्वर सिंह	28 जून 1972
5	जे सी 47893	नायब सूबेदार	रघुनाथ दास	24 जून 1972
6	जे सी 47898	नायब सूबेदार	राजपाल सिंह	17 जुलाई 1972
7	जे सी 45451	नायब सूबेदार	ठाकर सिंह	24 जून 1972

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

8	जे सी 39230	नायब सूबेदार	के गोविन्दन कुट्टी नायर	27 दिसम्बर 1972
9	जे सी 41279	नायब सूबेदार	के कृष्णा कुट्टी नायर	22 दिसम्बर 1972
10	जे सी 18595	नायब सूबेदार	एम गंगादरम	2 दिसम्बर 1972
11	जे सी 41292	नायब सूबेदार	एम राधाकृष्णन	30 दिसम्बर 1972
12	जे सी 41261	नायब सूबेदार	माइकल जोबोय	1 नवम्बर 1972
13	जे सी 41281	नायब सूबेदार	मुकुसामी	2 दिसम्बर 1972
14	जे सी 47075	नायब सूबेदार	पी पी बोपय्या	4 अक्टूबर 1972
15	जे सी 43679	नायब सूबेदार	रय्याप्पन	4 अक्टूबर 1972
16	जे सी 41756	नायब सूबेदार	एस रामानुजम	9 दिसम्बर 1972

बोम्बे इंजीनियर ग्रुप

17	जे सी 41395	नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी)	के बी गोविन्दास्वामी	17 अक्टूबर 1972
18	जे सी 43859	नायब सूबेदार	बालू मिसल	30 अगस्त 1972
19	जे सी 43568	नायब सूबेदार	शुर्वेव सिंह	30 दिसम्बर 1972

कोर आफ सिगनल्स

20	जे सी 34846	नायब सूबेदार	हुनी चन्द	23 जून 1972
21	जे सी 48859	नायब सूबेदार	हरमिन्दर सिंह	30 अगस्त 1972
22	जे सी 52130	नायब सूबेदार	इकबाल सिंह	18 जून 1972
23	जे सी 49704	नायब सूबेदार	जागीर सिंह	9 जुलाई 1972
24	जे सी 52058	नायब सूबेदार	जागीर सिंह	17 जनवरी 1973
25	जे सी 44419	नायब सूबेदार	जगजीत सिंह	3 जून 1972
26	जे सी 52765	नायब सूबेदार	जैदरथ	8 दिसम्बर 1972
27	जे सी 36801	नायब सूबेदार	के अदिनारायना राव	15 अगस्त 1972
28	जे सी 32514	नायब सूबेदार	के बाला नायर	3 जून 1972
29	जे सी 52828	नायब सूबेदार	कस्तूरी लाल	7 जून 1972
30	जे सी 34837	नायब सूबेदार	कुन्दन लाल	19 जून 1972
31	जे सी 52123	नायब सूबेदार	लछमन सिंह	18 जून 1972
32	जे सी 53216	नायब सूबेदार	एम कन्होफानन नम्बियार	4 अक्टूबर 1972
33	जे सी 42791	नायब सूबेदार	माधवन श्रो	1 जुलाई 1972
34	जे सी 42811	नायब सूबेदार	मोहन सिंह	10 अगस्त 1972
35	जे सी 52133	नायब सूबेदार	निर्मल सिंह	1 जुलाई 1972
36	जे सी 52126	नायब सूबेदार	पी नारायनन कुट्टी	8 सितम्बर 1972
37	जे सी 34961	नायब सूबेदार	रतन चन्द	27 अक्टूबर 1972
38	जे सी 42805	नायब सूबेदार	सरमुख सिंह	22 सितम्बर 1972
39	जे सी 52832	नायब सूबेदार	सरूप सिंह	20 दिसम्बर 1972

कोर आफ सिगनरस—जारी

40	जे सी 44407	नायब सूबेदार	सुराम सिंह	3 जुलाई 1972
41	जे सी 34858	नायब सूबेदार	तिलक सिंह	3 जून 1972
42	जे सी 42091	नायब सूबेदार	बेद रतन	18 जून 1972

दी पंजाब रेजिमेंट

43	जे सी 49045	नायब सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	16 जुलाई 1972
----	-------------	--------------	---------------	---------------

दी ग्रेनेडियर्स

44	जे सी 48960	नायब सूबेदार	नेक राम	30 जून 1972
45	जे सी 41916	नायब सूबेदार	रगबीर सिंह	10 सितम्बर 1972

दी जाट रेजिमेंट

46	जे सी 35933	नायब सूबेदार	पह्लाद सिंह	11 सितम्बर 1972
47	जे सी 50323	नायब सूबेदार	प्रभू दयाल	22 अक्टूबर 1972
48	जे सी 49504	नायब सूबेदार	राम भज	28 सितम्बर 1972

दी सिख रेजिमेंट

49	जे सी 40705	नायब सूबेदार	हरी सिंह	31 जुलाई 1972
50	जे सी 52483	नायब सूबेदार	जरनैल सिंह	1 अक्टूबर 1972

दी डोगरा रेजिमेंट

51	जे सी 39146	नायब सूबेदार	नसीब सिंह	7 अगस्त 1972
52	जे सी 46733	नायब सूबेदार	रिखी राम	25 जनवरी 1973

दी कमाऊं रेजिमेंट

53	जे सी 51095	नायब सूबेदार	रूप सिंह	25 अगस्त 1972
54	जे सी 53321	नायब सूबेदार	उम्मेद सिंह	30 जून 1972

दी महार रेजिमेंट

55	जे सी 36127	नायब सूबेदार	बलबन्त सिंह	28 जून 1972
56	जे सी 44879	नायब सूबेदार	भोरा राम	5 जून 1972
57	जे सी 53008	नायब सूबेदार	सरवन सिंह	7 जुलाई 1972

दी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफलस

58	जे सी 45079	नायब सूबेदार	देस राज	8 नवम्बर 1972
59	जे सी 45843	नायब सूबेदार	पूरन सिंह	30 जून 1972

दी गोरखा राइफलस

60	जे सी 35917	नायब सूबेदार	भूपालबहादुर गुप्ता	18 नवम्बर 1972
----	-------------	--------------	-----------------------	----------------

ग्रामी सविस कोर (मेकैनिकल ट्रान्सपोर्ट)

61	जे सी 52984	नायब सूबेदार	राम परवेश मिसिर	26 जनवरी 1973
62	जे सी 45293	नायब सूबेदार	टी ए कृष्णन कुट्टी नायर	6 जनवरी 1973

ग्रामी मेडिकल कोर

63	जे सी 40367	नायब सूबेदार (एए)	कृष्ण सिंह	1 जनवरी 1973
64	जे सी 38467	नायब सूबेदार (एए)	राम समझ	6 सितम्बर 1972
65	जे सी 38454	नायब सूबेदार (एए)	टी एम कृष्णन नम्बियार	21 अगस्त 1972
66	जे सी 40368	नायब सूबेदार (एए)	उमा शंकर पाण्डे	1 जनवरी 1973

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल इंजीनियरस

67	जे सी 49121	नायब सूबेदार	सोहन सिंह	27 जून 1972
----	-------------	--------------	-----------	-------------

ग्रामी एजुकेशनल कोर

68	जे सी 36105	नायब सूबेदार	हरचन्द सिंह	19 अगस्त 1972
----	-------------	--------------	-------------	---------------

ग्रामी फिमिकल ट्रेनिंग कोर

69	जे सी 55176	नायब सूबेदार	चैन सिंह	16 नवम्बर 1972
----	-------------	--------------	----------	----------------

No. 3-E dated 24th Jan. 73.—The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned JCOs under Para 180 of Regulations for the Army (1962) with effect from the dates mentioned against each:—

To be Honorary Captains

7 CAVALRY

1.	JC 10017	Ris Maj & Hony Lt.	KARTAR SINGH	20th Oct. 1972
----	----------	-----------------------	--------------	----------------

1 HORSE

2.	JC 6257	Ris Maj & Hony Lt	SURAT SINGH	19th Oct. 1972
----	---------	----------------------	-------------	----------------

17 HORSE

3.	JC 10800	Ris Maj & Hony Lt	DALIP SINGH	21st Oct. 1972
----	----------	----------------------	-------------	----------------

9 HORSE

4.	JC 6569	Ris Maj & Hony. Lt	RAN SINGH	26th Nov. 1972
----	---------	-----------------------	-----------	----------------

3 CAVALRY

5.	JC 404	Ris Maj & Hony Lt	SAL SINGH	7th Jan. 1973
----	--------	----------------------	-----------	---------------

THE CENTRAL INDIA HORSE

6. JC 6570	Ris Maj & Hony Lt	LALL SINGH	12th Oct. 1972
------------	----------------------	------------	----------------

62 CAVALRY

7. JC 9257	Ris Maj & Hony Lt	SIRI CHAND	5th Nov. 1972
------------	----------------------	------------	---------------

20 LANCERS

8. JC 5395	Ris Maj & Hony Lt	BHANWAR SINGH	28th Oct. 1972
------------	----------------------	---------------	----------------

63 CAVALRY

9. JC 6562	Ris Maj & Hony Lt	DHUM SINGH	23rd Oct. 1972
------------	----------------------	------------	----------------

64 CAVALRY

10. JC 8220	Ris Maj & Hony Lt	BALAM SINGH	12th Sep. 1972
-------------	----------------------	-------------	----------------

68 ARMOURED REGIMENT

11. JC 7176	Ris Maj & Hony Lt	SAMDAR SINGH	1st Oct. 1972
-------------	----------------------	--------------	---------------

REGIMENT OF ARTILLERY

12. JC 5285	Sub Maj Clk & Hony Lt	V. K. VARADA RAJAN	5th Jul. 1972
13. JC 4485	Sub Maj Clk & Hony Lt	YASHKARAN SINGH RATHORE	14th Jan. 1973
14. JC 5218	Sub Maj & Hony Lt	GULABRAO SHINDE	13th Aug. 1972
15. JC 11434	Sub Maj & Hony Lt	HUSHARAM BHOR	15th Jan. 1973
16. JC 152	Sub Maj & Hony Lt	KM SANKARAN NAIR	20th May 1972
17. JC 6795	Sub Maj & Hony Lt	KARTAR SINGH	13th Jul. 1972
18. JC 7650	Sub Maj & Hony Lt	SADHU SINGH	22nd Sep. 1972
19. JC 24195	Sub & Hony Lt	BALIRAM DHUMAL	9th Jul. 1972
20. JC 17411	Sub & Hony Lt	BHUPINDER SINGH	2nd Nov. 1972
21. JC 24250	Sub & Hony Lt	MILKHI RAM	28th May 1972

MADRAS ENGINEER GROUP

22. JC 911	Sub Maj & Hony Lt	M ANDREWS	4th Jan. 1973
23. JC 890	Sub Maj & Hony Lt	SUBRAMANIAN	31st Dec. 1972

BENGAL ENGINEER GROUP

24. JC 5244	Sub Maj Clk (GD) & Hony Lt	CHUNI LAL SHARMA	1st Dec. 1972
-------------	----------------------------------	------------------	---------------

BENGAL ENGINEER GROUP—contd.

25. JC 11115	Sub Maj Clk (GD) & Honv Lt	VD JOSEPH	11th Jan. 1973
26. JC 6122	Sub Maj (GD) & Honv Lt	BHAJJAN SINGH	7th Oct. 1972
27. JC 720	Sub Maj (GD) & Honv Lt	JAGDISH SINGH	24th Jan. 1973
28. JC 6670	Sub Maj (GD) & Honv Lt	JOGINDER SINGH	21st Jan. 1973
29. JC 6126	Sub Maj (GD) & Honv Lt	PITAMBAR DATT	15th Dec. 1972

BOMBAY ENGINEER GROUP

30. JC 5349	Sub Maj Clk & Honv Lt	MPC PILLAI	4th Dec. 1972
31. JC 7049	Sub Maj & Honv Lt	ARJUN KADAM	12th Dec. 1972
32. JC 5746	Sub Maj & Honv Lt	GANPAT UTTEKAR	20th Jan. 1973
33. JC 5791	Sub Maj & Honv Lt	JOGINDAR SINGH	14th Jan. 1973
34. JC 839	Sub Maj & Honv Lt	KHUSHALI DESAI	13th Jan. 1973
35. JC 5752	Sub Maj & Honv Lt	KRISHNA SABALE	1st Sep. 1972
36. JC 6311	Sub Maj & Honv Lt	SANTOKH SINGH	5th Jan. 1973

CORPS OF SIGNALS

37. JC 1020	Sub Maj & Honv. Lt	BUR SINGH	21st Jan. 1973
38. JC 4503	Sub Maj & Honv Lt	KHIALI RAM	25th Mar. 1972
39. JC 1105	Sub Maj & Honv Lt	MO EAPEN	23rd Sep. 1972
40. 53160 JC	Sub & Honv Lt	ULFILAS HENRY SHAH	28th Nov. 1972

BRIGADE OF THE GUARDS

41. JC 7615	Sub Maj & Honv Lt	JAGAT SINGH	3rd Jul. 1972
42. JC 353	Sub Maj & Honv Lt	KESHAB DATT	13th Jan. 1973
43. JC 8154	Sub Maj & Honv Lt	SURAT SINGH	13th Jan. 1973
44. JC 31373	Sub & Honv Lt	JAI BAHADUR GURUNG	4th Oct. 1972
45. JC 20728	Sub & Honv. Lt	PAT RAM	2nd Nov. 1972

THE PARACHUTE REGIMENT

46. JC 9487	Sub Maj Clk & Honv Lt	DHARAM SINGH	9th Oct. 1972
47. JC 11357	Sub Maj & Honv Lt	GUGAN SINGH	17th Aug. 1972
48. JC 10388	Sub Maj & Honv. Lt	RAM JAS	20th Nov. 1972
49. JC 30923	Sub & Honv. Lt	PANDIT PATIL	18th Sep. 1972

THE PARACHUTE REGIMENT—*contd.*

50.	JC 33530	Sub & Hony Lt	SIRI RAM	22nd Dec. 1972
-----	----------	------------------	----------	----------------

THE MADRAS REGIMENT

51.	JC 17074	Sub & Hony Lt	GOPINATHAN NAIR	13th Oct. 1972
52	JC 24803	Sub & Hony Lt	RAJAN	18th Aug. 1972

THE GRENADIERS

53.	JC 6352	Sub Maj & Hony Lt	RAWAT SINGH	4th Dec. 1972
54	JC 12826	Sub & Hony Lt	LAKHU BHA	25th Oct. 1972

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

55.	JC 11180	Sub Maj & Hony Lt	DATTU BHASAR	17th Jan. 1973
56.	JC 8671	Sub Maj & Hony Lt	DYANU CHAUGULE	18th Dec. 1972
57.	JC 12265	Sub Maj & Hony Lt	PARBATI MAHADIK	2nd Sep. 1972
58.	JC 24742	Sub & Hony Lt	DHONDIRAM PATANKAR	23rd Jan. 1973
59.	JC 32908	Sub & Hony. Lt	MAHADEO BARGE	7th Nov. 1972

THE RAJPUTANA RIFLES

60	JC 6866	Sub Maj & Hony Lt	RAMPAT RAM	11th Sep. 1972
----	---------	----------------------	------------	----------------

THE RAJPUT REGIMENT

61	JC 19086	Sub & Hony Lt	BALLU	16th Dec. 1972
62	JC 10728	Sub & Hony Lt	JAGDAMBA PRASAD SINGH	24th Jan. 1973

THE JAT REGIMENT

63	JC 6024	Sub Maj & Hony Lt	CHANDGI	1st Jan. 1973
64	JC 31913	Sub & Hony Lt	LAL CHAND	7th Dec. 1972

THE SIKH REGIMENT

65	JC 9020	Sub Maj & Hony Lt	GOPAL SINGH	11th Dec. 1972
66	JC 6410	Sub Maj & Hony Lt	GURBAX SINGH	28th Nov. 1972
67	JC 7116	Sub Maj & Hony Lt	HARPHUL SINGH	17th Aug. 1972
68	JC 24817	Sub & Hony. Lt	ASSA SINGH	27th Dec. 1972
69	JC 23535	Sub & Hony. Lt	CHANAN SINGH	2nd Nov. 1972
70	JC 14290	Sub & Hony. Lt	DALIP SINGH	10th Sep 1972
71	JC 27845	Sub & Hony. Lt	LABH SINGH	24th Nov. 1972

THE SIKH LIGHT INFANTRY

72	JC 4990	Sub Maj & Hony Lt	DALIP SINGH	10th Dec 1972
73	JC 2115	Sub Maj & Hony Lt	HARNAM SINGH	29th Oct 1972
74	JC 8677	Sub Maj & Hony Lt	RATTAN SINGH	7th Nov 1972
75	JC 25315	Sub & Hony Lt	CHARAN SINGH	23rd Aug 1972
76	JC 28987	Sub & Hony Lt	LACHHMAN SINGH	17th Nov 1972
77	JC 6889	Sub & Hony Lt	RATTAN SINGH	19th Jan 1973
78	JC 7128	Sub & Hony Lt	SOHAN SINGH	4th Jan 1973

THE DOGRA REGIMENT

79	JC 4662	Sub Maj & Hony Lt	JAGDISH RAM	27th Sep 1972
80	JC 9581	Sub & Hony Lt	BALDEV SINGH	30th Jun 1972
81	JC 13108	Sub & Hony Lt	PITAMPAR DATT	30th Jun 1972
82	JC 20425	Sub & Hony Lt	RUP LAL	9th Dec 1972

THE GARHWAL RIFLES

83	JC 32232	Sub & Hony Lt	GABAR SINGH RAWAT	15th Jan 1973
----	----------	------------------	-------------------	---------------

THE KUMAON REGIMENT

84	JC 6454	Sub Maj & Hony Lt	PHIM BAHADUR	2nd Sep 1972
85	JC 6735	Sub Maj & Hony Lt	MADHO SINGH	1st Dec 1972
86	JC 17980	Sub & Hony Lt	PHAWAN SINGH	21st Sep 1972
87	JC 16373	Sub & Hony Lt	BIR SINGH	8th Sep 1972
88	JC 30533	Sub & Hony Lt	BUDH RAM	6th Oct 1972
89	JC 18198	Sub & Hony Lt	GANGA SINGH	21st Nov 1972
90	JC 20843	Sub & Hony Lt	RUDDAR SINGH	27th Oct 1972

THE ASSAM REGIMENT

91	JC 6035	Sub Maj & Hony Lt	ASUI / HONGRAI TANGKHUL	17th Nov 1972
----	---------	----------------------	----------------------------	---------------

THE MAHAR REGIMENT

92	JC 7513	Sub Maj & Hony Lt	PAL RAM	26th Dec 1972
----	---------	----------------------	---------	---------------

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

93	JC 25163	Sub Clk & Hony Lt	SURAM SINGH	16th Jan 1973
94	JC 24059	Sub & Hony Lt	WARYAM SINGH, VtC	2nd Nov 1972

1ST GORKHA RIFLES

95	JC 5724	Sub Maj Clk & Hony Lt	JAGDISH CHANDRA SHARMA	21st Oct 1972
96	JC 7146	Sub Maj & Hony Lt	GÉN BAIADUR GURUNG	19th Oct 1972
97	JC 36217	Sub & Hony Lt	DURGA BAHADUR GURUNG	25th Nov 1972
98	JC 25591	Sub & Hony Lt	DURGA BAHADUR THAPA	21st Dec 1972

3 GORKHA RIFLES

99	JC 15539	Sub Maj Clk (GD) & Hony Lt	BIHARI LAL	2nd Nov 1972
----	----------	----------------------------------	------------	--------------

4 GORKHA RIFLES

100	JC 12361	Sub Maj & Hony Lt	AS BAHADUR GURUNG	10th Nov 1972
101	JC 10515	Sub Maj & Hony Lt	SANT BAHADUR GURUNG	10th Dec 1972
102	JC 15363	Sub & Hony Lt	BUDHI MAN GURUNG	10th Oct 1972
103	JC 36215	Sub & Hony Lt	GANGE GURUNG	15th Dec 1972
104	JC 23881	Sub & Hony Lt	HIMAN SING GURUNG	5th Dec 1972
105	JC 13764	Sub & Hony Lt	KISHAN SINGH GURUNG	15th Nov 1972
106	JC 24880	Sub & Hony Lt	REKH BAHADUR GURUNG	9th Dec 1972

5 GORKHA RIFLES

107	JC 19521	Sub & Hony Lt	BILAWANSING THAPA	1st Dec 1972
108	JC 33015	Sub & Hony Lt	CHANDRABAHADUR THAPA	1st Dec 1972
109	JC 36876	Sub & Hony Lt	GOPAL GURUNG	20th Jan 1973
110	JC 35153	Sub & Hony Lt	JITBAHADUR GURUNG	10th Oct 1972
111	JC 36879	Sub & Hony Lt	KULBAHADUR ALE	8th Dec 1972
112	JC 37813	Sub & Hony Lt	LALPARSAD GURUNG	14th Oct 1972

8 GORKHA RIFLES

113	JC 13273	Sub Maj Clk & Hony Lt	VINAYAK JOGDEO	16th Dec 1972
114	JC 12465	Sub Maj & Hony Lt	KAMANSING GURUNG	29th Oct 1972
115	JC 6494	Sub Maj & Hony Lt	LALBAHADUR ALE	12th Nov 1972
116	JC 16555	Sub Maj & Hony Lt	TEKBAHADUR PUN	11th Nov 1972
117	JC 31506	Sub & Hony Lt	LALBAHADUR THAPA, SC	15th Dec 1972
118	JC 29692	Sub & Hony Lt	NAULSING RANA	11th Dec 1972
119	JC 19960	Sub & Hony Lt	UDBAHADUR THAPA	6th Oct 1972

9 GORKHA RIFLES

120	JC 13784	Sub Maj Cik (GD) & Hony Lt	GANESH SING KILANDKA	2nd Nov 1972
121	JC 6750	Sub Maj & Hony Lt	JIT BAHADUR KILATTRI	27th Nov 1972
122	JC 36567	Sub & Hony Lt	LACHHMAN KARKI	9th Dec 1972
123	JC 15730	Sub & Hony Lt	MAN BAHADUR ADHIKARI	17th Oct 1972

11 GORKHA RIFLES

124	JC 5822	Sub Maj Cik (GD) & Hony Lt	ANANTARAM SHARMA	14th Nov 1972
125	JC 6507	Sub Maj & Hony Lt	MANBAHADUR NEWAR	24th Aug 1972

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

126	JC 2931	Sub Maj Cik (GD) & Hony Lt	AS BALRAM	24th Jan 1973
127	37231-JC	Sub Maj Cik (GD) & Hony Lt	KULDIP SINGH SURI	25th Dec 1972
128	37224-JC	Sub Maj Cik (GD) & Hony Lt	MANOHAR LAL SABHER- WAL	12th Sep 1972
129	37251-JC	Sub Maj Cik (GD) & Hony Lt	MULK RAJ ANAND	3rd Jan 1973
130	37279-JC	Sub Maj Cik (GD) & Hony Lt	PREM PARKASH DUDEJA	8th Dec 1972
131	37519-JC	Sub Maj (Catering) & Hony Lt	D VARUN NATH SAHNI	24th Oct 197

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

132	JC 3100	Ris Maj & Hony Lt	MADHUKAR PHADKE	15th Dec 1972
133	JC 7296	Ris Maj & Hony Lt	MAHAKAR SINGH MALIK	1st Jan 1973

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

134	JC 7346	Sub Maj & Hony Lt	APPA PATIL	2nd Oct 1972
135	JC 7343	Sub Maj & Hony Lt	BAJI RAO SHEDGE	21st Sep 1972
136	JC 6230	Sub Maj & Hony Lt	DIWAN CHAND	4th Oct 1972
137	JC 7853	Sub Maj & Hony Lt	GOWARDHAN LAL BAKSHI	2nd Sep 1972
138	JC 8778	Sub Maj & Hony Lt	HAR LAL	25th Nov 1972
139	JC 5988	Sub Maj & Hony Lt	IJADU REHMAN KHAN	20th Sep 1972
140	JC 4661	Sub Maj & Hony Lt	MOHINDER SINGH	8th Oct 1972
141	JC 6236	Sub Maj & Hony Lt	RAM DULARE	15th Oct 1972
142	JC 7323	Sub Maj & Hony Lt	SHANTI SARUP	21st Sep 1972
143	JC 8382	Sub Maj & Hony Lt	SHYAM DATT	1st Sep 1972
144	JC 7322	Sub Maj & Hony Lt	SUBEDAR	7th Sep 1972
145	JC 4667	Sub Maj & Hony Lt	SUKHDEO SHARMA	28th Aug 1972

ARMY MEDICAL CORPS

146	JC 3223	Sub Maj Clk (GD) & Hony Lt	SUKUMAR DAS	31st Dec 1972
147	JC 41417	Sub Maj (NA) & Hony Lt	S. GOVINDA RAJU	11th Jan 1973
148	JC 8230	Sub (RAD) & Hony Lt	SK VELU	27th Aug 1972
149	JC 9284	Sub (SA) & Hony Lt	MICHAEL CHINNAYA MICHAEL	17th Oct 1972
150	JC 15316	Sub (SA) & Hony Lt	V PAULIAH	14th Sep 1972

ARMY ORDNANCE CORPS

151	53192 JC	Sub & Hony Lt	LACHHMAN SINGH	19th Dec 1972
152	52022 JC	Sub & Hony Lt	THAKURI RAM BISHNOI	5th Oct 1972

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

153	61052 JC	Sub Maj & Hony Lt	AWTAR SINGH	20th Nov 1972
154	JC 3465	Sub Maj & Hony Lt	DALIP SINGH	12th Dec 1972
155	JC 3447	Sub Maj & Hony Lt	HANS RAM	1st Sep 1972
156	JC 4564	Sub Maj & Hony Lt	KESHO	1st Sep 1972
157	60317 JC	Sub Maj & Hony Lt	PARTAP SINGH	27th Sep 1972
158	54138 JC	Sub Maj & Hony Lt	SHIAM DATT TRIPATHI	24th Dec 1972

ARMY EDUCATIONAL CORPS

159	57990 JC	Sub Maj & Hony Lt	SARDARI LAL SHAFMA	9th Nov 1972
160	53171 JC	Sub & Hony Lt	KANDARP NARAIN PANDE	28th Nov 1972
161	JC 15959	Sub & Hony Lt	PIARA SINGH	18th Jan 1973

THE INTELLIGENCE CORPS

162	JC 18524	Sub & Hony Lt	RANDHIR SINGH	20th Dec 1972
-----	----------	---------------	---------------	---------------

THE CORPS OF MILITARY POLICE

163	JC 13414	Sub Maj Clk (GD) & Hony Lt	BACHAN SINGH	8th Nov 1972
164	JC 7273	Sub Maj (MP) & Hony Lt	BAKHSI RAM	9th Nov 1972
165	JC 4950	Sub Maj (MI) & Hony Lt	KITTAN BAVA	25th Sep 1972

THE PIONEER CORPS

166	JC 16602	Sub (GD) & Hony Lt	HUKAM CHAND	14th Oct 1972
-----	----------	--------------------	-------------	---------------

THE RECRUITING ORGANISATION

167	JC 9575	Sub Maj & Hony Lt	BHUPATINATH BHATTACHARYA	1st Jan 1973
-----	---------	-------------------	--------------------------	--------------

To be Honorary Lieutenants

REGIMENT OF ARTILLERY

1	JC 6105	Sub Maj	MOHAR SINGH	1st Aug 1972
---	---------	---------	-------------	--------------

THE GRENADIERS

2	JC 10804	Sub Maj	MOHD ZAINUL ABEDIN	11th Aug 1972
---	----------	---------	--------------------	---------------

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

3	JC 7091	Sub Maj	KESHAV SIVALE	19th Aug 1972
---	---------	---------	---------------	---------------

THE SIKH LIGHT INFANTRY

4	JC 10413	Sub Maj	MADHA SINGH	12th Nov 1972
---	----------	---------	-------------	---------------

ARMY ORDNANCE CORPS

5	35714 JC	Sub Maj	VINDHYA CHAL RAI SHARMA	18th Nov 1972
---	----------	---------	----------------------------	---------------

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

6	JC 23758	Sub Maj	BISHAN SINGH	10th Dec 1972
7	51061 JC	Sub Maj	DES RAJ SHARMA	17th Dec 1972

To be Honorary Risaldar Majors/ Subedar Majors

16 CAVALRY

1	JC 15055	Ris	MJ GEORGE	2nd Nov 1972
---	----------	-----	-----------	--------------

7 CAVALRY

2	JC 15792	Ris	RAM CHANDER	1st Dec 1972
---	----------	-----	-------------	--------------

2 LANCERS

3	JC 16047	Ris	GHISA SINGH	8th Jul 1972
---	----------	-----	-------------	--------------

9 HORSE

4	JC 24611	Ris	MOHINDER SINGH	12th Jul 1972
---	----------	-----	----------------	---------------

18 CAVALRY

5	JC 17190	Ris	SARDAR SINGH	24th Dec 1972
---	----------	-----	--------------	---------------

63 CAVALRY

6	JC 10369	Ris	JAGRUP SINGH	28th Aug 1972
---	----------	-----	--------------	---------------

REGIMENT OF ARTILLERY

7	JC 25687	Sub Clk (GD)	BALAKRISHNA NAIR	1st Jul 1972
8	JC 25667	Sub Clk (GD)	KP PAUL	1st Jul 1972
9	JC 25692	Sub Clk (GD)	PINDI DASS	1st Jul 1972
10	JC 25690	Sub Clk	DILBAGH SINGH	9th Oct 1972
11	JC 30208	Sub Clk	GURCHARN SINGH	30th Jun 1972
12	JC 25695	Sub Clk	HET LAL YADAV	23rd Oct 1972
13	JC 25866	Sub	ANUP SINGH	3rd Nov 1972
14	JC 30318	Sub	BASHESHA NATH	12th Aug 1972
15	JC 12969	Sub	HENRY PAUL	1st Jul 1972
16	JC 30319	Sub	JOGINDER NATH	15th Aug 1972
17	JC 25869	Sub	S APPA RAO	28th Jun 1972
18	JC 8085	Sub	SARJIT SINGH	1st Jul 1972
19	JC 30174	Sub	UMRAO SINGH	1st Jul 1972

MADRAS ENGINEER GROUP

20	JC 19643	Sub	ARUMUGAM	1st Jan 1973
21	JC 10424	Sub	GANGATHARAM	4th Jan 1973
22	JC 19377	Sub	KRALETI SRIRAMA MURTHY	14th Nov 1972
23	JC 18586	Sub	R PERUMAL	1st Jan 1973
24	JC 38287	Sub	S HENRY	24th Oct 1972
25	JC 19681	Sub	SAMIDASS	1st Jan 1973
26	JC 19973	Sub	VT ABRAHAM	25th Sep 1972

BOMBAY ENGINEER GROUP

27	JC 14737	Sub Clk(GD)	BABA SAHEB NALAODE	6th Sep 1972
28	JC 13922	Sub Clk(GD)	YESHWANT BHOSLE	7th Dec 1972
29	JC 24598	Sub	BHAGWAN SAWANT	22nd Sep 1972
30	JC 31233	Sub	KARAM SINGH	16th Sep 1972
31	JC 13699	Sub	NAIDFO WAGH	22nd Sep 1972

CORPS OF SIGNALS

32	JC 16639	Sub	A GOVINDAN NAIR	18th Jun 1972
33	JC 30285	Sub	AMAR SINGH	21st Dec 1972
34	JC 29446	Sub	C MOHAMED	26th Aug 1972
35	JC 18141	Sub	DV FERNANDEZ	8th Jun 1972
36	JC 20093	Sub	ILARI SINGH	11th Aug 1972
37	JC 29346	Sub	INDAR JIT	1st Jul 1972
38	JC 20095	Sub	JAGAT SINGH	1st Jul 1972
39	JC 18124	Sub	JOHN	23rd Dec 1972
40	JC 20105	Sub	LAWRENCE LOBO	1st Jul 1972
41	JC 18123	Sub	MOHAN LALL SHARMA	12th Dec 1972
42	JC 16641	Sub	MUNSHI RAM	24th Aug 1972
43	JC 22401	Sub	RAM SINGH	28th Jun 1972
44	JC 15583	Sub	RAWAL SINGH	1st Jul 1972

BRIGADE OF THE GUARDS

45	JC 36012	Sub	ANAND SING RAWAT	29th Dec 1972
46	JC 36510	Sub	BHENWAR SINGH	25th Nov 1972
47	JC 22101	Sub	BINDESHWARI SINGH	1st Jul 1972
48	JC 33554	Sub	KHIALI RAM	15th Sep 1972

THE PARACHUTE REGIMENT

49	JC 30783	Sub	BALIRAM SURVE	17th Dec 1972
50	JC 25511	Sub	CHANDGI	7th Jan 1973

THE PUNJAB REGIMENT

51	JC 21998	Sub Clk	JANGIR SINGH	21st Sep 1972
52	JC 28645	Sub	HARNEK SINGH	28th Sep 1972
53	JC 30436	Sub	NAURANG SINGH	6th Dec 1972
54	JC 23825	Sub	THAKUR SINGH	12th Dec 1972

THE MADRAS REGIMENT

55	JC 24808	Sub Clk	AP JOSEPH	21st Nov 1972
56	JC 32141	Sub	PARAMESAWARAN NAIR	22nd Jan 1973

THE GRENADIERS

57	JC 11353	Sub	KARAN SINGH	1st Jan 1973
58	JC 19267	Sub	LACHHMAN SINGH	1st Oct 1972
59	JC 30360	Sub	KRISHNA SINGH	5th Oct 1972

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

60	JC 34412	Sub Clk(GD)	KRISHNA SHIVA NAIK	9th Dec 1972
61	JC 19996	Sub Clk(GD)	PS VENKATRAMAN	11th Dec 1972
62	JC 24375	Sub Clk(GD)	SHANKAR POWAR	22nd Sep 1972
63	JC 13302	Sub	ABDUL SAMAD KHAN	6th Dec 1972
64	JC 30390	Sub	NARAYAN SHINDE	31st Dec 1972
65	JC 33771	Sub	SARJERAO BARGE	7th Nov 1972
66	JC 13692	Sub	SHANKAR BHOSLE	10th Oct 1972

THE JAT REGIMENT

67	JC 49964	Sub Clk (GD)	RATTI RAM	30th Jun 1972
68	JC 20855	Sub	RANJIT SINGH	15th Nov 1972
69	JC 27189	Sub	SIRI RAM	6th Nov 1972

THE SIKH REGIMENT

70	JC 36164	Sub	BHAN SINGH	4th Jan 1973
----	----------	-----	------------	--------------

THE SIKH LIGHT INFANTRY

71	JC 24813	Sub	RANT SINGH	11th Jan 1973
----	----------	-----	------------	---------------

THE DOGRA REGIMENT

72	JC 39814	Sub Clk	KARAM SINGH	21st Aug 1972
73	JC 21805	Sub	JANAK SINGH	24th Aug 1972
74	JC 28533	Sub	KEHAR SINGH	23rd Jan 1973
75	JC 33203	Sub	PARSNOTAM DAS	18th Dec 1972
76	JC 20256	Sub	SUBHIA RAM	13th Jan 1973
77	JC 27445	Sub	TARA CHAND	30th Jun 1972

THE KUMAON REGIMENT

78	JC 32597	Sub	MAN SINGH	12th Dec 1972
----	----------	-----	-----------	---------------

THE ASSAM REGIMENT

79	JC 24154	Sub	GONESH LOTHIA	4th Sep 1972
80	JC 24164	Sub	JALUAIA	9th Nov 1972

THE BIHAR REGIMENT

81	JC 34122	Sub Clk (GD)	RAM LOCHAN SINGH	2nd Dec 1972
82	JC 23567	Sub Clk	BICHITTAR SINGH	10th Jan 1973
			HARCHAND	
83	JC 23568	Sub Clk	HIRENDRA KUMAR	15th Dec 1972
			PURAKAYASTHA	

THE MAHAR REGIMENT

84	JC 22904	Sub	BAKSHISH SINGH	27th Nov 1972
85	JC 28333	Sub	GANPAT JADHAV	2nd Jan 1973
86	JC 28071	Sub	NARAIN SINGH	25th Aug 1972

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

87	JC 27546	Sub	JAGAN NATH	13th Dec 1972
----	----------	-----	------------	---------------

3 GORKHA RIFLES

88	JC 18469	Sub	KHAKU PUN	6th Oct 1972
89	JC 36710	Sub	NAR BAHADUR ALE	11th Oct 1972
90	JC 16805	Sub	RAM SING THAPA	29th Dec 1972

4 GORKHA RIFLES

91	JC 33162	Sub	LIL BAHADUR THAPA	7th Oct 1972
----	----------	-----	-------------------	--------------

5 GORKHA RIFLES

92	JC 35152	Sub	CHIANDRABIR RANA	7th Apr 1972
93	JC 34014	Sub	EKPARSAD GURUNG	1st Dec 1972
94	JC 28946	Sub	HARIPARSAD RANA	9th Oct 1972
95	JC 37812	Sub	JASBAHADUR GURUNG	15th Dec 1972
96	JC 35150	Sub	NANDAPARSAD THAPA	1st Oct 1972

8 GORKHA RIFLES

97	JC 33793	Sub	GAGANSING GURUNG	26th Oct 1972
98	JC 28918	Sub	KABIRAJ GURUNG	12th Jan 1973

9 GORKHA RIFLES

99	JC	33246	Sub	LAL BAHADUR BHAN-J DARI	12th Oct 1972
100	JC	35351	Sub	RATNA BAHADUR MALL	12th Oct 1972
101	JC	33245	Sub	SAMAR BAHADUR KARKI	4th Oct 1972

11 GORKHA RIFLES

102	JC	32589	Sub	DAMBERSING RAI	23rd Jan 1973
103	JC	27427	Sub	KABIRAJ RAI	4th Nov 1972

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

104	JC	46247	Sub Clk GD (SD)	ABANI KANTA DASS CHOUDHURY	3rd Nov 1972
105	JC	37334	Sub Clk GD (SD)	SOHAN SINGH	5th Nov 1972
106	JC	41988	Sub (PA)	AMRIK SINGH	23rd Nov 1972

ARMY MEDICAL CORPS

107	JC	50223	Sub Clk (GD)	KG GOPALA KRISHNA NAIR	15th Jun 1972
108	JC	22707	Sub (AA)	NARASHMHA	12th Jun 1972
109	JC	32857	Sub (Disp)	RAJGIRI UPADIIYA	30th Sep 1972
110	JC	32860	Sub (Disp)	RATAN CHAND	15th Jan 1973
111	JC	9000	Sub (Lab. Tech)	MULIAPUDI BHEMEE- WARA RAO	30th Dec 1972
112	JC	26549	Sub (NA)	AJIT SINGH	3rd Nov 1972
113	JC	26543	Sub (NA)	T AYYAPPAN	27th Aug 1972
114	JC	35733	Sub (SKT)	BALDEV RAJ	2nd Nov 1972
115	JC	38519	Sub (SKT)	KISHAN SINGH	8th Dec 1972
116	JC	35726	Sub (SKT)	MAN SINGH	18th Sep 1972

ARMY ORDNANCE CORPS

117	JC	22769	Sub	B MAYANNA	9th Jan 1973
118	JC	30823	Sub	DALJIT SINGH	14th Dec 1972
119	JC	30775	Sub	KM RAMACHANDRA REDDY	27th Oct 1972
120	JC	36474	Sub	KARTAR SINGH	15th Nov 1972
121	JC	14553	Sub	RAJINDAR SINGH	16th Nov 1972
122	JC	14571	Sub	REBATI RANJAN DAS GUPTA	21st Nov 1972
123	54540/JC		Sub	TARANI KUMAR GHOSE	19th Dec 1972
124	JC	31095	Sub	UMAID SINGH	28th Dec 1972

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

125	JC	17778	Sub	WILSON SRINIVASAN	2nd May 1972
-----	----	-------	-----	-------------------	--------------

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

126	RV	7117	Ris(DSR)	JIA LAL	13th Jan 1973
-----	----	------	----------	---------	---------------

ARMY EDUCATIONAL CORPS

127	JC	18262	Sub	NIRANJAN SINGH	5th Dec 1972
-----	----	-------	-----	----------------	--------------

CORPS OF MILITARY POLICE

128	JC	23082	Sub Clk (GD)	SAMPURAN SINGH	3rd Nov 1972
-----	----	-------	-----------------	----------------	--------------

THE PIONEER CORPS

129	JC	44983	Sub Clk (GD)	GOURI KANTA MONDAL	22nd Sep 1972
130	JC	23619	Sub Clk (GD)	MANDRANJAN DUTTA	12th Jun 1972
131	JC	15206	Sub (GD)	SOBAN SINGH	30th Jun 1972

THE RECRUITING ORGANISATION

132 24752 JC Sub RUP CHAND 8th May 1972

To be Honorary Risaldars/Subedars

17 HORSE
1 JC 46335 Nb Ris RACHHPAUL SINGH 17th Jun 1972

REGIMENT OF ARTILLERY

2 JC 49924	Nb Sub	B APPA RAO	15th Aug 1972
3 JC 45545	Nb Sub	HARBHAJAN SINGH	1st July 1972
4 JC 47885	Nb Sub	MOHINDER SINGH	28th Jun 1972
5 JC 47893	Nb Sub	RAGHUNATH DASS	24th Jun 1972
6 JC 47898	Nb Sub	RAJPAL SINGH	17th Jul 1972
7 JC 45451	Nb Sub	THAKAR SINGH	24th Jun 1972

MADRAS ENGINEER GROUP

8 JC 39230	Nb Sub	K GOVINDAN KUTTY NAIR	27th Dec 1972
9 JC 41279	Nb Sub	K KRISHNANKUTTY NAIR	22nd Dec 1972
10 JC 18595	Nb Sub	M GANGADARAM	2nd Dec 1972
11 JC 41292	Nb Sub	M RADHAKRISHNAN	30th Dec 1972
12 JC 41261	Nb Sub	MICHAEL JOEBOY	1st Nov 1972
13 JC 41281	Nb Sub	MUTHUSAMY	2nd Dec 1972
14 JC 47075	Nb Sub	PP BOPAIYA	4th Oct 1972
15 JC 43679	Nb Sub	RAYAPPAN	4th Oct 1972
16 JC 41756	Nb Sub	S RAMANUJAM	9th Dec 1972

BOMBAY ENGINEER GROUP

17 JC 41395	Nb Sub Ck (GD)	KV GOVINDASWAMY	17th Oct 1972
18 JC 43859	Nb Sub	BALU MISAL	30th Aug 1972
19 JC 43568	Nb Sub	GURDEO SINGH	30th Dec 1972

CORPS OF SIGNALS

20 JC 34846	Nb Sub	DUNICHAND	23rd Jun 1972
21 JC 48859	Nb Sub	HARMINDER SINGH	30th Aug 1972
22 JC 52130	Nb Sub	IQBAL SINGH	18th Jul 1972
23 JC 49704	Nb Sub	JAGIR SINGH	9th Jul 1972
24 JC 52058	Nb Sub	JAGIR SINGH	17th Jan 1973
25 JC 44419	Nb Sub	JAGJIT SINGH	3rd Jun 1972
26 JC 52765	Nb Sub	JAID RATH	8th Dec 1972
27 JC 36801	Nb Sub	K ADINARAYANA RAO	15th Aug 1972
28 JC 32514	Nb Sub	K BALA NAIR	3rd Jun 1972
29 JC 52828	Nb Sub	KASTURI LAL	7th Jun 1972
30 JC 34837	Nb Sub	KUNDAN LAL	19th Jun 1972
31 JC 52123	Nb Sub	LACHHMAN SINGH	18th Jun 1972
32 JC 53216	Nb Sub	M KUNHI KANNAN NAMBIAR	4th Oct 1972
33 JC 42791	Nb Sub	MADHAVAN O	1st Jul 1972
34 JC 42811	Nb Sub	MOHAN SINGH	10th Aug 1972
35 JC 52133	Nb Sub	NIRMAL SINGH	1st Jul 1972
36 JC 52126	Nb Sub	P NARAYANAN KUTTY	8th Sep 1972
37 JC 34961	Nb Sub	RATTAN CHAND	27th Oct 1972
38 JC 42805	Nb Sub	SARMUKH SINGH	22nd Sep 1972
39 JC 52832	Nb Sub	SARUP SINGH	20th Dec 1972
40 JC 44407	Nb Sub	SURAM SINGH	3rd Jul 1972
41 JC 34858	Nb Sub	TILAK SINGH	3rd Jun 1972
42 JC 42091	Nb Sub	VED RATTAN	18th Jun 1972

THE PUNJAB REGIMENT

43 JC 49045 Nb Sub JOGINDAR SINGH 16th Jul 1972

THE GRENADIERS

44 JC 48960	Nb Sub	NEK RAM	30th Jun 1972
45 JC 41916	Nb Sub	RAGBIR SINGH	10th Sep 1972

THE JAT REGIMENT

46	JC	35933	Nb Sub	PAHLAD SINGH	11th Sep 1972
47	JC	50323	Nb Sub	PARBHU DAYAL	22nd Oct 1972
48	JC	49504	Nb Sub	RAM BHAJ	28th Sep 1972

THE SIKH REGIMENT

49	JC	40705	Nb Sub	HARI SINGH	31st Jul 1972
50	JC	52483	Nb Sub	JARNAIL SINGH	1st Oct 1972

THE DOGRA REGIMENT

51	JC	39146	Nb Sub	NASIB SINGH	7th Aug 1972
52	JC	46733	Nb Sub	RIKHI RAM	25th Jan 1973

THE KUMAON REGIMENT

53	JC	51095	Nb Sub	RUP SINGH	25th Aug 1972
54	JC	53321	Nb Sub	UMED SINGH	30th Jun 1972

THE MAHAR REGIMENT

55	JC	36127	Nb Sub	BALWANT SINGH	28th Jun 1972
56	JC	44879	Nb Sub	BHORA RAM	5th Jun 1972
57	JC	53008	Nb Sub	SARWAN SINGH	7th Jul 1972

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

58	JC	45079	Nb Sub	DES RAJ	8th Nov 1972
59	JC	45843	Nb Sub	PURAN SINGH	30th Jun 1972

8 GORKHA RIFLES

60	JC	35917	Nb Sub	BHUPALBAHADUR GURUNG	18th Nov 1972
----	----	-------	--------	----------------------	---------------

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

61	JC	52984	Nb Sub	RAM PRAVESH MISIR	26th Jan 1973
62	JC	45293	Nb Sub	TA KRISHNAN KUTTY NAIR	6th Jan 1973

ARMY MEDICAL CORPS

63	JC	40367	Nb Sub(AA)	KRISHAN SINGH	1st Jan 1973
64	JC	38467	Nb Sub(AA)	RAM SAMAJH	6th Sep 1972
65	JC	38454	Nb Sub(AA)	TM KRISHNAN NAMBIAR	21st Aug 1972
66	JC	40368	Nb Sub(AA)	UMA SHANKER PAN-DEY	1st Jan 1973

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

67	JC	49121	Nb Sub	SOHAN SINGH	27th Jun 1972
----	----	-------	--------	-------------	---------------

ARMY EDUCATIONAL CORPS

68	JC	36105	Nb Sub	HARCHAND SINGH	19th Aug 1972
----	----	-------	--------	----------------	---------------

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

69	JC	55176	Nb Sub	CHAIN SINGH	16th Nov 1972
----	----	-------	--------	-------------	---------------

सं० 6-ई तारीख 24 जनवरी 73.—राष्ट्रपति निम्नलिखित जे सी ओ जो कि डिफेंस स्त्रियोरिटी कोर के हैं 26 जनवरी 1973 मे सेना विदियामावली 1962 पैरा 180 के आधीन आर्थेनिक कमीशन प्रदान करने हैं :—

अर्थेनिक कमीशन के रैंक में

1 50313 जे सी: सुबेदार मेजर व जे सी: 23 दिसम्बर 1972
आनरेरी नेपियन्ट कमीशन

2	60675 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लेफ्टिनेंट	कामर चंद कटोच	1 दिसम्बर 1972
3	59019 जे सी	सूबेदार मेजर व आनरेरी लेफ्टिनेंट	सूरन सिंह	2 दिसम्बर 1972

अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रैंक में

1	58222 जे सी	सूबेदार मेजर	भरत सिंह	29 अगस्त 1972
---	-------------	--------------	----------	---------------

अवैतनिक सूबेदार मेजर के रैंक में

1	जे सी 4180	सूबेदार	रोशन लाल	18 अक्टूबर 1972
---	------------	---------	----------	-----------------

No. 6-E, dated 24th Jan. 73.—The President is pleased to grant honorary ranks on retirement to the undermentioned JCOs belonging to the Defence Security Corps under Para 180 of the Regulations for the Army (1962) with effect from the dates shown against them :—

To be Honorary Captains

1	50343 JC	Sub Maj & Hony Lt	JANAK SINGH KATOCH	23rd Dec 1972
2	60675 JC	Sub Maj & Hony Lt	KAMER CHAND KATOCH	1st Dec 1972
3	59019 JC	Sub Maj & Hony Lt	SURAT SINGH	2nd Dec 1972

To be Honorary Lieutenants

1	58222 JC	Sub Maj	BHARAT SINGH	29th Aug 1972
---	----------	---------	--------------	---------------

To be Honorary Subedar Major,

1	JC 4180	Subedar	ROSHAN LAL	18th Oct 1972
---	---------	---------	------------	---------------

सं० 7-ई तारीख 24 जनवरी 73.—को भारत स्थित प्रादेशिक सेना विनियमावली 1948 के पैरा 31 के अधीन राष्ट्रपति निम्नलिखित जे सी ओ को उसके नाम के सामने दी गई तिथि से अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं :—

अवैतनिक सूबेदार मेजर के रैंक में

टी जे—696	सूबेदार	कार्तिक मैत्री	4 नवम्बर 1972
-----------	---------	----------------	---------------

No. 7-E dated 24 Jan 73.—The President is pleased to grant honorary rank to the undermentioned JCO belonging to the Territorial Army under Para 31 of the Regulations for the Territorial Army (1948) w.e.f. the date mentioned against him on 24th January 1973 :—

To be Honorary Subedar Major

TJ—696	Subedar	KARTICK MAITTI	4th Nov 1972
--------	---------	----------------	--------------

सं० 4-ई तारीख 24 जनवरी 73.—राष्ट्रपति भारत स्थित सेना विनियमावली 1962 के पैरा 181 के अधीन निम्नलिखित एन सी ओ को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से नायब रिसालदार/नायब सूबेदार का अवैतनिक पद प्रदान करने हैं :—

अवैतनिक नायब रिसालदार/नायब सूबेदार के रैंक में

दी प्रेसिडेंट्स बांडी गाई

1	13700081	दफादार	बलवीर सिंह	19 जनवरी 1973
2	13700084	दफादार	महीपाल सिंह	29 अक्टूबर 1972

केवलरी				
3	1006631	दफादार	आर अरमुगम	12 अगस्त 1972
4	1012908	दफादार	एम चिन्ना	26 अक्टूबर 1972
7 केवलरी				
5	1017784	दफादार]	नगेन्द्र सिंह	9 सितम्बर 1972
6	1017056	दफादार]	मूरन सिंह	25 जनवरी 1973
17 हार्म				
7	1017254	दफादार]	दत्त सिंह	25 जनवरी 1973
8	1017030	दफादार (एम के टी)	मान सिंह	29 सितम्बर 1972
9 हार्म				
9	1012082	दफादार	ब्रियन्न सिंह	19 दिसम्बर 1972
3 केवलरी				
10	1016813	दफादार	दीशर सिंह	6 अक्टूबर 1972
11	1011908	दफादार	गुरदेव सिंह	20 जनवरी 1973
12	1017234	दफादार	जगदीश चन्द्र सिंह	22 दिसम्बर 1972
18 केवलरी				
13	1017134	दफादार	जैवीर सिंह	23 सितम्बर 1972
14	1012053	दफादार	मोहम्मद सादिक	28 सितम्बर 1972
15	1017096	दफादार	मुस्ताक अहमद	23 सितम्बर 1972
62 केवलरी				
16	1017308	दफादार	जरनैल सिंह	13 सितम्बर 1972
63 केवलरी				
17	1011910	दफादार	गुरमुख सिंह	20 जनवरी 1973
61 केवलरी				
18	1020378	दफादार	स्वरूप सिंह	15 जुलाई 1972
65 आर्मंड रेजिमेंट				
19	1017853	दफादार	पीठा राम	20 जनवरी 1973
69 आर्मंड रेजिमेंट				
20	1017575	दफादार	मीर सिंह	25 सितम्बर 1972
आर्मंड कोर				
21	1011171	दफादार (एम के टी)	के अलेगर सामी	1 जनवरी 1973
रेजिमेंट आफ आर्टिलेरी				
22	3941704	हवलदार	भगवान सिंह	17 अक्टूबर 1972
23	1132322	हवलदार	जोगिन्दर सिंह	29 अगस्त 1972

रेजिमेंटल आफ फाटिलरी—जारी

24	2536766	हवलदार	के सी मसीला	20 नवम्बर 1972
25	1131603	हवलदार	महीपाल सिंह यादव	1 नवम्बर 1972
26	1118046	हवलदार	प्रीतम सिंह	23 जून 1972
27	1131432	हवलदार	रावत सिंह	13 नवम्बर 1972
28	1130151	हवलदार	मुरजीत सिंह	8 जनवरी 1972
29	1117238	हवलदार	बी मेश्यु	22 नवम्बर 1972

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

30	1310072	हवलदार	बी सीतारामन	12 सितम्बर 1972
----	---------	--------	-------------	-----------------

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

31	1416381	हवलदार	नन्दन सिंह	8 अगस्त 1972
----	---------	--------	------------	--------------

बाम्बे इंजीनियर ग्रुप

32	1508363	हवलदार	अमीर सिंह	9 सितम्बर 1972
33	1561403	हवलदार	अमरीक सिंह	10 जून 1972
34	1508273	हवलदार	अरजुन सिंह	10 सितम्बर 1972
35	1561373	हवलदार	बाबाजी पालन्डे	17 सितम्बर 1972
36	1508463	हवलदार	बाबू सिंह	13 अगस्त 1972
37	1508236	हवलदार	भाल चन्द्र कानिक	28 अगस्त 1972
38	1508316	हवलदार	बिजय नारायण राय	9 सितम्बर 1972
39	1561289	हवलदार	दाता राम शिन्दे	28 अगस्त 1972
40	1508232	हवलदार	धर्म सिंह	11 अगस्त 1972
41	1508212	हवलदार	गुरदीप सिंह	9 सितम्बर 1972
42	1508265	हवलदार	हरभजन सिंह	24 अक्टूबर 1972
43	1508278	हवलदार	करनैल सिंह	9 सितम्बर 1972
44	1561330	हवलदार	लक्ष्मण धूमल	19 सितम्बर 1972
45	1508336	हवलदार	माहीपत कदम	9 सितम्बर 1972
46	1561256	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	10 अगस्त 1972
47	1508415	हवलदार	रामचन्द्र तवाडे	3 अगस्त 1972
48	1561612	हवलदार	रंगनाथ शिनोले	22 अगस्त 1972
49	1508277	हवलदार	सदाशिव शिंदे	28 अगस्त 1972
50	1508374	हवलदार	संत सिंह	25 अक्टूबर 1972
51	1508270	हवलदार	सरवन सिंह	23 अगस्त 1972
52	1508824	हवलदार	शिगारा सिंह	18 सितम्बर 1972
53	1508474	हवलदार	सुरजन सिंह	7 जनवरी 1973
54	1508272	हवलदार	स्वर्ण सिंह	6 अगस्त 1972
55	1508282	हवलदार	तारा सिंह	29 अगस्त 1972
56	1508297	हवलदार	तेजा सिंह	27 अगस्त 1972
57	1561386	हवलदार	टीजे निरकशना राव	26 दिसम्बर 1972
58	1561273	हवलदार	वसन्त कदम	17 जुलाई 1972

कोर आफ सिगनल्स

59	6243793	हवलदार	परम राम	2 अगस्त	1972
60	6241445	हवलदार	बी पी के नायर	30 अक्टूबर	1972
61	6256441	हवलदार	यू राज	5 सितम्बर	1972

ब्रिगेड आफ दी गार्ड्स

62	2839727	हवलदार (कुक)	ब्रेमवान	29 सितम्बर	1972
----	---------	--------------	----------	------------	------

दी पंजाब रेजिमेंट

63	2437116	हवलदार	गुग्मेल सिंह	28 जून	1972
----	---------	--------	--------------	--------	------

दी ग्रनेडियर्स

64	2636496	हवलदार	जेर अहमद	16 अगस्त	1972
----	---------	--------	----------	----------	------

दी मराठा लाईट इन्फैंट्री

65	2738264	हवलदार कर्क (जी डी)	बाबा लाल मजावर	22 सितम्बर	1972
----	---------	------------------------	----------------	------------	------

दी राजपूताना राइफल्स

66	2839015	हवलदार	अमीर सिंह	26 सितम्बर	1972
67	2835553	हवलदार	भगवान सिंह	24 सितम्बर	1972
68	2839312	हवलदार	चेतन सिंह	22 अक्टूबर	1972
69	2839594	हवलदार	दीप सिंह	15 नवम्बर	1972
70	2839082	हवलदार	किशन लाल	2 नवम्बर	1972
71	2835149	हवलदार	माध सिंह	29 दिसम्बर	1972
72	2835410	हवलदार	सरदार सिंह	23 नवम्बर	1972
73	2838953	हवलदार	सूरज भान	23 नवम्बर	1972
74	2835150	हवलदार	उदय सिंह	24 अक्टूबर	1972

दी राजपूत रेजिमेंट

75	2941440	हवलदार	बाल जी सिंह	22 दिसम्बर	1972
76	2941260	हवलदार	चैत सिंह	10 नवम्बर	1972
77	2937936	हवलदार	देन राज	11 जनवरी	1973
78	2941506	हवलदार	धनपाल	29 दिसम्बर	1972
79	2939614	हवलदार	मदन सिंह	15 अक्टूबर	1972
80	2939445	हवलदार	महेन्द्र सिंह	23 सितम्बर	1972
81	2941531	हवलदार	मनोहर लाल	7 जनवरी	1973
82	2941461	हवलदार	मन्शी सिंह	21 दिसम्बर	1972
83	2939609	हवलदार	नथू सिंह	5 अक्टूबर	1972
84	2941117	हवलदार	पिरथी राम	18 अक्टूबर	1972
85	2939648	हवलदार	राम मेहर	6 अक्टूबर	1972

डी जाट रेजिमेंट

86	3138099	हवलदार	छोटू राम	11 नवम्बर 1972
87	3138270	हवलदार	गिमाल सिंह	26 अक्टूबर 1972

टी सिख रेजिमेंट

88	3337946	हवलदार	अवतार सिंह	11 अगस्त 1972
89	3339332	हवलदार	बहादुर सिंह	8 नवम्बर 1972
90	3339205	हवलदार	बलवीर सिंह	18 अक्टूबर 1972
91	3339340	हवलदार	चानन सिंह	14 सितम्बर 1972
92	3339338	हवलदार	चरन सिंह	18 अगस्त 1972
93	3339426	हवलदार	दरशन सिंह	16 जून 1972
94	3338413	हवलदार	इन्द्र सिंह	9 सितम्बर 1972
95	3339488	हवलदार	इन्द्र सिंह	16 अप्रैल 1972
96	3339830	हवलदार	ईशर सिंह	20 अगस्त 1972
97	3339260	हवलदार	जोगीर सिंह	10 अगस्त 1972
98	3339242	हवलदार	जोगीर सिंह	20 अगस्त 1972
99	3339316	हवलदार	जसवन्त सिंह	21 अगस्त 1972
100	3337877	हवलदार	जसवन्त सिंह	28 अक्टूबर 1972
101	3339261	हवलदार	प्रीतम सिंह	23 अगस्त 1972
102	3339350	हवलदार	प्रीतम सिंह	6 अगस्त 1972
103	3339296	हवलदार	रोपेल सिंह	10 अगस्त 1972
104	3339388	हवलदार	सेवा सिंह	24 अगस्त 1972
105	3339867	हवलदार	शादी सिंह	24 अगस्त 1972
106	3338412	हवलदार	सुजान सिंह	5 मई 1972
107	3339456	हवलदार	मुखदेव सिंह	7 सितम्बर 1972
108	3337328	हवलदार	उज्जगर सिंह	30 जुलाई, 1972
109	3339386	हवलदार	वीर सिंह	16 अगस्त 1972

डी सिख लाइट इन्फैन्ट्री

110	4434648	हवलदार	वासन सिंह	20 अक्टूबर 1972
-----	---------	--------	-----------	-----------------

डी डोगरा रेजिमेंट

111	3942802	हवलदार क्लर्क	अमर सिंह	27 दिसम्बर 1972
112	3941565	हवलदार क्लर्क	देम राज	14 दिसम्बर 1972
113	3942506	हवलदार	बिहारी लाल	16 नवम्बर 1972
114	3941497	हवलदार	हरी पाल	11 नवम्बर 1972
115	3941708	हवलदार	प्रहलाद भगन	25 जनवरी 1973
116	3942545	हवलदार	प्रेम सिंह	13 नवम्बर 1972

डी गढ़वाल राइफल

117	4034062	हवलदार	बेताल सिंह अमवाल	20 दिसम्बर 1972
118	4031681	हवलदार	धर्म सिंह रावत	14 दिसम्बर 1972
119	4034052	हवलदार	शेर सिंह बिष्ट	14 नवम्बर 1972

बी कुमाऊं रेजिमेंट

120	4139984	हवलदार	वान सिंह	13 दिसम्बर 1972
121	4139471	हवलदार	हीरा लाल	17 अक्टूबर 1972
122	4139982	हवलदार	त्रिलोक सिंह	17 नवम्बर 1972

बी आसाम रेजिमेंट

123	4330171	हवलदार	धरुनी धर पतंगिया	18 नवम्बर 1972
-----	---------	--------	------------------	----------------

बी बिहार रेजिमेंट

124	4233333	हवलदार	जगनरायन मिस्त्री	25 अक्टूबर 1972
125	4233459	हवलदार	जमुना सिंह	[29 नवम्बर 1972
126	4233391	हवलदार	रामचन्द्र ठाकुर	21 दिसम्बर 1972

बी महार रेजिमेंट

127	9200058	हवलदार क्लर्क	गिरधारी लाल	14 जुलाई 1972
128	9200238	हवलदार क्लर्क	प्रेम दास	14 अगस्त 1972
129	9000996	हवलदार	अच्छे लाल	14 अगस्त 1972
130	4531774	हवलदार	बाबू चन्दनशिवे	14 अगस्त 1972
131	4531792	हवलदार	भगवन्त हलवल	8 अगस्त 1972
132	4532937	हवलदार	चम्पत लाडवन	14 अगस्त 1972
133	9309494	हवलदार	प्यारा सिंह सन्धू	22 जून 1972
134	4532714	हवलदार	रघुनाथ रंजने	[14 अगस्त 1972
135	9200301	हवलदार	रिखी राम	14 अगस्त 1972
136	4532919	हवलदार	सम्भा अधालगे	[14 अगस्त 1972
137	4533607	हवलदार	श्रीराम बानाकार	14 अगस्त 1972
138	9200043	हवलदार	तल्ब राम	10 अगस्त 1972
139	8806321	हवलदार	तातू माने	2 दिसम्बर 1972
140	9310989	हवलदार	टंक सिंह	8 अगस्त 1972
141	9200035	हवलदार (कुक्)	अमर नाथ	14 अगस्त 1972
142	9200060	हवलदार (कुक्)	कशमीराम	14 अगस्त 1972

1 गोरखा राइफल

143	5031526	हवलदार	टंक बहादुर गुरंग	29 जनवरी 1972
-----	---------	--------	------------------	---------------

5 गोरखा राइफल

144	5433761	हवलदार	बीरबहादुर अले	20 दिसम्बर 1972
145	5433915	हवलदार	शेरबहादुर गुरंग	26 दिसम्बर 1972

8 गोरखा राइफल

146	5734305	हवलदार (कुक्) II	बिनराज गुरंग	15 अगस्त 1972
-----	---------	------------------	--------------	---------------

9 गोरखा राइफलस

147 5830302	हवलदार	गोर बहादुर खत्री	26 नवम्बर 1972
148 5832664	हवलदार	यम बहादुर माही	16 अक्टूबर 1972

11 गोरखा राइफलस

149 5433374	हवलदार	बीर बहादुर लिम्बू	16 अप्रैल 1972
150 9402972	हवलदार	भैमनसिंह लिम्बू	5 नवम्बर 1972

आर्मी सर्विस कोर (सप्लाय)

151 0343390	हवलदार कर्क (जी डी)	मोहन सिंह	13 जनवरी 1973
152 6344860	हवलदार कर्क (जी डी)	रघुनन्दन लाल	14 जनवरी 1973

आर्मी सर्विस कोर (मेकैनिकल ट्रान्सपोर्ट)

153 6565156	हवलदार	स्वामी नेकर कृष्णन	9 दिसम्बर 1972
-------------	--------	--------------------	----------------

आर्मी मेडिकल कोर

154 6768518	हवलदार कर्क (जी डी)	जलेश्वर नाथ	14 जनवरी 1973
155 6762215	हवलदार (ए ए)	बिजय नारायण	13 दिसम्बर 1972
156 6758660	हवलदार (ए ए)	बिन्दा राम	28 दिसम्बर 1972
157 6758296	हवलदार (ए ए)	बुधी चन्द	23 जनवरी 1973
158 6762767	हवलदार (ए ए)	चन्द्र मोहन सिंह	13 दिसम्बर 1972
159 6763321	हवलदार (ए ए)	चन्द्रिका प्रसाद	18 नवम्बर 1972
160 6769506	हवलदार (ए ए)	वलीप सिंह	10 दिसम्बर 1972
161 6763119	हवलदार (ए ए)	हरी लाल	15 नवम्बर 1972
162 6745125	हवलदार (ए ए)	हुब लाल	24 दिसम्बर 1972
163 6780676	हवलदार (ए ए)	कुंज बिहारी तिवारी	20 दिसम्बर 1972
164 6769906	हवलदार (ए ए)	प्रियारंजन बरुआ	18 जनवरी 1973
165 6763776	हवलदार (ए ए)	राम बदन राय	11 दिसम्बर 1972
166 6758404	हवलदार (ए ए)	राम किशम सिंह	23 दिसम्बर 1972
167 6762225	हवलदार (ए ए)	राम कबीलाश सिंह	18 दिसम्बर 1972
168 6758130	हवलदार (ए ए)	राम कृपाल सिंह	19 दिसम्बर 1972
169 6769841	हवलदार (ए ए)	सोभिन्द्र झा	18 जनवरी 1973
170 6769795	हवलदार (ए ए)	सोवती राम सुन्नीयाल	11 दिसम्बर 1972
171 6769842	हवलदार (ए ए)	सुरजीत सिंह	11 जनवरी 1973
172 6780665	हवलदार (ए ए)	टिल्लू	19 दिसम्बर 1972
173 6780832	हवलदार (ए ए)	वी लूकोस	15 जनवरी 1973
174 6560960	हवलदार (ब्राइवर) (एम टी)	सी नारायणन नायर	4 दिसम्बर 1972
175 6578487	हवलदार (ब्राइवर) (एम टी)	वामोदरन पिल्ले	30 नवम्बर 1972
176 6780965	हवलदार (ए ए)	केबी गोपालन	14 नवम्बर 1972

घाती मेडिकल कोर-आरी

177	6780976	हवलदार (एन ए)	अज्ञा राम शर्मा	11 दिसम्बर 1972
178	6780707	हवलदार (एन ए)	सी वानुदेवा रेड्डी	9 दिसम्बर 1972
179	6742493	हवलदार (ओ आर ए)	ए जोन फरनांडीज	26 जनवरी 1973
180	6740472	हवलदार (ओ आर ए)	ब्रजा राज मिश्रा	12 दिसम्बर 1972
181	6796263	हवलदार (ओ आर ए)	हैनरी लोपेज	15 जनवरी 1973
182	6746333	हवलदार (ओ आर ए)	कैलाश बिहारी सिंह	16 दिसम्बर 1972
183	6762828	हवलदार (ओ आर ए)	एम गोविन्दामामी	4 दिसम्बर 1972
184	6793857	हवलदार (ओ आर ए)	एन वासुदेवा पानीकर	21 जनवरी 1973
185	6793872	हवलदार (ओ आर ए)	एन ई मधू	14 जनवरी 1973
186	6779919	हवलदार (पी ओ टी ए)	अस्त आर अरोकिया मामी	22 नवम्बर 1972
187	6741068	हवलदार (एस ए)	पी यू जोसफ	30 नवम्बर 1972
188	6792596	हवलदार (एस ए)	सुधीर चन्द्र सरकार	27 दिसम्बर 1972
189	6758457	हवलदार (एस केटी)	मुण्डेश्वर प्रसाद	26 जनवरी 1973
190	6779803	हवलदार (कुक) (एच)	जेम्स	26 दिसम्बर 1972
191	6779820	हवलदार कुक (एच)	एम अब्दुल खादर	16 दिसम्बर 1972

ग्रामी आर्जिन्स कोर

192	6862331	हवलदार	गुलजारा सिंह	14 अगस्त 1972
193	6862324	हवलदार	हरी नन्दन सिंह	14 अगस्त 1972
194	6862642	हवलदार	मिल्खी राम	8 अगस्त 1972
195	6862478	हवलदार	नाम देव ईनाजे	14 अगस्त 1972
196	6862220	हवलदार	नरायन साहू	14 अगस्त 1972
197	6857043	हवलदार	निर्मल सिंह	14 अगस्त 1972
198	6862491	हवलदार	पवम बहादुर मंगर	14 अगस्त 1972
199	6862515	हवलदार	परशोत्तम राव डालवी	14 अगस्त 1972
200	6862413	हवलदार	आर गोविन्दास्वामी	14 अगस्त 1972
201	6862333	हवलदार	राम नरायन सिंह	14 अगस्त 1972
202	6862432	हवलदार	सन्तोष सिंह	14 अगस्त 1972
203	6862224	हवलदार	शिव चन्व	14 अगस्त 1972
204	6856554	हवलदार	टीके गोविन्दन	14 अगस्त 1972

कोर अफ इन्फेक्ट्रकल एण्ड मेकनिकल इंजीनियरस

205	7020254	हवलदार	बन्धुमा सिंह	27 दिसम्बर 1972
206	7019536	हवलदार	इ गोपाला कुंम	1 फरवरी 1972
207	7022183	हवलदार	हरी सिंह मंगोतिया	29 नवम्बर 1972
208	6828758	हवलदार	भुनेश्वर	31 अगस्त 1972
209	7001169	हवलदार	पी के थोमस	14 फरवरी 1972

रिमाउन्ट एण्ड वेटेरीनरी कोर

210	7230041	दफादार (डीएस आर)	बिसराम सिंह	26 दिसम्बर 1972
211	7230025	दफादार (डी एस आर)	प्रीतम सिंह	16 नवम्बर 1972

आर्मी एजुकेशनल कोर

212	1132399	हवलदार	अमर सिंह	11 जनवरी 1973
213	6852023	हवलदार	पी बालाकृष्णन नायर	5 जनवरी 1973

बी पाइनियर कोर

214	7992404	हवलदार (जी डी)	अरुमुगम	29 जुलाई 1972
215	7992248	हवलदार (जी डी)	बाबन	15 अगस्त 1972
216	7992473	हवलदार (जी डी)	बुधई	15 अगस्त 1972
217	7992484	हवलदार (जी डी)	जनरेड्या मुन्डा	15 अगस्त 1972
218	6848413	हवलदार (जी डी)	केसर देव	15 अगस्त 1972
219	7992412	हवलदार (जी डी)	एम बी पूरना चन्द्रा राव	15 अगस्त 1972
220	13120467	हवलदार (जी डी)	एन राघवन नायर	31 अक्टूबर 1972
221	7992693	हवलदार (जी डी)	शरीफ	15 अगस्त 1972

एम० सूत्रामन्यम, संयुक्त सचिव ।

No. 4-E, dated 24th Jan 73.—The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned NCOs under Para 181 of Regulations for the Army (1962) with effect from the dates mentioned against each:—

To be Honorary Naib Risaldars/Naib Subedars

THE PRESIDENT'S BODYGUARD

1	13700081 DFR	BALBIR SINGH	19th Jan 1973
2	13700084 DFR	MAHIPAL SINGH	29th Oct 1972

16 CAVALRY

3	1006631 DFR	R ARUMUGAM	12th Aug 1972
4	1012908 DFR	S CHINNAPPA	26th Oct 1972

7 CAVALRY

5	1017784 DFR	NAGINDER SINGH	9th Sep 1972
6	1017056 DFR	SURAT SINGH	25th Jan 1973

17 HORSE

7	1017244 DFR	INDER SINGH	25th Jan 1973
8	1017030 DFR (SKT)	MAN SINGH	29th Sep 1972

9 HORSE

9 1012082 DFR	BEANT SINGH	19th Dec 1972
---------------	-------------	---------------

3 CAVALRY

10 1016813 DFR	DIDAR SINGH	6th Oct 1972
11 1011908 DFR	GURDEV SINGH	20th Jan 1973
12 1017234 DFR	JAGDISH CHANDRA SINGH	22nd Dec 1972

18 CAVALRY

13 1017134 DFR	JAIBIR SINGH	23rd Sep 1972
14 1012053 DFR	MOHD SADIQUE	23rd Sep 1972
15 1017096 DFR	MUSTAQUE AHMED	23rd Sep 1972

62 CAVALRY

16 1017308 DFR	JARNAIL SINGH	13th Sep 1972
----------------	---------------	---------------

63 CAVALRY

17 1011910 DFR	GURMUKH SINGH	20th Jan 1973
----------------	---------------	---------------

61 CAVALRY

18 1020378 DFR	SWAROOP SINGH	15th Jul 1972
----------------	---------------	---------------

65 ARMoured REGIMENT

19 1017853 DFR	PITHA RAM	20th Jan 1973
----------------	-----------	---------------

69 ARMoured REGIMENT

20 1017575 DFR	MIR SINGH	25th Sep 1972
----------------	-----------	---------------

ARMoured CORPS

21 1011171 DFR (SKT)	KALAGAR SAMI	1st Jan 1973
----------------------	--------------	--------------

REGIMENT OF ARTILLERY

22 3941704 HAV	BHAGWAN SINGH	17th Oct 1972
23 1132322 HAV	JOGINDER SINGH	29th Aug 1972
24 2536766 HAV	KC MASILA	20th Nov 1972
25 1131603 HAV	MAHIPAL SINGH YADAV	1st Nov 1972
26 1118046 HAV	PRITAM SINGH	23rd Jun 1972
27 1131432 HAV	RAWAT SINGH	13th Nov 1972
28 1130151 HAV	SURJIT SINGH	8th Jun 1972
29 1117238 HAV	V MATHEW	22nd Nov 1972

MADRAS ENGINEER GROUP

30 1310072 HAV	V. SEETHARAMAN	12th Sep 1972
----------------	----------------	---------------

BENGAL ENGINEER GROUP

31 1416381 HAV	NANDAN SINGH	8th Aug 1972
----------------	--------------	--------------

BOMBAY ENGINEER GROUP

32 1508363 HAV	AMIR SINGH	9th Sep 1972
33 1561403 HAV	AMRIK SINGH	10th Jun 1972
34 1508273 HAV	ARJAN SINGH	10th Sep 1972
35 1561373 HAV	BABAJI PALANDE	17th Sep 1972
36 1508463 HAV	BABU SINGH	13th Aug 1972
37 1508236 HAV	BHAL CHANDRA KARNIK	28th Aug 1972
38 1508316 HAV	BIJAI NARAIN RAI	9th Sep 1972

BOMBAY ENGINEER GROUP—contd.

39	1561289	HAV	DATTARAM SHINDE	28th Aug 1972
40	1508232	HAV	LHARAM SINGH	11th Aug 1972
41	1508212	HAV	GURUP SINGH	9th Sep 1972
42	1508265	HAV	HAKHJAN SINGH	24th Oct 1972
43	1508278	HAV	KARNAIL SINGH	9th Sep 1972
44	1561330	HAV	LAXMAN LHMAL	19th Sep 1972
45	1508336	HAV	MAHIPAT KADAM	9th Sep 1972
46	1561256	HAV	MOHINLAR SINGH	10th Aug 1972
47	1508415	HAV	RAMCHANDER TAWADE	3rd Aug 1972
48	1561612	HAV	RANGNATH SHITOLE	22nd Aug 1972
49	1508277	HAV	SALASHIV SHINDE	28th Aug 1972
50	1508374	HAV	SANT SINGH	25th Oct 1972
51	1508270	HAV	SARWAN SINGH	23rd Aug 1972
52	1508824	HAV	SHINGARA SINGH	18th Sep 1972
53	1508474	HAV	SURJAN SINGH	7th Jan 1972
54	1508272	HAV	SWARAN SINGH	6th Aug 1972
55	1508282	HAV	TARA SINGH	29th Aug 1972
56	1508297	HAV	TEJA SINGH	27th Aug 1972
57	1561386	HAV	TJ NIREEKSHANA RAO	26th Dec 1972
58	1561273	HAV	VASANT KADAM	17th Jul 1972

CORPS OF SIGNALS

59	6243793	HAV	PARAS RAM	2nd Aug 1972
60	6241445	HAV	VPK NAYAR	30th Oct 1972
61	6256441	HAV	YOU RAJ	5th Sep 1972

BRIGADE OF THE GUARDS

62	2839727	HAV (COOK)	VEMBHAN	29th Sep 1972
----	---------	------------	---------	---------------

THE PUNJAB REGIMENT

63	2437116	HAV	GURMEL SINGH	28th Jun 1972
----	---------	-----	--------------	---------------

THE GRENADIERS

64	2636496	HAV	SHER AHMAD	16th Aug 1972
----	---------	-----	------------	---------------

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

65	2738264	HAV CLK(GD)	BABA LAL MUJAWAR	22nd Sep 1972
----	---------	-------------	------------------	---------------

THE RAJPUTANA RIFLES

66	2839015	HAV	AMIR SINGH	26th Sep 1972
67	2835553	HAV	BHAGWAN SINGH	24th Sep 1972
68	2839312	HAV	CHETAN SINGH	22nd Oct 1972
69	2839594	HAV	DEEP SINGH	15th Nov 1972
70	2839082	HAV	KISHAN LAL	2nd Nov 1972
71	2835149	HAV	MAGH SINGH	29th Dec 1972
72	2835410	HAV	SARDAR SINGH	23rd Nov 1972
73	2838953	HAV	SURAJ BHAN	23rd Nov 1972
74	2835150	HAV	UDAI SINGH	24th Oct 1972

THE RAJPUT REGIMENT

75	2941440	HAV	BAL JI SINGH	22nd Dec 1972
76	2941260	HAV	CHAIN SINGH	10th Nov 1972
77	2937936	HAV	DES RAJ	11th Jan 1973
78	2941506	HAV	DHAN PAL	29th Dec 1972
79	2939614	HAV	MADAN SINGH	15th Oct 1972
80	2939445	HAV	MAHENDRA SINGH	23rd Sep 1972
81	2941531	HAV	MANOHAR JAL	7th Jan 1973
82	2941461	HAV	MUNSHI SINGH	21st Dec 1972
83	2939609	HAV	NATHU SINGH	5th Oct 1972

THE RAJPUT REGIMENT—*contd.*

84	2941117	HAV	PIRTHI RAM	18th Oct 1972
85	2939648	HAV	RAM MEHAR	6th Oct 1972

THE JAT REGIMENT

86	3138099	HAV	CHHOTU RAM	11th Nov 1972
87	3138270	HAV	RISAL SINGH	26th Oct 1972

THE SIKH REGIMENT

88	3337946	HAV	AVTAR SINGH	11th Aug 1972
89	3339332	HAV	BAHADUR SINGH	8th Nov 1972
90	3339205	HAV	BALBIR SINGH	18th Oct 1972
91	3339340	HAV	CHANAN SINGH	14th Sep 1972
92	3339338	HAV	CHARAN SINGH	18th Aug 1972
93	3339426	HAV	DARSHAN SINGH	16th Jun 1972
94	3338413	HAV	INDER SINGH	9th Sep 1972
95	3339488	HAV	INDER SINGH	16th Apr 1972
96	3339830	HAV	ISHER SINGH	20th Aug 1972
97	3319260	HAV	JAGIR SINGH	10th Aug 1972
98	3339242	HAV	JAGIR SINGH	20th Aug 1972
99	3339316	HAV	JASWANT SINGH	21st Aug 1972
100	3337877	HAV	JASWANT SINGH	28th Oct 1972
101	3339261	HAV	PRITAM SINGH	23rd Aug 1972
102	3339350	HAV	PRITAM SINGH	6th Aug 1972
103	3339296	HAV	ROBEL SINGH	10th Aug 1972
104	3339388	HAV	SEWA SINGH	24th Aug 1972
105	3339867	HAV	SHADI SINGH	24th Aug 1972
106	3338412	HAV	SUJAN SINGH	5th May 1972
107	3339456	HAV	SUKHDEV SINGH	7th Sep 1972
108	3317328	HAV	UJAGAR SINGH	30th Jul 1972
109	3339386	HAV	VIR SINGH	16th Aug 1972

THE SIKH LIGHT INFANTRY

110	4434648	HAV	WASSAN SINGH	20th Oct 1972
-----	---------	-----	--------------	---------------

THE DOGRA REGIMENT

111	3942802	HAV	CLK AMAR SINGH	27th Dec 1972
112	3941565	HAV	CLK DES RAJ	14th Dec 1972
113	3942506	HAV	BEHARI LAL	16th Nov 1972
114	3941497	HAV	HARI PAL	11th Nov 1972
115	3941708	HAV	PARLHAD BHAGAT	25th Jan 1973
116	3942545	HAV	PREM SINGH	13th Nov 1972

THE GARHWAL RIFLES

117	4034062	HAV	BETAL SINGH ASWAL	20th Dec 1972
118	4031681	HAV	DHARAM SINGH RAWAT	14th Dec 1972
119	4034052	HAV	SHER SINGH BISHT	14th Nov 1972

THE KUMAON REGIMENT

120	4139984	HAV	DAN SINGH	13th Dec 1972
121	4139471	HAV	HIRA LAL	17th Oct 1972
122	4139982	HAV	TRILOK SINGH	17th Nov 1972

THE ASSAM REGIMENT

123	4330171	HAV	DHARANI DHAR PATANG	18th Nov 1972
-----	---------	-----	---------------------	---------------

THE BIHAR REGIMENT

124	4233333	HAV	JAG NARAIN MISTRY	25th Oct 1972
125	4233459	HAV	JAMUNA SINGH	29th Nov 1972
126	4233391	HAV	RAM CHANDRA THAKUR	21st Dec 1972

THE MAHAR REGIMENT

127	9200058	HAV CLK GIRDHARI LAL	14th Jul 1972
128	9200238	HAV CLK PREM DASS	14th Aug 1972
129	9000996	HAV ACHHEY LAL	14th Aug 1972
130	4531774	HAV BABU CHANDANSHIWE	14th Aug 1972
131	4531792	HAV BHAGWANT HALPAL	8th Aug 1972
132	4532937	HAV CHAMPAT LADWON	14th Aug 1972
133	9309494	HAV PIARA SINGH SANDHU	22nd Jun 1972
134	4532714	HAV RAGHUNATH RANJANE	14th Aug 1972
135	9200301	HAV RIKHI RAM	14th Aug 1972
136	4532919	HAV SAMBHA ADHALGE	14th Aug 1972
137	4533607	HAV SHRIRAM BANAKAR	14th Aug 1972
138	9200043	HAV TALB RAM	10th Aug 1972
139	8806321	HAV TATU MANE	2nd Dec 1972
140	9310989	HAV TEK SINGH	8th Aug 1972
141	9200035	HAV AMAR NATH	14th Aug 1972
		(COOK)	
142	9200060	HAV KASHMIRU RAM	14th Aug 1972
		(COOK)	

1 GORKHA RIFLES

143	5031526	HAV TEK BAHADUR GURUNG	29th Jan 1972
-----	---------	------------------------	---------------

5 GORKHA RIFLES

144	5433761	HAV BIRBAHADUR ALE	20th Dec 1972
145	5433915	HAV SHERBAHADUR GURUNG	26th Dec 1972

8 GORKHA RIFLES

146	5734305	HAV BINRAJ GURUNG	15th Aug 1972
		(COOK)	

9 GORKHA RIFLES

147	5830302	HAV SHER BAHADUR KHATTRI	26th Nov 1972
148	5832664	HAV YAM BAHADUR SAHI	16th Oct 1972

11 GORKHA RIFLES

149	5433374	HAV BIRBAHADUR LIMBU	16th Apr 1972
150	9402972	HAV MAIMANSING LIMBU	5th Nov 1972

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

151	6343390	HAV MOHAN SINGH	13th Jan 1973
		CLK (GD)	
152	6344860	HAV RAGHUNANDAN LAL	14th Jan 1973
		CLK (GD)	

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

153	6565156	HAV SWAMY NAIKER KRISHNAN	9th Dec 1972
-----	---------	---------------------------	--------------

ARMY MEDICAL CORPS

154	6768518	Hav Clk JALESHWAR NATH	14th Jan 1973
		(GD)	
155	6762215	Hav(AA) RIJAI NARAIN	13th Dec 1972
156	6758660	Hav (AA) BRINDRA RAM	28th Dec 1972
157	6758206	Hav (AA) BUDHI CHAND	23rd Jan 1973
158	6762767	Hav (AA) CHANDRA MOHAN SINGH	13th Dec 1972
159	6763321	Hav (AA) CHANDRIKA PRASAD	18th Nov 1972
160	6769506	Hav (AA) DALIP SINGH	10th Dec 1972
161	6763119	Hav (AA) HARI LAL	15th Nov 1972
162	6745125	Hav (AA) HUR LAL	24th Dec 1972
163	6780676	Hav (AA) KUNJ BEHARI TEWARI	20th Dec 1972

Army Medical Corps—*contd.*

164	6769906	Hav (AA)	PRIYA RANJON BARUA	18th Jan 1973
165	6763776	Hav (AA)	RAM BADAN RAI	11th Dec 1972
166	6758404	Hav (AA)	RAM KISHEN SINGH	23rd Dec 1972
167	6762225	Hav (AA)	RAM KABILASH SINGH	18th Dec 1972
168	6758130	Hav (AA)	RAM KRIPAL SINGH	19th Dec 1972
169	6769841	Hav (AA)	SOBHINDRA JHA	18th Jan 1973
170	6769795	Hav (AA)	SOBTI RAM SUNDRIYAL	11th Dec 1972
171	6769842	Hav (AA)	SURJIT SINGH	11th Jan 1973
172	6780665	Hav (AA)	TILLU	19th Dec 1972
173	6780832	Hav (AA)	V LUKOSE	15th Jan 1973
174	6560960	Hav	C NARAYANAN NAIR	4th Dec 1972
		DVR(MT)		
175	6578487	Hav	DAMODARAN PILLAY	30th Nov 1972
		DVR(MT)		
176	6780965	Hav (LA)	KV GOPALAN	14th Nov 1972
177	6780976	Hav (NA)	AGIA RAM SHARMA	11th Dec 1972
178	6780707	Hav (NA)	C VASUDEVA REDDY	9th Dec 1972
179	6742493	Hav (ORA)	A JOHN FERNANDEZ	26th Jan 1973
180	6740472	Hav (ORA)	DWIJA RAJ MISRA	12th Dec 1972
181	6796263	Hav (ORA)	HENRY LOPEZ	15th Jan 1973
182	6746333	Hav (ORA)	KAILASH BEHARI SINGH	16th Dec 1972
183	6762828	Hav (ORA)	M GOVINDASAMY	4th Dec 1972
184	6793857	Hav (ORA)	N VASUDEVA PANICKER	21st Jan 1973
185	6793872	Hav (ORA)	NE MATHEW	14th Jan 1973
186	6779919	Hav (POTA)	ARUL R AROKIYA SAMI	22nd Nov 1972
187	6741068	Hav (SA)	PU JOSEPH	30th Nov 1972
188	6792596	Hav (SA)	SUDHIR CHANDRA SARKAR	27th Sep 1972
189	6758457	Hav (SKT)	MUNESHWAR PRASAD	26th Jan 1973
190	6779803	Hav (Cook)(H)	JAMES	26th Dec 1972
191	6779820	Hav (Cook)	M ABDUL KHADER	16th Dec 1972
		(H)		

ARMY ORDNANCE CORPS

192	6862331	Hav	GULZARA SINGH	14th Aug 1972
193	6862324	Hav	HARI NANDAN SINGH	14th Aug 1972
194	6862642	Hav	MILKHI RAM	8th Aug 1972
195	6862478	Hav	NAM DEO INGLE	14th Aug 1972
196	6862220	Hav	NARAYAN SAHU	14th Aug 1972
197	6857043	Hav	NIRMAL SINGH	14th Aug 1972
198	6862491	Hav	PADAM BAHADUR MANGAR	14th Aug 1972
199	6862515	Hav	PARSHOTAM RAO DALVI	14th Aug 1972
200	6862413	Hav	R GOVINDASWAMY	14th Aug 1972
201	68 2333	Hav	RAM NARAIN SINGH	14th Aug 1972
202	6862432	Hav	SANTOKH SINGH	14th Aug 1972
203	6862224	Hav	SHEO CHAND	14th Aug 1972
204	6856554	Hav	TK GOVINDAN	14th Aug 1972

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

205	7020254	Hav	CHANDARMA SINGH	27th Dec 1972
206	7019536	Hav	E GOPALA KURUP	1st Feb 1972
207	7022183	Hav	HARI SINGH MANGOTIA	29th Nov 1972
208	6828758	Hav	MUNESHWAR	31st Aug 1972
209	7001169	Hav	PK THOMAS	14th Feb 1972

REMCOUNT AND VETERINARY CORPS

210	7230041	(DFR)	BISRAM SINGH	26th Dec 1972
		(DSR)		
211	7230025	(DFR)	PRITAM SINGH	16th Nov 1972
		(DSR)		

ARMY EDUCATIONAL CORPS

212	1132399	Hav	AMAR SINGH	11th Jan 1973
213	6852023	Hav	P BALAKRISHNAN NAIR	9th Jan 1973

THE PIONEER CORPS

214	7992404	Hav (GD)	ARUMUGAM	29th Jul 1972
215	7992248	Hav (GD)	BABAN	15th Aug 1972
216	7992473	Hav (GD)	BUDHAI	15th Aug 1972
217	7992484	Hav (GD)	JANDAIA MUNDA	15th Aug 1972
218	6848413	Hav (GD)	KESER DEV	15th Aug 1972
219	7992412	Hav (GD)	MV POORNA CHANDRA RAO	15th Aug 1972
220	13120467	Hav (GD)	N RAGHAVAN NAIR	31st Oct 1972
221	7992693	Hav (GD)	SHARIF	15th Aug 1972

M. SUBRAMANYAM, Jt. Secy.

सं० 8-ई तारीख 15 जनवरी 1973.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना

स्थायी संवर्ग

स्पेशल ड्यूटीज लिस्ट

निम्नलिखित मास्टर चीफ अफसरों को भारतीय नौसेना में सक्रिय सूची पर 26 जनवरी 1973 से अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है :—

क्रम सं०	नाम	दर्जा	सं०
अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट 'स्पेशल ड्यूटीज' के पद पर			
1	जार्ज एलेक्सीनल थामस	एम० सी० पी० ओ० (टेली) (अवैतनिक सब-लेफ्टि०)	6989
2	गुरदास सिंह किशन सिंह	एम० सी० ई० आर० ए०—1 (अवैतनिक सब-लेफ्टि०)	31819
अवैतनिक सब-लेफ्टिनेन्ट (स्पेशल ड्यूटीज) के पद पर			
3	एम० कुन्ही आनन्दन	एम० सी० पी० ओ० (यू० डब्ल्यू० आई०)	21317
4	पी० एस० जोसफ	एम० सी० पी० आर० (जी० आई०)	21966
5	सी० अब्दुला कुरुप	एम० सी० पी० ओ०—1 (जी० आई०)	23568
6	संग्राम सिंह	एम० सी० एम० ई०—1	36379
7	ए० एस० के० मस्तान साहिब	एम० सी० ई० एल० पी० 1	28631
8	जे० जे० गोपीराज	एम० सी० पी० ओ० (टेली)	19004
9	जी० रॉड्रिक्स	एम० सी० पी० ओ० सी० के० (एस०) 1	16693

एल दयाल, संयुक्त सचिव ।

No. 8-E, dated 15th January, 1973.—The President is pleased to make the following appointments:—

Indian Navy

PERMANENT CADRE

Special Duties List

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Active List in the Indian Navy with effect from the 26th January, 1973 :

Sl. No.	Name	Rank	No.
<i>To be Honorary Lieutenants "Special Duties".</i>			
1	GEORGE PALATHINAL THOMAS	MCPO (TELI)	6989
		(Hony. Slt)	
2	GURDAS SINGH KISHAN SINGH	MC ERA I	31819
		(Hony Slt)	
<i>To be Honorary Sub-Lieutenants "Special Duties"</i>			
3	M KUNHIANANDAN	MCPO (UWI)	21317
4	PS. JOSEPH	MCPO I (GI)	21966
5	CACHUTHA KURUP	MCPO I (GI)	23568
6	SANGAM SINGH	MC ME I	36379
7	ASK MASTHAN SAHIB	MC ELP I	28631
8	JJ GOPIRAJ	MCPO (TELI)	19004
9	G RODRIQUES	MCPO CK (S) I	16693

L. DAYAL, Jt. Secy.

(वायु शाखा)

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1973

सं० 9-ई, दिनांक 22 जनवरी 1973.—निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों को, यथा संगठित वायुसेना अनुदेश 20/60 के अधीन 26 जनवरी, 1973 में फ्लाईंग अफसर के रैंक में आनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

बी० बी० 65	मास्टर वारंट अफसर पियार सिंह	ए सी एच जी डी
15421	मास्टर वारंट अफसर शम्भू सिंह	कलर्क जी डी
214	मास्टर वारंट अफसर हरचरण सिंह	फिटर
15000	मास्टर वारंट अफसर राय एम	ए एफ एस ओ
11016	मास्टर वारंट अफसर प्रसाद, एन	फिटर आर्मेडर
12709	मास्टर वारंट अफसर जार्ज, टी बी	मेड असिस्टेंट
29164	मास्टर वारंट अफसर ओम्मेन, पी एम	रडार, अपरेटर
12072	मास्टर वारंट अफसर गणपति, पी,	भा वा से पुलिय

Air Branch

New Delhi, the 26th January, 1973.

No. 9-E, dated 22nd January 1973.—The undermentioned MWOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying officer w.c.f. 26th January, 1973, under A.F.I. 20 of 1960, as amended.

BB—65	MWO	Plar Singh	ACH GD
15421	MWO	Shambooo Singh	Clk. GD
214	MWO	Harcharan Singh	Fit. I
15000	MWO	Roy, S.	AFSO
11016	MWO	Prashad, N.	Fit. Armr.
12709	MWO	George, T.V.	Med. Asst.
29166	MWO	Oomen, P. M.	Rad. Opr.
12072	MWO	Ganapathy, P.	IAF P

सं० 10-ई, दिनांक 22 जनवरी 1973.—निम्नलिखित आनरेरी फ्लाईंग अफसरों को, यथा संशोधित वायुसेना अनुदेश 20/60 के अधीन 26 जनवरी, 1973 में आनरेरी फ्लाईंग लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नति किया जाता है :—

20810	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाईंग अफसर)	खरैती राम कलक जी. डी
3501	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाईंग अफसर)	आया सिंह एम.टी.एस.ओ
11143	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाईंग अफसर)	केकन, टी.के. इक्षि अक्षिस्टेंट
19440	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाईंग अफसर)	जोसफ, के.सी. क्लर्क एकाउंटिंग
12607	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाईंग अफसर)	चंदापिल्लै के.एम. क्लर्क एकाउंटिंग

एम० पी० कारिप्पा, सचिव

No. 10-E, dated 22nd January 1973.—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted Honorary Flight Lieutenants w.c.f. 26th January, 1973 under A.F.I. 20 of 1960 as amended.

20810	MWO	(Hony. Fg. Offr.)	Kharaiti Ram	Clk. GD
3501	MWO	(Hony. Fg. Offr.)	Aya Singh	MTSO
11143	MWO	(Hony. Fg. Offr.)	Kekan T.K.	Eq. Asst.
19440	MWO	(Hony. Fg. Offr.)	Joseph K.C.	Clk. Accy.
12607	MWO	(Hony. Fg. Offr.)	Chandapillai K.M.	Cl. Accy.

M. P. CARIAPPA, Jr. Secy.



